

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN  
VISWA BHARATI  
LIBRARY

T (03) 3

G. G

Pt 1













# गल्पगुच्छ

पहला भाग

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अनुवादक

धन्यकुमार जैन

‘विशाल-भारत’ पुस्तकालय

१२०१३, अपर सर्क्कारी रोड, कलकत्ता

मुद्रक और प्रकाशक  
सजनीकान्त दास, 'प्रवासी'-प्रेस  
१२०१२, अपर सरकूलर रोड  
कलकत्ता।

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

पहला संस्करण  
पौष, '१९८६.  
मूल्य / १।  
सजिल्ड १।।)

## सूचीपत्र

१ घाटकी बात	...	...	१
२ सड़ककी बात	...	...	१७
३ देन-लेन	...	...	२५
४ पोस्ट-मास्टर	...	...	३७
५ बहूजी	...	...	४७
६ रामकल्हाईकी मूर्खता	...	...	५३
७ व्यवधान	...	...	६२
८ ताराप्रसन्नकी करतूत	...	...	७०
९ लल्लूका लौटना	...	...	८२
१० सम्पत्ति-समर्पण	...	...	९६
११ दलिया	...	...	१११
१२ कंकाल	...	...	१२७
१३ मुक्तिका उपाय	...	...	१४०
१४ त्याग	...	...	१५५
१५ एक रात्रि	...	...	१६७
१६ एक बरसाती कहानी	...	...	१७८
१७ जीवित और मृत	...	...	१८३
१८ खासा नावेल	...	...	१८५

## सूचना

कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी, शुरुसे आज तककी, सम्पूर्ण कहानियोंका संग्रह “गल्पगुच्छ” के नामसे कई भागोंमें क्रमशः प्रकाशित होगा। पहला भाग आपके मामने है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा भाग क्रमशः प्रकाशित किये जायेंगे।

\*

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने सम्पूर्ण ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करनेका अधिकार केवल “विशाल-भारत”को ही दिया है। इसलिए उनकी और-और पुस्तकें भी यहाँसे प्रकाशित होंगी। रवि बाबूका नया उपन्यास “कुमुदिनी” शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

—प्रकाशक

# गल्पगुच्छ

पहला भाग

## घाटकी बात

**पा**षाण पर यदि वे घटनाएँ अङ्कित होतीं, तो तुम कितने ही दिनोंकी कितनी ही बातें मेरी प्रत्येक सीढ़ीपर पढ़ सकते। पुरानी बातें अगर सुनना चाहते हो, तो इन सीढ़ियोंपर बँठो; मन लगाकर जलकी तरंगोंकी ओर कान लगाये रहो, वहुत दिनोंकी कितनी ही भूली हुई ब्रातें सुन पड़ेंगी।

मुझे और एक दिनकी बात याद आ रही है। वह भी ठीक ऐसा ही दिन था। आश्विन मासके आनेमें दो-ही-चार दिन बाकी हैं। सबसेरेके वक्तन, वहुत धीमी नवीन शीतऋतुकी पवन, सोकर उठे हुएकी देहमें नया जीवन ला रही है। पेड़ोंके पत्तोंको ज़ग-ज़ग फुरफुरी-सी आ रही है।

गङ्गाजी भगी हुई हैं। मेरी सिर्फ चार ही सीढ़ियां पानीके ऊपर जाग रही हैं। जलके साथ स्थलकी गलवहियाँ हो रही हैं, किनारेपर आमके बागके नीचे जहाँ अरबीका जङ्गल जम गया है, वहाँ तक गङ्गाका पानी पहुंचा है। नदीके उस घुमावके पास तीन पुराने पजाये पानीके भीतर उभरे हुए हैं। धीरोंगोंकी जो नावें किनारेपर बबूलके पेड़ोंसे बंधी थीं, वे सर्वेरंगकी ज्वारके पानीपर नैरनी हुई डगमग-डगमग कर रही हैं—दुरन्त-योवन ज्वारका पानी इतरा-इतरगक्षर उनके दोनों तरफ छप-छप आवात कर रहा है, मधुर परिहासमें मानो उनके कान पकड़कर हिला-हिला जाता है।

भगी गङ्गाके ऊपर शरन-प्रभातकी जो धूप "डी है, उसका रंग है कच्चे सोने जँसा, चम्पा-फूलके समान। धूपका ऐसा रंग, और किसी भी समय नहीं दिखाई देता। वीचकी रेतीपर उगी हुई लम्बी-लम्बी काँसपर धूप पड़ रही है। अभी तक काशके फूल सब खिले नहीं हैं, खिलने शुरू ही हुए हैं।

गम-गम कहते हुए मल्लाहोंने नावें खोल दीं। चिड़ियाँ जँसे उजेलेमें पर फैलाकर आनन्दसे नील आकाशमें उड़ रही हैं, छोटी-छोटी नावें भी वँसे ही छोटे-छोटे पाल चढ़ाकर सूर्यकी किरणोंमें निकल पड़ीं। वे चिड़ियों जैसी ही मालूम देती हैं,—गजहंसोंकी तरह पानीमें तैर रही हैं, परन्तु आनन्दमें आकर दोनों पंख आकाशमें फैला दिये हैं।

भट्टाचार्यजी ठीक नियमित समयपर पञ्चपात्र हाथमें लिये स्नान करने आये। खियां भी एक-एक दो-दो करके पानी भरने आईं।

यह बहुत ज्यादा दिनोंकी बात नहीं है। हाँ, तुम लोगोंको बहुत

दिनोंकी प्रतीत हो सकती है; पर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह कलकी वात है। मेरे दिन तो गङ्गाके स्रोतके साथ खेलते-खेलने वह जाते हैं, बहुत दिनोंसे स्थिर होकर ऐसा ही देख रहा हूँ—इसीलिये समय मुझे बहुत दीर्घ नहीं मालूम देता। मेरे दिनका प्रकाश और गतकी छाया प्रतिदिन गङ्गापर पड़ती है, और प्रतिदिन उस पर से पुछ जाती है, कहीं भी उनकी छवि नहीं दिखाई देती। इसीलिये, यद्यपि मैं देखनेमें वृद्ध ज़सा लगता हूँ, पर हृदय मेरा हमेशा नवीन है। बरसोंकी पुगनी स्मृतिरूप काईके भासने आन्दब्र होकर मेरी सूर्य-किरणों मारी नहीं गई है। देवात एकआध काईका टुकड़ा बहकर आता और देहसे लगकर फिर स्रोतमें बह जाना है। पर इससे, यह काई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहां गङ्गाका स्रोत नहीं पहुँचता, वहाँ मेरे छिद्र-छिद्रमें जो लता-गुल्म शैवाल उत्पन्न हुए हैं, वे ही मेरे पुगने साक्षी हैं, उन्हींने पुराने कालको स्नेहपाशमें बांधकर उसं चिर दिन श्यामल मधुर—चिर दिन नवीन—बना रखा है। गङ्गा प्रतिदिन मेरे पाससे एक-एक सीढ़ी उतरती जा रही हैं, और मैं भी एक-एक सीढ़ी करके पुगना हो रहा हूँ।

चक्रवर्ती-घरानेके वह जो वृद्ध पुरुष स्नान करके गमनामी ओढ़े काँपते हुए माला जपते-जपते घरको लौट रहे हैं, उनकी नानी तब इतनीसी थीं। मुझे याद है, उसका एक खेल था, वह प्रतिदिन धीकुवाँगका एक पत्ता गङ्गामें बहा जाती थी। मेरी दक्षिण भुजाके पास एक चक्र-सा था, वहींपर वह पत्ता लगातार धूमा करता था, वह गागर रखकर खड़ी-खड़ी उसीको देखा करती थी। जब देखा, कुछ

दिन बाद वह लड़की बड़ी हो गई और अपनी एक लड़कीको साथ लेकर पानी भरने आई, वह लड़की भी फिर बड़ी हो गई, लड़कियोंके पानी उछालकर ऊधम मचानेपर वह भी उन्हें डॉटनी-डपटनो और भलेमानसों जैसा आचरण करनेकी शिक्षा देती, तब मुझे उस धीकुवाँसकी नाव वहानेकी बात याद आती और बड़ा कौतुक मालूम देता।

जो बात कहना चाहता हूँ, वह आती ही नहीं। एक बात उठाता हूँ, तब नक स्रोतमें दूसरी बात वह आती है। बातें आती हैं, चली आती हैं, उन्हें धामकर नहीं रख सकता। एक-एक कहानी उस धीकुवाँसकी नावकी तरह चक्करमें पड़कर बिना खिश्राम लिये लौट-लौट आती है। इसी तरह आज एक कहानी अपना बोझ लेकर मेरे आसपास घूम-फिर गही है,—अब डूबी कि अब डूबी। उस पत्तेकी तरह ही वह छोटीसी है, उसमें ज्यादा-कुछ नहीं है, दो खेलके फूल हैं। उसे डूबते देखकर कोमल-हृदय बालिका सिर्फ एक लम्बी साँस खींचकर घर लौट जायगी।

मन्दिरके पास, जहाँ वह गुसाँइयोंकी गोशालाका बाँसका बेंड़ा देख रहे हो, वहाँ एक बबूलका पेड़ था। उसीके नीचे सप्ताहमें एक रोज पेठ लगती थी। तब तक गुसाँइयोंने यहाँ घर-द्वार नहीं बनाया था। जहाँ अभी उनका चण्डी-मण्डप है, वहाँ एक फूँसकी झाँपड़ी मात्र थी।

यह बटवृक्ष जो आज मेरी पसलियोंमें हाथ फैलाकर विकट और लम्बी कठिन उंगलियोंकी भाँति अपनी जड़ोंसे मेरे विदीर्ण पाषाण-प्राणको मुट्ठीमें किये हुए है, यह वृक्ष तब इतनासा छोटा पौधा था,

वस। अपनी हरी-हरी नई पत्तियोंको लिये सिर उठाकर खड़ा हो रहा था। घाम पड़नेपर उसकी उन पत्तियोंकी छाँह मेरे ऊपर मारे दिन खेला करती, इसकी नई जड़ें बच्चोंकी उँगलियोंकी तरह मेरी छातीके पास चुलबुलाया करती। कोई इसकी एक भी पत्ती नोड़ता, तो मुझे पीर होती।

यद्यपि उम्र काफ़ी हो चुकी थी, पर तब भी मैं सीधा था। आज मैं, मेस्ट्रिंग टूट जानेसे अष्टवक्रकी तरह टेढ़ा-मेढ़ा हो गया हूं, गहरी त्रिक्लि-गेवाओंकी तरह शरीरपर हज़ारों जगह दगरे पड़ गई हैं, मेरे भीतर दुनिया-भूके मेंढक जाड़ेके दिनोंमें लम्बी नींद सोनेकी नव्यास्त्रियां कर रहे हैं,—तब मेरी ऐसी दशा न थी। सिर्फ़ मेरी वाईं भुज़में वाहरकी तरफ़ दो ईटोंकी कमी थी, उस खोहमें एक चिंगाने घोंसला बना लिया था। तड़के ही जब वह कवट बढ़लकर जागती, मछलीकी पूँछकी तरह अपनी डवल पूँछको दो-चार बार जल्दी-जल्दी नचाकर सीटी देकर आकाशमें उड़ जाती, तब मैं समझ लेता कि कुमुमके घाटपर आनेका समय हुआ।

जिस लड़कीकी बात मैं कह रहा हूं, घाटकी और-और लड़कियाँ उसे कुमुम कहकर पुकारती थीं। शायद कुमुम ही उसका नाम था। पांनीपर जब कुमुमकी छोटीसी छाया पड़ती, तो मेरे मनमें आता कि किसी तरह उस छायाको पकड़ रखूँ। उसमें कुछ ऐसी ही माधुरी थी। वह जब मेरे पापाणपर पैर रखती और उसके दीनों पैरोंके छड़े बजते, तब मेरे शंखालगुल्म मानो पुलकित हो उठते। कुमुम बहुत ज्यादा खेलती या बतगती हो, या हँसी-मसख़ी करती

हो, सो भी नहीं, तो भी आश्र्वयकी बात यह थी कि उसकी जितनी भी साथिनें थीं, उनमेंसे उस जैसी कोई न थी। चंचल लड़कियोंका उसके बिना काम ही न चलता था। कोई उसे कुसी कहती, कोई खुसी और कोई ग़क्खसी ! उसकी मा उसे कमूमी कहती। जब देखो तब कुमुम पानीके किनारे बैठी है। पानीके साथ उसके हृदयका मानो कोई घनिष्ठ सम्बन्ध है। पानी उसे बड़ा अच्छा लगता था।

कुछ दिन बाद कुमुमको फिर घाटपर नहीं देखा। भुवना और स्वर्णा घाटपर आकर गेती। सुननेमें आया कि उनकी कुसी-खुसी-राक्खसीको कोई सुसागल ले गया है। वहां सब नबे आदमी हैं, नया घर-द्वार है और नया ही मार्ग और घाट। पानीके कमलको मानो कोई ज़मीनपर बोने ले गया हो।

धीरे-धीरे कुमुमकी बातें एक तरहसे भूल चुका हूं। एक वर्ष बीत गया। घाटकी लड़कियाँ कुमुमकी बात भी ऐसी-कुछ नहीं छेड़तीं। एक दिन सन्ध्याके समय बहुत दिनोंके परिचित पैरोंके स्पर्शसे सहसा मैं चौंक उठा। मालूम हुआ मानो कुमुमके पैर हैं। वे ही तो हैं, पर उन पैरोंमें अब छड़े नहीं बजते। उन पैरोंमें वह सङ्गीत नहीं है। कुमुमके पैरोंका स्पर्श और छड़ोंकी आवाज, हमेशासे दोनोंको एकत्र अनुभव करता आया हूं,—आज सहसा उन छड़ोंकी आवाज न सुनकर सन्ध्या-समयका जल-कलोल कँसा उदास सुनाई पड़ने लगा, आमके बागमें पत्तोंको खड़खड़ाती हुई बयार कँसा हाहाकार करने लगी।

कुमुम विधवा हो गई है। सुना है, उसका पति परदेशमें नौकरी

करता था ; दो-एक दिनके सिवा पतिसं उसकी अच्छी तरह भेंट भी न हो पाई थी । पत्र द्वारा बैधव्यका समाचार पाकर आठ बरसकी उम्रमें माथेका सिन्दूर पोंछकर, शरीरके गहने उतारकर, फिर वह अपने देशमें इसी गङ्गाके किनारे लौट आई है । परन्तु उसकी संगिनियोंमेंसे भी अब ऐसी कोई नहीं रह गई हैं । भुवना, स्वर्णा, अमला, सब समुखका घर सम्हालने चली गई हैं । सिर्फ शग्न है, पर सुनता हूँ, अगहनमें उसका भी ब्याह हो जायगा । कुमुम विलकुल अकेली रह गई है । परन्तु वह जब दोनों शुटनोंपर सिर गँवकर चुपचाप सीढ़ियोंपर बँठी रहती, तब मुझे ऐसा मालूम पड़ता कि मानो नदीकी लहरें सब मिलकर हाथ उठाकर उसे कुसी-खुसी-ग़क्सी कहकर पुकार रही हैं ।

वर्षांके आगम्भमें गङ्गा जैसे प्रतिदिन देखते-देखते भर उठती है, कुमुम भी वंसे ही देखते-देखते प्रतिदिन सौन्दर्यसे यौवनसे भरने लगी । परन्तु उसके मर्लिन वसन, करण मुख और शान्त स्वभावने उसके यौवनपर ऐसा एक छायामय आवरण डाल दिया है कि वह विकसित रूप सबके देखनेमें नहीं आता । कुमुम अब बड़ी हो गई है, इसपर किसीकी दृष्टि ही नहीं जाती । कम-से-कम मेरी तो नहीं जाती । मैंने कुमुमको उस बालिकासे बड़ी कमी नहीं देखा । उसके छड़े तो न थे, पर जब वह चलती, तो मुझे छड़ोंकी आवाज़ सुनाई पड़ती । इसी तरह दस वर्ष बीत गये, गांवके लोगोंको कुछ मालूम ही न पड़ा ।

यह आज जैसा देख रहा हूँ, उस वर्ष भी भाद्र मासके अन्तमें ऐसा ही एक दिन आया था । तुम्हारी परदादियोंने उस दिन सबेरे

उठकर इसी तरहका मधुर सूर्यका आलोक देखा था । वे जब इतना लम्बा घूँघट स्वीचकर गागर उठाकर मेरे ऊपर प्रभातके सूर्यालोकको और भी प्रकाशमय करनेके लिये, पेड़ोंमें होकर गाँवकी ऊँची-नीची सड़कों परसे बातें करती हुई चली आती थीं, नव तुम्हारी सम्भावना भी उनके मनके एक कोनेमें उद्धित न होती थी । तुम्हें जैसे उन बातोंकी ठीक-ठीक याद नहीं है, तुम्हारी दादियां भी सचमुच एक दिन खेलनी-फिरती थीं, आजका दिन जैसा सत्य है, जैसा जीता-जागता है, वह दिन भी ऐसा ही सत्य था; तुम्हारी नग्न करण हृदय लेकर सुखमें दुःखमें वे तुम्हारी ही तरह डगमगाती हुई भूली हैं, वैसा ही आजका यह शरनका दिन—उनसे रहित, उनके सुख-दुःखकी स्मृतिके लेशमात्रसे हीन आजका यह शरदऋतुके सूर्य-किरणोंका सौन्दर्य—उनकी कल्पनाके सामने उससे भी अधिक अगोचर था ।

उस दिन भोग्से ही उत्तरकी पहली व्याग मन्द-मन्द वहती हुई खिले हुए बवूलके फूलोंमेंसे एकआध मेरे ऊपर उड़ाकर फेंक रही थी । मेरे पापाणपर थोड़ी-थोड़ी ओसकी रेखाएँ पड़ी हुई थीं । उस दिन सबेरे न-जाने कहाँसे गोरे बदनके, सौम्य और उज्ज्वल चेहरेवाले, लम्बी देहके एक नवीन संन्यासीने आकर मेरे सामनेवाले उस शिव-मन्दिरमें आश्रय लिया । संन्यासीके आगमनकी बात गाँव-भग्नमें फैल गई । खियोंने गागरें रखकर बाबाजीको प्रणाम करनेके लिये मन्दिरमें जाकर भीड़ लगा दी ।

भीड़ दिनों-दिन बढ़ने लगी । एक तो संन्यासी, दूसरे अनुपम रूप, तिसपर वे किसीकी अवहेलना नहीं करते, बज्जोंको गोदमें लेकर

विठाते, मानाओंसे घरके काम-धन्धोंकी बातें पूछते। स्त्री-समाजमें थोड़े ही दिनोंमें उनकी अत्यन्त प्रतिष्ठा हो गई—पुजने लगे। उनके पास पुरुष भी बहुत आते। किसी दिन भागवत पढ़ते, किसी दिन भगवद्गीताकी व्याख्या करते, किसी दिन मन्दिरमें वैटकर अनेक शास्त्रोंकी चर्चा करते। उनके पास कोई उपदेश सुनने आता, कोई मन्त्र लेने। कोई गोगकी औपचिं जानने आता, —अहा क्या रूप है ! जान एड़ता, मानो साक्षात् महादेव ही मनुष्य-शरीर धारण कर अपने मन्दिरमें आ विराजे हैं।

संन्यासी प्रृतिदिन तड़के ही सूर्योदयसे पहले जब शुक्रतारके सामने—गङ्गाके पानीमें गले तक डूबकर—धीर-गम्भीर स्वर्से सन्ध्या-वन्दन करते, तब मुझे पानीकी तरंगोंका कलकल शब्द न सुनाई देता। उनके उस कण्ठस्वरको सुनते-सुनते प्रतिदिन गङ्गाके पूर्व उपकूलमें आकाश गुलाबी हो उठता, बादलोंके किनारे-किनारे अमृण गंगकी रेखाएँ पड़ जातीं, अन्धकार मानो विकासोन्मुख कलीके आवरण-पटकी तरह फटकर चारों तरफ झुक जाता और आकाश-सरोवरपर ऊपाकी लाल आभा थोड़ी-थोड़ी करके निकल आती। मुझे जान पड़ना कि यह महापुरुष गंगाके पानीमें खड़े होकर पूर्वकी ओर दृष्टि किये जिस महामन्त्रका पाठ करते, उसीका एक-एक शब्द उच्चारित होता रहता और रजनीकी माया दूर होती जाती, चन्द्र और तारे पश्चिमको उतर जाते, सूर्य पूर्वोक्ताशमें उदित होता रहता, जगन्‌का दृश्यपट परिवर्तित हो जाता। यह कौन है मायाबी ! स्नान करके संन्यासी जब होम-शिख्याके समान अपने लम्बे शुभ्र पृण्य-शरीरको

लेकर पानीसे निकलते, उनके जटाजूटसे पानी भरता रहता, तब नवीन सूर्य-किरणे उनके सारे अंगमें पड़कर प्रतिफलित हो उठतीं।

इस तरह और भी कई मास बीत गये। चंतके महीनेमें सूर्यप्रहणके समय हजारों आदमी गंगा-स्नानके लिये आये। वबूलके पेड़ोंके नीचे बड़ी-भागी पेठ लगी। इसी मौकेपर संन्यासीके दर्शनके लिये भी वहुतसे आदमी आये। जिस गांवमें कुमुमकी समुगल थी, वहांसे भी वहुतसी औरतें आई थीं।

सबेरे मेंगी सीढ़ियोंपर बैठे संन्यासी जप कर रहे थे, उन्हें देखते ही सहसा एक स्त्री साथकी दूसरी स्त्रीका कंधा मसककर बोल उठी—“अरी ओ, ये तो अपनी कुमुमके मालिक हैं।”

एक स्त्री दो उंगलियोंसे अपने घूँघटको कुछ ऊँचा करके कहने लगी—“अरी हाँ गी ! ये तो हमारे चटर्जियोंके घूँके छोटे भड़याजी हैं।” और एक जो थी, वह घूँघटका इतना आडम्बर न करती थी, उसने कहा—“हाँ गी, वैसी ही नाक है, वैसी ही आँखें हैं।”

चौथीने संन्यासीकी तरफ बिना देखे ही गहरी साँस लेकर गागासे पानीको धक्का देकर कहा—“हाय ! वह अब कहाँ है ! वह क्या अब आयेगा ? कुमुमकी क्या ऐसी ही तकदीर है !”

तब फिर किसीने कहा—“उसके इननी ढाढ़ी नहीं थी !”, कोई बोली—“वह ऐसा दुबला न था !” कोई कहने लगी—“वह इनना लम्बा कहाँ था ?”

इस प्रकार बातका एक तरहसे निर्णयसा हो गया, बात दब गई। गांवके और-सबोंने संन्यासीको देखा था, मिर्झ कुमुमने नहीं

देखा। ज्यादा आदमियोंका समागम होते रहनेसे कुमुमने मेरे पास आना विलकुल ही छोड़ दिया था। एक दिन मन्न्याके समय पूर्णिमाको आकाशमें चाँद उठते देख शायद हम दोनोंका पुगना सम्बन्ध उसे याद आ गया।

उस समय घाटपर और कोई न था। भीगुर अपनी 'भी-भी'की तान अलाप रहे थे। मन्दिरके घंटा-घड़ियालोंकी ध्वनि भी कुछ देर पहले बन्द हो गई थी, उसकी अन्तिम शब्द-तरंगें क्षीणतर होकर उम्ह पारकी छायामय बन-थ्रेणीमें जाकर छायाकी तरह विलीन हो गईं। पूरी चाँदनी छिटक रही है। ज्वारका पानी छप-छप कर रहा है। मेरे ऊपर छाया डालकर कुमुम बैठी है। हवा अमी हुई है, पेढ़-पौधे चुपकी साथ गये हैं। कुमुमके सामने गङ्गाके बझ-स्थलपर वेगोक-टोक, फैली हुई चाँदनी है,—कुमुमके पीछे, आस-पास, पेढ़-पत्तियोंमें, मन्दिरकी छायामें, टूटे-फूटे मकानोंकी भीनोंपर, पोखरके किनारे—सर्वत्र चाँदनी विश्वर रही है। ताड़-बनका अन्यकार अपनी देह दुवकाकर मुँह छिपाकर बैठा हुआ है। छतिवनके पेढ़ोंकी डालियोंपर चमगादड़ लटक रहे हैं। वस्तीके पास गीदड़ोंकी ज़ोरोंकी ध्वनि उठी और थम गई।

सुन्न्यासी धीर-धीर मन्दिरके भीतरमें वाहर निकल आये। घाटपर आकर दो-एक सीढ़ी उतरते ही उनकी दृष्टि कुमुमपर पड़ी! अकेली खीको पंसे एकान्त स्थानमें बैठी देख वे लौटना ही चाहते थे,—इतनेमें सहसा कुमुमने मुँह उठाकर पीछेकी ओर देखा।

उसके सिरका कपड़ा पीछेको गिरसक गया। ऊर्ध्वमुख रिलते

हुए फूलपर जैसे चाँदनी पड़ती है, मुँह उठाते ही कुमुमके मुँहपर वैसे ही चाँदनी आ पड़ी। उसी क्षणमें दोनोंने एक दूसरेको देखा, मानो जान-पहचान हो गई। मालूम हुआ, मानो पूर्वजन्मका परिचय था।

सिरके ऊपरसे उल्लू बोलता हुआ उड़ गया। शब्दसे चकित होकर कुमुमने होश सम्भाला - सिरका कपड़ा स्वीच लिया। उठकर संन्यासीके पैरोंके पास जाकर साप्राङ्ग प्रणाम किया।

संन्यासीने आशीर्वाद देकर उससे पूछा—“तुम्हारा नाम क्या है ? कुमुम बोली—“मेरा नाम कुमुम।”

उस गतको फिर कोई वान न हुई। कुमुमका घर बहुत नज़दीक ही था, कुमुम धीरे-धीरे घरको चल दी। उस गतको संन्यासी बहुत देर तक मेरी सीढ़ियोंपर बैठे रहे। अन्तमें पूर्वका चाँद जब पश्चिमको पहुंच गया—संन्यासीके पीछेकी छाया स्थानने आ गई, तब वे उठकर मन्दिरमें चले गये।

उसके दूसरे दिनसे मैं देखता, कुमुम रोज़ आकर संन्यासीकी पदधूलि ले जाती। संन्यासी जब शास्त्र-व्याख्या करते, तब वह एक तरफ खड़ी होकर सुनती। संन्यासी प्रातःसन्ध्या कर चुकनेके बाद कुमुमको बुलाकर उसे धर्मकी बातें सुनाते। सब बातें क्या वह समझ सकती थी ? परन्तु खूब मन लगाकर ध्यानसे चुपचाप बैठी-बैठी सब सुना करती। संन्यासी उसे ज़ंसा उपदेश देते, वह हूबहू बैसा ही उसका पालन करती। प्रतिदिन वह मन्दिरका काम करती, देव-सेवामें आलस्य नहीं करती, पूजाके लिए फूल चुनती, गङ्गासे पानी भरकर मन्दिर धोती।

संन्यासी उसे जितनी भी बातें बताते, मेरी सीढ़ियोंपर बैठकर वह उन्हींको सोचा करती। धीरं-धीरे उसकी दृष्टि मानो दूर तक फैल गई; उसने जो देखा नहीं था, अब उसे वह देखने लगी; जो सुना नहीं था, उसे सुनने लगी। उसके प्रशान्त मुखमण्डल पर जो एक म्लान छाया थी, वह दूर हो गई। प्रातःकालमें जब वह भक्ति-भावसे संन्यासीके पैरोंके पास लोट जाती, तब वह देवतापर चढ़ाये हुए ओससे धुले पूजाके फूलके समान ढीखती। एक मुविमल प्रकृत्ता उसके सारं शरीरको प्रकाशमय बना देती।

शीतऋतुके इस अवसानके समय जाड़ेकी हवा चलती है, और किसी-किसी दिन सून्दर्यके समय सहसा दक्षिणसे वसन्तकी पवन बहने लगती है, आकाशसे ओसका भाव एकबारगी दूर हो जाता है। वहुन दिन बाँद गाँवमें बंसी बजने लगती है, गीतकी ध्वनि मुनाई पड़ती है। मल्लाह लोग न्योतमें नाव बहाकर डाँड़ खेना बन्द करके श्याम-कन्हैयाके गीत गाने लगते हैं। इस डालीसे उस डालीपर सहसा पक्षीगण परम उल्लाससे उत्तर-प्रत्युत्तर करना शुरू कर देते हैं। ऋतु अब ऐसी ही आ गई है।

- वसन्तकी हवा लगनेसे मेरे पापाण-हृदयके भीतर भी मानो कुछ-कुछ यौवनका संचार हो गहा है; मेरे हृदयके भीतरके उस नवयौवनो-छवासको आकर्षित करके ही मानो मेरी लताएँ और पौधे देखते-देखते फूलोंसे एकबारगी विकसित हुए जा रहे हैं। इस समय, कुसुमको अब नहीं देखता। कुछ दिनसे वह मन्दिरमें भी नहीं आती, संन्यासीके पास भी उसे नहीं देखता।

इसी बीचमें क्या हो गया, मैं कुछ भी न समझ सका। कुछ दिन बाद, एक दिन सन्ध्याके समय मेरी ही सीढ़ियोंपर सन्यासीके साथ कुमुमकी भेट हुई।

कुमुमने सिर झुकाकर कहा—“प्रभु, क्या मुझे आपने बुलाया था ?”

“हाँ, तुम दिखाई क्यों नहीं देती ? आजकल देव-सेवामें तुम्हारी इतनी लापरवाही क्यों हो गई ?”

कुमुम चुपचाप खड़ी रही !

“मुझसे तुम अपने मनकी बात खोलकर कहो।”

कुमुमने कुछ मुँह फेरकर कहा—“प्रभु, मैं पापिन हूँ, इसीलिये ऐसी लापरवाही है।”

सन्यासीने अत्यन्त स्नेह-पूर्ण स्वरमें कहा—“कुमुम, तुम्हारे हृदयमें अशान्ति पंदा हो गई है, मैं यह समझ गया हूँ।”

कुमुम मानो चौंक उठी,—उसने शायद समझा, सन्यासीने न-जाने कितना समझा होगा। उसकी आँखें धीरे-धीरे ढबडबा आईं, वह बहींपर बैठ गई; आँचलसे मुँह टक्कर सीढ़ीपर सन्यासीके पैरोंके पास बैठी-बैठी गेने लगी।

सन्यासीने कुछ दूर हटकर कहा—“अपनी अशान्तिकी बात तुम मुझसे साफ-साफ कहो, मैं तुम्हें शान्तिका मार्ग बताऊँगा।”

कुमुमने अटल भक्तिके स्वरमें कहना प्रागम्भ किया, पर बीच-बीचमें वह रुक-रुक गई, कहीं-कहीं बातें अटक गईं—“आप आज्ञा देंगे, तो अवश्य कहूँगी। पर, मैं अच्छी तरह न कह सकूँगी, लेकिन

आप तो शायद मन-ही-मन सब कुछ समझ रहे होंगे । प्रभु, मैं एक जनेको देवताके समान भक्ति करती थी, मैं उनकी पूजा करती थी, उस आनन्दसे मेरा हृदय भर गया था । एक दिन गतको स्वप्नमें देखा, मानो वे मेरे हृदयके स्वामी हैं, न-जाने कहाँ एक बकुल-बनमें बैठकर अपने बाएँ हाथमें मेरा दाहिना हाथ लिये मुझे वे प्रेमकी बातें सुना रहे हैं । यह घटना मुझे जग भी असम्भव—कुछ भी आश्रयकी—नहीं मालूम दी । स्वप्न टूट गया, पर स्वप्नका आवेश न गया । उसके दूसरे दिन जब उन्हें देखा, तो बंसे न थे । उनमें उसी स्वप्नकी तसवीर उद्दिन होने लैगी । डग्से दूर भाग गई, पर वह तसवीर मेरे साथ-ही-साथ रही । तभीसे मेरे हृदयकी अशान्ति दूर नहीं होती,—मेरा सब-कुछ अन्धकारमय हो गया है ।”

जब कुमुम औंपू पोँछती हुई बातें कह रही थी, तब मैं अनुभव कर रहा था कि सन्न्यासीने अपने दाहिने पंखसे मेरा पापाण दबा रखता है ।

कुमुमकी बात समाप्त होनेपर सन्न्यासीने कहा—“जिसे स्वप्नमें देखा था, वह कौन है—बताना पड़ेगा ।”

कुमुमने हाथ जोड़कर कहा—“सो मैं नहीं बता सकूँगी ।”

सन्न्यासीने कहा—“तुम्हारे मङ्गलके लिये ही पूछ रहा हूँ, वह कौन है, साफ-साफ बताओ ।”

कुमुमने जोगोंसे अपने कोमल होथोंको दबाकर, हाथ जोड़कर कहा—“तो क्या बताना ही पड़ेगा ।”

सन्न्यासीने कहा—“हाँ, बताना ही पड़ेगा ।”

कुमुम उसी दम बोल उठी—“प्रभु, तुम्हीं तो हो ।”

ज्योंही उसकी अपनी वात अपने कानोंमें पड़ी, त्योंही वह मूर्ञ्छित होकर मेरी गोदमें गिर पड़ी। संन्यासी पत्थरकी मूर्तिकी तरह खड़े गई।

जब मूर्छा छूटी, कुमुम उठकर बैठी, तब संन्यासीने धीरे-धीरे कहा—“तुमने मेरी सभी वातें पालन की हैं; और भी एक वात पालन करनी होगी। मैं आज ही यहांसे जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम्हारी भेट न होने पावे। मुझे तुम भूल जाओ। बताओ इन्हीं तपस्या करोगी !”

कुमुम उठकर खड़ी हो गई और संन्यासीके मुँहकी ओर देखकर धीर स्वरसे बोली—“प्रभु, ऐसा ही होगा !”

संन्यासीने कहा—“तो मैं जाता हूँ ।”

कुमुमने और कुछ न कहके उन्हें प्रणाम किया, उनके पंगोंकी धूल सिंगे लगाई। संन्यासी चले गये।

कुमुमने कहा—“आज्ञा दे गये हैं—उन्हें भूलना होगा ।” कहनी हुई वह धीरे-धीरे गङ्गाके पानीमें उतरी।

छोटेपनसे उसने इसी पानीके किनारे दिन बिताये हैं, श्रान्तिके समय यह पानी यदि हाथ बढ़ाकर उसे गोदमें न लेगा, तो और कौन लेगा ! चाँद अस्त हो गया, रात्रि धोर अन्धकारमय हो गई। पानीका शब्द सुनाई पड़ा, और कुछ भी समझमें न आया। अन्धकारमें हवा सनसनाने लगी; शायद कुछ दीख न जाय, यह सोचकर हवाने मानो फूँककर आकाशके तांगोंको बुझा देना चाहा।

मेरी गोदमें जो खेला करती थी, वह आज अपना खेल समाप्त कर मेरी गोदसे खिसक गई, मैं जान भी न पाया।

## सड़ककी बात

मैं सड़क हूँ। अहल्या जैसे मुनिके शापसे पापाण हो गई थी, मैं भी वैसे ही मौनो किसीके शापसे चिर-निर्द्रित बड़े-भागी अजगरकी तरह, वन-जङ्गल-पर्वतोंमें होकर, पेड़ोंकी छायाके नीचेसे, मुविस्तृत प्रान्तरके ऊपरसे, देश-देशान्तरको बेष्टन करनी हुई बहुत दिनोंसे जड़-निद्रामें सोई हुई हूँ। असीम धर्योंके साथ धूलमें लोटकर शापकी अन्तिम घड़ियोंकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं हमेशासं स्थिर हूँ, अचल हूँ, हमेशासे एक ही क्रवटसे सो रही हूँ, किन्तु फिर भी मुझे एक घड़ीके लिये भी विश्राम नहीं। इतनी भी छुट्टी नहीं कि अपनी इस कठिन और मूरबी सेजपर एक भी कोमल सिंगध हरी घास उगा सकूँ। इतना भी समय नहीं कि अपने सिंगहानेके पास बहुत छोटासा नीले रंगका एक बनफूल खिला सकूँ। बोल नहीं सकती, पर अन्धेकी तरह सभी-कुछ अनुभव कर रही हूँ। गत और दिन पर्योंकी आहट—सिर्फ पर्योंकी आहट ! मेरी इस जड़-निद्रामें हजारों-लाखों

चरणोंके शब्द दिन-रात दुःस्वप्रकी तगड़ धूमते रहते हैं। मैं उन चरणोंके स्पर्शमें उनके हृदयको पढ़ सकती हूं। मैं समझ जाती हूं, कौन घर जा रहा है, कौन कामपर जा रहा है, कौन आगम करने जा रहा है, कौन उत्सवमें जा रहा है, और कौन श्मशानको जा रहा है। जिसके सुखकी गिरस्ती है—स्नेहकी छाया है, वह प्रत्येक क़दमपर सुखकी तसवीर बीचता चलता है, हर क़दमपर आशाके बीज बोता जाता है; जान पड़ता है, जहाँ-जहाँ उसके पर पड़े हैं, मानो वहाँ क्षण-भरमें ही एक-एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। जिसके घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेपमें न आशा है, न अर्थ है; उसके क़दममें न दायाँ हैं, न बायाँ हैं; उसके पर कहने रहते हैं—‘मैं चलूँ तो क्यों, और ठहरूँ तो किस लिये?’ उसके पदक्षेपमें मेरी सूखी धूल मानो और भी सूख जाती है।

दुनियाँकी कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाती। आज संकड़ों-हजारों वर्षोंसे मैं लाखों-करोड़ों लोगोंकी कितनी हँसी, कितने गाने, कितनी बानें सुननी आई हूं; पर थोड़ीसी सुन पानी हूं। बाकीकी सुननेके लिये जब कान खड़े करती हूं, तब देखती हूं कि वह आदमी ही नहीं रहा! ऐसी कितने ही बरसोंकी कितनी ही टृटी-फूटी बानें, कितने ही बिखरे हुए गाने मेरी धूलके साथ धूल बन गये हैं, मेरी धूलके साथ उड़ते रहते हैं, इसे क्या कोई जान सकता है! वह सुनो, कोई गा रही है—“कहूँ-कहूँ, पर कह नहीं पाई!”—अह, ज़रा ठहरो, गानेको पूरा कर जाओ, पूरी बात सुन लूँ! पर कहाँ ठहरी वह? गाते-गाते न जाने कहाँ चली गई, अन्त तक मैं सुन न पाई। यह एक ही पद

आधी गत तक मेरे कानोंमें गूँजता रहेगा। मन-हो-मन सोचूँगी, वह कौन थी? कहाँ जा रही है न-जाने! जो बात कह नहीं पाई है, क्या उसे ही फिर कहने जा रही है? अबकी जब मड़कपर फिर उससे भेट होगो, वह जब मुँह उठाकर इसके मुँहकी तरफ ताकेगा, नब कहूँ-कहूँ करके फिर भी यदि न कह पाई, तो! तब सिर नीचा करके मुँह फेरकर बहुत धीर-धीर लौटते समय फिर भी यदि वह गाव—“कहूँ-कहूँ, पर कह नहीं पाई!”

•समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण-चिह्नको भी तो मैं अधिक देर तक थामकर नहीं रख सकती। अविश्राम चिह्न पड़ रहे हैं, फिर नये पर आकर अन्य पर्गोंके चिह्नोंको पांछ जाते हैं। जो चला जाता है, वह तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता; यदि उसके सिरके बोझसे कुछ मिलता भी है, तो सहस्र चरणोंके तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देरमें वह धूलमें मिल जाता है। परन्तु एक बात अब भी देख रही हूँ, किसी-किसी महापुरुषके पुण्य-स्तूपके अन्दर ऐसा एक अमर बीज पड़ गया है, जो धूलमें पड़कर भी अंकुरित और बढ़ित होकर मेरे बगलमें स्थायीरूपसे विराज रहा है, और नये पर्यक्तोंको छाया प्रदान कर रहा है।

मैं किसीका भी लक्ष्य नहीं हूँ—सबका उपाय-मात्र हूँ। मैं किसीका घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मुझे दिन-गत यही शोक रहता है कि मुझपर कोई चरण नहीं रखता—मुझपर कोई गड़ा रहना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर है, वे मुझे ही कोसते और शाप

देते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्यके साथ उनके घरके द्वार तक पहुँचा देती हूँ, उसके लिए कृनज्ञता कहां पानी हूँ? वे घर जाकर आगम करते हैं, घरपर आनन्द लटते हैं, घरमें उनका सुख-सम्मिलन होता है, और सुखपर केवल थकावटका भाव दग्धसातं है, केवल अनिच्छा-कृत श्रम हुआ समझते हैं, केवल विच्छेदका कागण मानते हैं। क्या इसी तरह वार-वार, दूर ही मैं, घरके भरोखोंमें पांच पसारकर सूर्योलोकमें आती हुई मधुर हास्य-लहरी मेरे पास आते ही शून्यमें अदृश्य हो जायगी! घरके उस आनन्दकी एक त्रृट भी मैं नहीं पाऊँगी?

कभी-कभी वह भी पातो हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हँसते-हँसते शोगगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। अपने घरका आनन्द वे गमनपर ले आते हैं। उनके पिताका आशीर्वाद, मानाका स्नेह घरसे बाहर निकलकर सड़कपर आकर भी मानो घर बना देता है। मेरी धूलमें वे स्नेह दे जाते हैं। मेरी धूलको वे वशमें कर लेते हैं, और अपने छोटे-छोटे कोमल हाथोंमें उसकी ढंगीपर मृदु-मृदु थपकियां देकर परम स्नेहसे उसे मुलाया चाहते हैं। निर्मल हृदय लेकर बैठे-बैठे उसके साथ बातें करते हैं। हाय-हाय! इतना स्नेह पाकर भी मेरी वह धूल उसका उत्तर तक नहीं दे सकती!

छोटे-छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपरमें चले जाते हैं, तब अपनेको मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ; मालूम होता है, उनके पाँवोंमें लगती होगी। उस समय मुझे कुमुम-कलीकी तरह कोमल होनेकी साध होती है।

गविकाने कहा है :—

“जहाँ जहाँ अरुन चरण चलि जाना,  
तहाँ तहाँ धर्मि होय मम गाता !”

अरुण चरण ऐसी कठोर धर्मीपर क्यों चलते हैं ? पर वे यदि न चलते, तो शायद कहीं भी हरी-हरी धास पेंदा न होती ।

प्रतिदिन नियमित स्थापने जो मेरे ऊपरसे चलते हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ । पर वे नहीं जानते कि उनके लिये मैं प्रतीक्षा किया करती हूँ । मैं मन-ही-मन उनकी मूर्तिकी कल्पना कर लेती हूँ । बहुत दिन हुए, ऐसो ही एक प्रतिमा अपने को मल चरणोंको लेकर दो पहारोंको बहुत दूरसे आती—छोटे-छोटे दो नृपुर सुनझुन-सुनझुन करके उसके पांचोंमें गो-गोकर बजते । शायद उसके ओट बोलनेके ओट न थे, शायद उसकी बड़ी-बड़ी आँखें सन्ध्याके आकाशकी भाँति मून हाइसे मुँहकी ओर देखती रहती थीं । उस चबूतरगवाले बट-बृक्षके बाईं तरफ, जहाँसे मेरी एक शाखा गाँवकी ओर चली गई है, वहाँ वह पेड़के नीचे हारी-थकी चुपचाप खड़ी रहती । दूसरा एक कोई दिन-भरका काम पूरा करके अनमने मनसे गाना गाना हुआ उस समय गाँवकी ओर चला जाता । वह शायद किसी भी तरफ ताकता न था, कहीं भी ठहरना न था, सीधा घरके द्वारपर जाकर अपना पूरबी गाना समाप्त करता था । उसके चले जानेपर वह बालिका थके हुए पैरोंसे फिर उसी गानेसे लौट जाती, जिससे वह आई थी । बालिका जब लौटती, तब मालम होता कि अनधकार हो आया है ।

सन्ध्याके अन्धकारका ठंडा स्पर्श में सारे अङ्गोंपर अनुभव करने लगती । तब गोधूलिके समयकी कौओंकी काँव-काँव विलकुल थम जाती ; पथिकोंका आना-जाना कर्गीव-कर्गीव बन्द-सा हो जाता । सन्ध्याकी पवनसे वाँसके भाड़ रह-रहकर भरभर-भरभर शब्द कर उठते । इसी तरह वह प्रतिदिन धीरे-धीरे आती और वैसे ही धीरे-धीरे चली जाती । एक दिन, फागुनके अन्तके दिनोंमें दोपहरको जब आमके बौर हवासे भड़ रहे थे, तब वह दूसरा जो आता था, न आया । उस दिन बहुत गल बीते बालिका वह लौट गई । जैसे बीच-बीचमें पेंडोंसे सूखे पत्ते भड़ रहे थे, वैसे ही कभी-कभी दो-एक बूँद आँखू मेरी नीमस तप्त धूलिपर पड़ते और सूख जाते थे । फिर उसके दूसरे ही दिन दोपहरको वह बालिका उसी पेड़के नीचे आकर खड़ी हुई, पर उस दिन भी वह न आया । फिर गंतको वह धीरे-धीरे घरकी तरफ चल दी । कुछ दूर जाकर उसमें चला न गया । मेरे ऊपर धूलिपर लौट गई । दोनों हाथोंसे मुँह ढककर छाती फाड़-फाड़कर गेने लगी । कौन हो बिटिया ! क्या इस निर्जन गत्रिमें भी कहीं कोई मेरी छातीपर आश्रय लेने आता है ! तू जिसके पाससे लौटी है, वह क्या मुझसे भी कठोर है ! तूने जिसे पुकारकर उत्तर नहीं पाया, क्या वह मुझसे भी बढ़कर गूँगा है ! तूने जिसकी तरफ देखा है, क्या वह मुझसे भी ज्यादा अन्धा है !

बालिका उठ बैठी, खड़ी हो गई, आँखें पोँछ डाली,—सड़क लोड़कर चली गई । शायद वह घर लौट गई, शायद वह अब भी शान्तमुखसे घरका काम-धन्धा करती होगी,—शायद वह किसीसे भी

अपने किसी दुःखकी वात नहीं कहती ; सिर्फ किसी-किसी दिन सन्ध्याके समय घरके आंगनमें चन्द्रमाकी चाँदनीमें पैर कंलाकर बैठी रहती है ; कोई बुलाता, तो चौंक पड़ती और भट उठकर भीतर चली जाती है । किन्तु मैंने उसके दूसरे दिनमें आज तक फिर कभी उसके चरणोंके स्पर्शका अनुभव नहीं किया ।

ऐसे किनने ही पैरोंके शब्द नीमव हो गये हैं । मैं क्या इन्ही शब्द ग्रन्थ सकती हूं ! सिर्फ उन पैरोंकी करण नृपुग्नवनि अब भी कभी-कभी याद आ जाती है । पर मुझे क्या घड़ी-भर शोक करनेकी क्लूटी मिलती है ? शोक किस-किसके लिये कर्म ? ऐसे किनने ही आते हैं, और चले जाते हैं ।

कैसी कड़ी वाम है ! उफ-उफ ! एक-एक वार उसास छोड़ती हूं और नपी हुई धूल मुनील आकाशको धुआंधार करके उड़ी चली जाती है । अमीर और गरीब, मुखी और दुःखी, यौवन और वृद्धापा, हँसी और गेना, जन्म और मृत्यु—सभी मेरे ऊपरमें एक ही उसासमें धूलके स्रोतकी तरह उड़े जा रहे हैं । इसीलिये सड़कको न हँसी है, न गेना । वह ही बीते-हुए पर शोक करता है, वर्नमानके लिये सोचता है, भविष्यके लिये आशामें ढूवा रहता है । परन्तु सड़क, वह नो वर्नमानके प्रत्येक पलमें मंकड़ों-हजारों नये-नये अनिश्चियोंको लेकर ही व्यस्त रहती है । ऐसे स्थानपर, अपने पढ़-गौवपर विश्वास करके अत्यन्त दृष्टके माथ पैर गवता हुआ कौन अपने चिरचण-चिह्न ग्रन्थ जानेका प्रयास करता है । जिनके लिये यहांकी हवामें तुम दीर्घ-निःश्वास छोड़ जाते

हो, तुम्हारे चले जानेपर क्या वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिये विलाप करते रहेंगे ? तुम्हारे वे दीर्घ-निःश्वास क्या नये अतिथिको आँखांमें आँसू खींच लायेंगे ? हवापर हवा क्या टिक सकती है ? नहाँ-नहीं, वृथा चेष्टा है। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती,— न हँसी, न रोना। सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ।

( विं सं. १६८१ )

---

## देन-लेन

पाँच लड़कोंके बाद जब एक लड़की पंदा हुई, तो मा-बापने वड़े प्यारसे उसका नाम निश्चयमा रखा। इस कुलमें ऐसा शोकीनी नाम इसमें पहले कभी सुनतेमें नहीं आया। अक्सर देवी-देवनाओंके नाम ही रखे जाते थे—गणेश, कार्तिक, पार्वती, उसके उदाहरण हैं।

अब निश्चयमाके व्याहकी बात चल रही है। उसके पिता गमगुन्डर मित्रने बहुत तलाश किया, पर पमन्द्रका कोई लड़का ही नहीं मिला। आखिर वड़े-भागी एक गयवहादुर रहेसके घर उनके इकलौते पुत्रकी झूँहोंने टोह लगाई। गयवहादुरके बाप-दादोंकी सम्पत्ति यद्यपि बहुत-कुछ नष्ट हो चुकी थी, पर था वह खानदानी घरना।

लड़केबालोंकी तरफसे दस हजार रुपये नकद और काफीसे ज्यादा देहजकी मांग पेश हुई। गमगुन्डर बिना कुछ सोचे-समझे ही इस बातपर राजी हो गये। कारण, ऐसे लड़केको किसी भी नगह हाथमें न जाने देना चाहिये।

रुपयेका इन्तजाम आखिर किसी तरह हुआ ही नहीं। गिरवी गवकर, वेचकर, वहुत कोशिश करनेपर भी छह-सात हजारकी कमी आखिर रह ही गई। इधर व्याहके दिन करीब आ रहे हैं।

अन्तको व्याहका दिन भी आ गया। वहुत ज्यादा व्याजपर एकने बाकी रुपया देना भी कठूल किया था, पर वक्तपर वह लापता हो गया। विवाह-मण्डपमें बड़ी-भारी काँय-काँय मच गई—बड़ा क्षोभ फैल गया। गममुन्दरने रायबहादुरको हाथ-पैर जोड़कर कहा—“शुभकार्य पूरा हो जाने दीजिये, रुपये में अवश्य ही अदा कर दूँगा।” रायबहादुर बोले—“रुपया बिना पाये लड़का मण्डपमें नहीं आ सकता।”

इस दुर्घटनासे अन्तःपुरमें गेना-सा पड़ गया। इस भागी विपत्तिका जो मूल कारण है, वह व्याहके कपड़े पहने, गहने पहने, माथेपर चन्दन लेपे चूपचाप बैठी है। भावी श्वशुर-कुलपर उसकी भक्ति या प्रेम खूब बढ़ रहा था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

इतनेमें एक बात नई पैदा हुई। लड़का सहसा अपने पितृदेवताके खिलाफ हो गया। वह बापसे कह बैठा—“जुर्गेन्द्र-बिक्री, भाव-तावकी बात में नहीं समझता; विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही जाऊँगा।”

बापने जिसे सामने पाया, उसीसे कहा—“देखा साहब, आजकलके लड़कोंका ढंग!” दो-एक प्रवीण पुस्त थे, उन्होंने कहा—“शास्त्र-शिक्षा और नीनि-शिक्षा तो विलकुल रही ही नहीं, इसीसे।”

वर्तमान शिक्षाका विषमय फल अपनी मन्त्रानमें प्रत्यक्ष देखकर गयवहानुर हतोद्यम हो बैठ गहे। विवाह किसी तग्ह हो गया, पर उदासीसे—विना आनन्दके।

समुगल विदा करते समय निरूपमाको हृदयसे लगाकर वाप आँखोंके आँसू न गेक सके। निरूपमाने पूछा—“वे लोग क्या अब मुझे आने नहीं देंगे, वावृजी ?”

गमगुन्दरने कहा—“क्यों नहीं आने देंगे, विटिया ! मैं तुम्हें लिवा आऊँगा।”

गमगुन्दर अक्सर लड़कीको देखने जाते हैं, पर समयीके घर उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। नौकर-चाकर तक उन्हें बुरी निर्गाहसे देखते हैं। अन्तःपुरके बाहर एक अलहदे कमरमें पांच मिनटके लिये किसी दिन लड़कीसे मिल पाते, किसी दिन यों ही लौट आते।

समधियानेमें पेसा अपमान तो सहा नहीं जाना। गमगुन्दरने नय किया कि जैसे हो, सप्ते नो अदा कर ही देने चाहिये।

परन्तु जो कृष्ण-भाग अभी सिरपर है, उसीका पाग उतागना कठिन है। गिर्मतीका खर्च भी किसी तग्ह गीचानानीसे चल गहा है, और कर्जवालोंकी निर्गाहसे बचनेके लिये तो तग्ह-तग्हके हीले-हवाले सोचने पड़ते हैं।

इधर समुगलमें उठते-बैठते लड़कीको जली-कटी मुननी पड़ती हैं। मायकेकी निन्दा मुनकर कमरेका दगवाज्ञा बन्दकर आँसू वहाना तो उसका गेज़का काम हो गया है।

खासकर मासकी घुड़की-मिड़की तो किसी तग्ह भी नहीं सुकती।

अगर कोई कहता—“अहा, कंसी शकल है ! वहूका मुँह देखकर तो तबीयत सुश हो जाती है !” सास भमककर घोल उठती—“होगी नहीं ! जैसे घरकी लड़की है, शकल भी तो वैसी ही होगी !”

और तो क्या, वहूके खाने-पहनने तककी कोई खबर नहीं लेना । अगर कोई दयावान पड़ोसिन किसी ब्रुटिका ज़िकर करती, तो सास कहती—“वस, वहुत है इतना ही !” यानी, वाप अगर पूरे रूपये देता, तो लड़कीको पूरी खानिर होती । सभी ऐसा भाव दिखलाते, मानो वहूका यहां कुछ हक ही नहीं है—वह धोखेसे घुस आई है ।

शायद, लड़कीके इस अनादर और अपमानकी बात उसके वापके कानों तक गई होगी । इसीसे गमसुन्दर अन्तमें रहनेका मकान तक बेचनेकी कोशिश करने लगे ।

परन्तु लड़कोंसे यह बात छिपा रखी कि वे उन्हें गृह-हीन करनेपर तुले हैं । निश्चय किया था कि मकान बेचकर उसीको किगयेपर लेकर रहेंगे; ऐसी तरकीबसे चलेंगे कि उनके मरनेसे पहले लड़कोंको यह बात मालूम ही न पड़ेगी ।

पर लड़कोंको यह बात मालूम हो गई । सब आकर गोने लगे । विशेषतः वडे तीनां लड़के विवाहित हैं ओर उनमेंसे किसी-किसीके बच्चे भी हैं । उनकी आपत्तिने वडा गम्भीर रूप धारण किया, आखिर मकान बेचना स्थगित रहा ।

तब गमसुन्दर जगह-जगहसे मोटी व्याजपर थोड़े-थोड़े रूपये कर्ज लेने लगे । ऐसा हुआ कि गिरस्तीका खर्च चलना मुश्किल हो गया ।

निरूपमा वापका मुँह देखकर सब समझ गई। ब्रह्म पिताके सफेद बालोंपर, मूँगे मुँहपर, और सदा संकुचित भावपर दैन्य और दुश्मिन्नाकी छाया साफ़-साफ़ दिखाई देने लगी। लड़कीके सामने जब वाप अपगधी है, तब उम अपगधका अनुताप क्या छिपाया जा सकता है? गममुन्दर जब समधियानेमें अनुमति पाकर क्षण-भरके लिये लड़कीमें मिलने, नव वापकी छाती किम तरह फटती, सो तो उनकी हँसी देखनेमें ही मालूम हो सकता था।

\* महज़ पिताके व्यथित हृदयको सान्त्वना देनेके लिये कुछ दिनसे मायके जघ्नेके लिये निरूपमा अधीर हो उठी है। वापके मूँगे मुँहको देखकर वह अब दूर नहीं रह सकती। एक दिन गममुन्दरमें उमने कहा—“बाबूजी, मुझे घर ले चलो।” गममुन्दरने कहा—“अच्छी बात है।” \*

परन्तु उनका कोई वम नहीं—अपनी कल्यापर पिताका जो स्वाभाविक अधिकार होता है, वह मानो इहेजके रूपयोंके वद्दें गिरवी रख देना पड़ा है। और तो क्या, लड़कीमें मिलनेके लिये भी, बड़े संकोचके साथ, भीम-सी मांगानी पड़ती है, और किसी-किसी समय निर्गश होनेपर, दूसरी बात कहनेका भी मुह नहीं रहता।

परं लड़की जब खुद मायके आना चाहती है, तब भला वाप उसे बिना लाये कैसे रह सकता है। इसीसे, समधीकी सेवामें इस बातकी दगड़वास्त पेश करनेके पहले गममुन्दरने कितनी हीनता, कितना अपमान, कितनी हानि स्वीकार करके तीन हज़ार रूपये इकट्ठे किये थे, उसके इतिहासका ग्रन्थ रहना ही अच्छा है।

नोटोंको रुमालमें लपेटकर चढ़रमें बाँधकर गमसुन्दर समधीके पास जाकर बैठे। पहले मुँहपर हँसी लाकर मुहल्लेकी बात ढेढ़ी। हरेक्षणके घरपर बड़ी-भारी चोरी हो गई है, उसका शुरूसे आखिर तक व्योग बनाया। नवीनमाधव और गद्यमाधव इन दोनों भाइयोंकी तुलना करके, विद्या-बुद्धि और स्वभावके बारेमें रायमाधवकी प्रशंसा और नवीनमाधवकी निन्दा की; शहरमें एक नई बीमारी फैली है, उसके बारेमें बहुत-सी अजीब-अजीब बातें कहीं; अन्तमें हुक्केको एक किनारेसे रखकर बातों-ही-बातोंमें बोले—“हे—हे, समधी साहब, आपके रूपये तो अभी बाकी ही हैं। जब आता हूं, नभी सोचता हूं कि कुछ लिये चलूं, पर चलते बक्त याद ही भूल जाती है। अब तो भाई, बूढ़ा हो चला हूं!” इस तरह एक लम्बी भूमिका बाँधते हुए पसलीकी तीन हड्डियोंके समान उन तीन नोटोंको मानो बहुत आसानीसे—बड़ी लापगवाहीसे निकाला। ले-देकर सिर्फ तीन हजारके नोट देखकर रायबहादुर कहकहा मारकर हँस उठे। बोले—“रहने दो, समधी, मुझे ये न चाहिये।” एक प्रचलित कहावतका उल्लेखकर उन्होंने कहा, ज़रासे-के बास्ते हाथ गन्दे करना नहीं चाहते।

ऐसी घटनाके बाद लड़कीको विदा करनेकी बात किसीके मुँहसे नहीं निकलती,—पर गमसुन्दरने सोचा कि रितेदारीका संकोच अब मेरे लिये शोभा नहीं देता। हृदयपर गहरी चोट पहुंचनेसे कुछ देर तो बैं चुप रहे; फिर अन्तमें उन्होंने नरमाईसे उसका ज़िकर किया। रायबहादुरने, किसी कागणका उल्लेख बिना किये ही, कहा—“यह तो

अभी नहीं हो सकता।” इनना कहकर वे किसी कामसे बाहर चले गये।

गमसुन्दर लड़कीको मुँह न दिखाकर, कांपते हुए हाथोंसे उन नोटोंको चहरके छोरमें बाँधकर सीधे घर लौट आये। मन-ही-मन प्रतिज्ञा की—“जब तक सब मपये चुकाकर लड़कीपर निस्मंकोच अधिकार न पा लूँगा, तब तक समर्थीके घर न जाऊँगा।”

बहुत दिन बीत गये। निश्चिपमा आदमीपर आदमी भेजनी, पर पिण्डाके दर्शन नहीं पाती। आग्निर कुट्टकर आदमी भेजना बन्द कर दिया,—तब गमसुन्दरके मनमें बड़ी चोट लगी, पर फिर भी वे गये नहीं।

‘कुआरका महीना’ आया। गमसुन्दरने कहा—“अबकी पूजाके समय लड़कीको ज़रूर बुलाऊँगा, नहीं तो मैं—”

बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे।

पंचमी या पष्ठीके गेज़ फिर चहरके छोरमें कुछ नोट बाँधकर गमसुन्दर चलनेकी तयारी करने लगे। पांच सालका एक पोता आकर कहने लगा—“वावा, मेरे लिये गाड़ी खरीदने जा रहे हो ?” बहुत दिनोंसे उसे टेला-गाड़ीपर चढ़कर हवा खानेका शौक हुआ है, पर किसी भी तरह वह पूरा नहीं हो रहा है। छः वर्षकी एक पोतीने आकर रोते-रोते कहा—“पूजाके न्यौतेमें जानेके लिये मेरे पास एक भी अच्छी धोती नहीं है।”

गमसुन्दर जानते थे, और उस बारेमें तमाकू पीते हुए बहुत-कुछ सोच भी रहे थे। रायवहाड़ुगके घरमें जब पूजाका न्योता आयेगा,

तब उनकी वहुओंको क्या इसी तरह मासूली गहने पहनकर कृपापात्र दिग्दिकी तरह जाना होगा ? इस बातका समरण करके उन्होंने बहुतसी लम्बी साँसें ली हैं, परन्तु उससे उनके ललाटकी रखाएँ गहरी गिर्व जानेके सिवा और कोई फल नहीं हुआ ।

‘दिग्दितासं पीडित अपने घरकी क्रन्दनध्वनि कानोंमें भरकर त्रुट्ठने समर्थीके घर प्रवेश किया । आज उनमें वह संकोचका भाव न था ; दग्धाव और नौकरोंके मुँहकी ओर पहलेकी वह सलज्ज हष्टि दूर हो गई है, जैसे अपने घरमें घुसे हों । भीतर जाकर सुना, गयवहादुर घरमें हैं नहीं, कुछ देर बैठना पड़ेगा । गमसुन्दर मनकी उमंगको न रोक सकें, लड़कीसे भेंट की । मारे आनन्दके दोनों आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे । वाप भो गेने लगे, लड़की भी गेने लगी ; दोनोंमेंसे किसीके मुँहसे बान न निकली । इसी तरह कुछ समय बीता । फिर गमसुन्दरने कहा—“अबकी तुम्हें लिवा ले चलूँगा, बिटिया ! अब कोई गड़वड़ नहीं है ।”

इनमें गमसुन्दरका बड़ा लड़का हरमोहन अपने दोनों छोटे बच्चोंको साथ लेकर सहसा घरमें आ घुसा । पिताम्ब बोला—“बावूजी, तो अब हम लोगोंको क्या गस्तेका भिखारी बनना पड़ेगा ?”

गमसुन्दर सहसा क्रोधमें आकर बोल उठे—“तुम लोगोंके लिये क्या मैं नरकगामी बनूँ ? मुझे तुम लोग अपने सत्यका पालन न करने दोगे ?”

गमसुन्दरने मकान बेच डाला है । लड़कोंको मालूम न पड़ जाय, इसके लिये उन्होंने काफी इन्तजाम किया था ; परन्तु फिर भी

उन्हें मालूम पड़ गया, यह जानकर लड़कोंपर उन्हें बढ़ा गुस्सा आया और भूंभलाहट पैदा हो गई।

उनका पोता उनके दोनों घुटनोंको जोगसे पकड़कर मुंह उठाकर कहते लगा—“वावा, मंगी गाड़ी ?”—

गमगुन्दग सिर झूकाये खड़े रहे, कोई उत्तर न पाकर बालक निश्चयप्रकृति पास ढोड़ा गया, बोला—“दूआ गी, मुझे एक गाड़ी ले देगो ?”

•निश्चयमा मव समझ गई, बोली—“वावूजी, अगर तुम एक पंसा भी मेरे सनुग्को दोगे, तो फिर तुम अपनी लड़कीको न देख पाओगे,—यह तुम्हारी देह छूकर कहती है।”

गमगुन्दगने कहा—“छिः, बेटी ! पंसी बात नहीं कहते !—अगर मैं रूपया न दे सका, तो इसमें तेर बाप ही की बेड़ज़नती है, और तेग भी अपमान है !”

निश्चयमाने कहा—“अपमान तो रूपया देनेमें है ! तुम्हारी लड़कीकी क्या कोई इज़ज़त नहीं ? मैं क्या सिर्फ एक रूपयेकी थैली हूं, जब तक रूपया है, तभी तक मंगी क्षीमत है ? नहीं, वावूजी, रूपये देकर तुम मंग अपमान मत करो। और फिर तुम्हारे जमाई भी नों रूपये नहीं चाहते।”

गमगुन्दगने कहा—“तो फिर तुम्हे ये बिदा नहीं करेंगे, बिटिया।”

निश्चयमा बोली—“न करें तो तुम अब्या करेंगे, बताओ ! तुम फिर बिदा करने न आना।”

गममुन्दर काँपते हुए हाथोंमें नेट वेव दुर्घटको कंधेपर डालकर किर चोरकी तरह सवकी निगाह बचाकर वर लोट गये।

परन्तु, गममुन्दर स्पष्ट लेकर आये थे और लड़कीके मना कर देनेसे बिना दिये ही चले गये, यह वान छिपी न रही। किसी नख्तवट चलनी-पुर्जी दासीने दग्धवाजेसे कान लाकर ये वाने सुन लीं और उसने जाकर साससे कह दिया। सुनकर सास मरे गुस्सेके आपेसे बाहर हो गईं।

निम्नमात्रके लिये उसकी समुगल शर्ष-शश्या हो उठी। एक तो उसके पनि विवाहके थोड़े दिन बाद ही इन्द्री-मन्त्रिस्टोट श्रोकर पद्मेश चले गये हैं; दूसरे, कई संसार-दोपने ओढ़ायन न आ जाय, इस खूब्यालसे अब मत्यके-बालोंमें उसका मिलता भी बन्द कर दिया गया है।

इसी दीचमें निम्नमात्र बहुत सख्त बीमार पड़ गई, पर इसके लिये उसकी सासको सम्पूर्ण दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने शरीरकी नगफनसे वह बड़ी लापरवाह हो गई थी। कानिकके महीनेमें, जब कि काफी ओप पड़नी थी, सारी गत वह सिग्हानेका दग्धवाजा खोलकर सोती और गत-भर उघारी पड़ी रहती थी। खाने-पीनेका भी कोई ठीक न था। दासियाँ कभी-कभी कलेवा लाना भूल जातीं, तो वह अपने मुहसे उत्तें याद भी न दिलाती थी। उसके मनमें यह वान तह तक बैठ गई थी कि वह इस घरकी दास-दासी है—मालिक-मालिकिनकी कृपापर ज़िन्दगी वसर कर रही है। परन्तु यह भाव भी साससे सहा न जाता था। अगर खाने-पीनेमें बहकी कोई लापरवाही देखती,

तो भट कह बैठती—“नवादकी बेटी हैं न ! गरीबके दरका खाना क्यों स्तरने लगा !” कभी कहती—“देखो जग, शक्ति तो देखो कैसी हो रही है ; दिनों दिन जैसे जली लकड़ी हो रही है !”

वीमारी जब वहुत बढ़ गई, तब मास बोली—“अर, उमके सब नस्तुरे हैं !” अन्तको एक दिन निरपमान सासमें बड़े विनयके साथ कहा—“वायुजीको और भृत्योंको एक बार दिखा दो, माजी !” साम बोली—“बम, सब मायके जानेके बाबने हैं !”

\* करनेमें कोई विश्वास न करेगा,—जिस दिन सन्ध्याके समय निरपमाकी सोन्चलने लगी, उसी दिन पहले-पहल उसे डाकटरने देखा, और वही दिन उसकी चिकित्साका अन्तिम दिन हुआ। \*

ग्रन्थी बड़ी बड़ी सगी है, गृह धूमधामके साथ अन्त्येष्टिक्रिया की गई ! प्रेमादिवर्जनके समाप्तिके सम्बन्धमें जैसे गम-चौथीकी लोक-प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है, वही पूर्के अपि-मत्कारके विषयमें गम वहादुरकी भी बंसी ही प्रमेष्ठि हो गई.—ऐसी चन्द्रनकी लकड़ियोंकी चिना आज तक किसीने देखी ही न थी ! किर आछ भी ऐसी तच्छारियोंके साथ हुआ कि जो गम वहादुरके घर ही सम्भव था । सुनते हैं, इसमें वे कुछ कर्जदार भी हो गये थे ।

गममुन्द्रगो तसली देने वक्त, लोग, उनकी लड़कीका कंसी धूमधामके साथ दाह हुआ था, इसी बातकी नागीफके पुल बांधने लगते हैं ।

इस डिटी-मजिस्ट्रेटकी चिट्ठी आई—“सेने वहाँ मत्र इन्तज़ाम कर लिया है ; अब शीत्र ही बहुको भेज दो ।”

गय वहादुरकी महिलीने जवाब दिया—“वेणा, तुम्हारे लिये  
दूसरी एक लड़कीसे सम्बन्ध ठीक कर लिया गया है, इसलिये तुम  
जल्दी छुट्टी लेकर यहां चले आओ।”

अबको बार बीस हजार रुपये नक्कड़ मिले, और हाथों हाथ  
बमूल भी हो गये।

( वि॒ न॑० १८८ )

[ पहली फलानी ]

---

## पोस्ट-मास्टर

**का**म शुरू करते ही पोस्ट-मास्टरको ओलापुर गाँवमें आना पड़ा। गाँव बहुत ही मूमूली है। पास ही एक नीलकी कोठी है, कोठीके साहबने वडी कोशिशसे यहाँ नया पोस्ट-आफिस स्थापित करवा है।

हमारे पोस्ट-मास्टर ठहरे कलकत्तेके लड़के। पानीकी मछलीको किनारेपर डाल देनेसे उसकी ज़ंसी हालत होती है, इस छोटमें गाँवमें आकर पोस्ट-मास्टरकी भी वही दशा हुई। एक अंधेरी मढ़ैयामें उनका आफिस है, पास ही एक गंदा नाल है, और उसके चारों नगफ जंगल। कोठीमें जो गुमाशना बग़म्ह मुलाज़िम है, उन्हें फुरसत ही नहीं कि किसीसे मिलें-जुलें, और फिर वे भले-आदमियोंसे मिलने-जुलनेके काविल भी नहीं हैं।

खासकर कलकत्तेके लड़के तो अच्छी नग्ह मिलना-जुलना जानते ही नहीं। अपरिचित स्थानमें जाकर या तो वे उद्धत हो जाते हैं, या गुमगुम बने गहते हैं। इसी बजहमें स्थानीय लोगोंसे पोस्ट-मास्टरका मेल-जोल न हो सका। इधर हाथमें काम-काज भी इयादा नहीं,

जिसमें लगे रहे। कभी-कभी थोड़ी-बहुत कविता लिखते को कोशिश करने हैं। उसमें ऐसा भाव व्यक्त करने हैं कि मानो तमाम दिन तर-पहलवांक कम्पन और आकाशके संघर्षोंको देखकर जीवन बढ़ सुखसे बीना जा रहा है, पर अन्तर्यामी ही जानते होंगे, अगर आश्वय-उपन्यासका कोई देव आकर एक ही गतिसे इन शास्त्र-पहलव-समेत तमाम पेड़ोंको काटकर पक्की लड़क बना दे, और उसके दोनों दण्ड पंक्तिकार बड़ी-बड़ी अद्भुतिकाएं घटी होकर आकाशके संघर्षोंको दृष्टिकोण से भले रहे। तो देवारे इस अध-मरे भले आदमीक लड़कोंको पुनश्च नव-जीवन मिल जाय।

योस्ट-मास्टरकी ननग्वाह बहुत थोड़ी है। नूब एकाकर गदाना पड़ता है, और गाँवकी एक पितृ-मातृ-हीन अनाशा वालिका उनका काम-काज कर देती है, —उस थोड़ा-बहुत ग्वानेंको मिल जाता है। लड़कीका नाम है रनन। उमर बाह्य-तेज़ सालकी होगी; उसकी कोई खास उस्में नहीं मालूम होती।

सन्ध्याके समय जब गाँवके खालवर्गोंमें बना धुआं उठता, चारों तरफसे झागुर बोलने लगते—कुछ दृग्यर गाँवके नशेवाज्ञ गवंयोंकी चौकड़ी ढोलक-मंजीग बजाकर उच्चे स्वरसे गाना शुरू कर देती—जब अंग्रेजी मर्ड़यामें अकेले बैठे हुए कविके हृदयमें भी पेड़ोंकी कैपकंपी देखकर मामूली छक्कप उपस्थित होता,—तब घरके कोनेमें एक दिआ जलाकर पोस्ट-मास्टर पुकारते—“मतनी!” मतनी दृग्वाज्ञपर बैठी हुई इसी बुलाहटके लिए बाट देखती रहती, पर एक बार दुलानेपर भीतर न आती,—कहती—“वया है बायजी, क्यों उलाते हो?”

पोस्ट-मास्टर—“तू क्या कर रही है ?”

उन — “अभी चूल्हा सुलगाने जाऊँगी—रसोईमें—”

पोस्ट-मास्टर—“रसोईका काम पीछे कर लेना—जग हुक्का भर ला !”

कुछ ही देर वाद दोनों गाल सुलगाकर चिलमपर फैक मरनी हुई उन्हीं घरमें आती। उसके हाथमें हुक्का लेकर पोस्ट-मास्टर भट पूल बढ़ते—“अच्छा मरनी, तुम्हें अद्दी मांकी याद है ?” इसकी बड़ी लम्ही कथा है; कुछ याद है, कुछ भूल रहा है। मास्टे उसका वाप उसे जगाड़ा प्याश करना था, वापकी तो थोड़ी-थोड़ी याद ले। खेहतन-मलगी करके वाप शामको घर आना था, उन्हींमें से कोई-कोई सन्ध्या उसके हृदयपर तसवीरकी तरह साफ-साफ अंकित है। ये बाने मुतां-मुनाने उन्हींपोस्ट-मास्टरके पंखोंके पास जमीनपर बैठ जानी। उस याद आती—उसके एक छोटा भाई था—दहुत दिनकी बात है, वग्मानके दिनोंमें एक दिन छोटी नल्याके किनारे दोनों भाई-बहन मिलकर पेंडवी डालीकी बंसी बनाकर भूठमृठको मछली पकड़ना खेला करते थे—वहुतसी बड़ी-बड़ी घटनाओंमें से यही बात उसके मनमें अधिकतर उदित होती। ऐसं ही बाद-चीन करते-करने कभी-कभी वहुत गत हो जानी, नव मारे आलसके पोस्ट-मास्टरको रसोई बनानेकी तबीयत न होती। सबंधेकी बासी साग-तग्गागी बची रहती और गतनी जन्दीमें चूल्हा सुलगाकर दो-चार गेटी संक लाती—उसीसे गतको दोनोंका पेट भर जाता।

कोई-कोई दिन संभाको उस मट्ठाके कोनेमें आफिसकी चौकी

पर बैठकर पोस्ट-मास्टर भी अपने घरकी बात छेड़ने—छोटे भाइयोंकी, माँ और जीजीकी, प्रतासमें सूने घरमें बैठकर जिनके लिए हृदय व्यथित हो उठता, उनकी, बातें कहते। जो बातें हर घड़ी मनमें उठती रहतीं और जो नील-कोटीके गुमाश्तोंमें भी नहीं कही जा सकती थीं—वे ही बातें एक अशिक्षित, क्षुद्र वालिकामें कहते चले जाते, ज़रा भी हिचकिचाते न थे। आखिरको ऐसा हो गया कि वालिका बातचीत करने समय उनके घरबालोंका अम्मा, जीजी, भड़या कहकर चिर-परिचिनकी तरह उल्लेख करती। यहां तक कि उसने अपने छोटें हृदयपट पर उनकी काल्पनिक मूर्तियाँ भी चित्रित कर ली थीं।

एक दिन वर्षाक्षतुके मेघ-मुक्त दोपहरको तभ मुकोमल व्यार चल रही थी ; धूपसे भोगी घास और पेंड़-पौधोंमें से एक प्रकारकी गन्ध निकल रही थी, मालूम होता था, मानो थकी हुई पृथ्वीकी गरम उसास शरीरपर आकर टकरा रही है, और न-जानें कहांकी एक जिहिन चिड़िया इस भरे दुपहरमें प्रकृतिके दग्धारमें अपनी तमाम शिकायतें अत्यन्त करण स्वरमें वार-वार पेश कर रही है। पोस्ट-मास्टरके हाथमें कोई काम न था—उस दिन वर्षासे धुले हुए चिकने कोमल तस-पलवोंकी हिलोल, और पगजित वपोंका भग्नावशिष्ट गैद्र-शुध्र स्नूपाकार मेघस्तर सचमुच ही देखने लायक बन्तु थी। पोस्ट-मास्टर वही देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस समय पासमें यदि कोई खास अपना आदमी होता—हृदयके साथ बिलकुल मिली हुई कोई स्नेह-पुत्तलि मानव-मूर्ति होती। धोरे-धीरे मालूम होने लगा कि वह चिड़िया उसी एक ही बातको वार-वार कह रही है और इस जन-हीन

तरच्छाया-निमग्न मध्याहके पछव-मर्मरका अर्थ भी कुछ-कुछ बंसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता, और जान भी नहीं पाता; परन्तु छोटेसे गाँवके मामूली तनख्वाहके मव-पोस्ट-मास्टरके मनमें इस नदी गुमनुम हृपहरियामें, छुट्टीके दिन, ऐसा ही एक भाव उठा करता है।

पोस्ट-मास्टरने एक लम्बी साँस लोड़कर तुलया—“रतनी!” रतनी उस समय अमर्लदके पेड़के नीचे बैठी कच्चा अमर्लद खा रही थी; मालिककी आवाज़ मुनकर तुरन्त दौड़ी आई—हाँफती हुई बोली—“बाबूजी, दुला गहे हो ?” पोस्ट-मास्टरने कहा—“तुम्हें मैं थोड़ा-थोड़ा पट्टना मिलाऊँगा।” इसके बाद हृपहर भर उसे “अ-आ” “इ-ई” मिलाते रहे। इस तरह थोड़े ही दिनोंमें उसे युक्ताधर तक पढ़ा दिया।

मावनका महोना है, वर्षीका कोई अन्त नहीं। नहर, दम्बा, नाल, तरंगा, नदी, नाले, सब पानीमें भर गये। गत-दिन मेंटकोंकी दर्श-टर्म और वर्षीकी भमभम सुनाई पड़ती रहती है। गाँवकी नदूकपर चलना-फिरना क़रीब-क़रीब बस्त्र ही समझो—नावपर बैठकर हाट जाना पड़ता है।

एक दिन सर्वोसे ही खूब बाढ़ल आ गहे थे। पोस्ट-मास्टरकी छात्रा बहुत देगमे दगवाज़ेपर बैठी बाट जोह रही थी, पर और दिनकी तरह नियमिन पुकार न सुनतेके कारण अपनी पोशी लेकर धीरे-धीरे वर्गके भीतर पहुंची। देग्वा, पोस्ट-मास्टर अपनी गाटपर पड़ हुए हैं; यह सोचकर कि आगम कर रहे हैं, उसने धीरेसे बाहर निकल

जाना चाहा। सहमा मुनाई पड़ा—“मत्ती!” कटपट पीछे को लौटकर बोली—“वावृजी! मौ रहे थे?” पोस्ट-मास्टर ने कहणम्भर से कहा—“तबीयन अच्छी नहीं मालूम देती—दूसरे तो सेरे माथियर हाथ गवकर।”

इस निहायन निःमंग प्रवासमें बनी-घनी वर्षामें गोग-पीड़ित शरीरको जग सेवा पानेकी इच्छा होती है। तपते हुए माथे पर चृड़ियोंताल को मल हाथोंका स्पर्श आद आता है। इस बोर प्रवासमें गोगकी अन्त्रिणामें स्नेहमयी नारी-हाथमें जननी और जीजी पासमें बैठी है, ऐसा सोचनेको जी चहता है। यहां श्री ज्वलीकी मनकी अभिलापा व्यर्थ न गई। बालिका गत अब बालिका न रही। उसी क्षणमें उसने जननीका पढ़ लिया, बैद बला लाई, ठीक समय पर गोली छिला दी, मारी गत सिरहाने बैठी जगती रहा, अंपने-आग पक्ष्य बता दिया, और मौ-सौ द्वार पूछती रही—“वावृजी, बुझ अगम सालम पड़ता है?”

पोस्ट-मास्टर दुर्बल शरीर लेकर गोग-शथासे ढंग—मनमें इशारा कर लिया, वस अब नहीं, यहांमें किसी भी तरह तबादला करना है। स्थानीय अस्वास्थ्यका उल्लंघन करके उसी समय कलकत्तेके अफसरोंको तबादलेके लिये अगजी लिखी।

गोगीकी सेवासे छुट्टी पाकर गती कि दरवाजेके बाहर अपनी जगह पर जा बैठी। पर पहलेकी तरह अब उसे कोई दुलाता नहीं। बीच-बीचमें उभककर देखती है, पोस्ट-मास्टर अनमने होकर चौकीपर बैठे हैं या खाटपर सो रहे हैं। गती जब बुलाहटकी प्रतीक्षामें बैठी

रहनी, वे तब अधीर चित्तमें अपनी अरज़ीके जवाबकी प्रतीक्षा करने रहते। वालिकाने दग्धाज़िफ़र बैंट-बैंट हज़ार बार अपना पुगाना पाठ घोंकता शुरू किया। उसे डर था कि कहीं अचानक पुकार न हो, और तब वह युक्ताखण्डको मूल गई, तो? अन्तमें एक सप्ताहके बाद एक दिन शामको उकार हुई। बवलाहटके साथ इन्हीं भीनग गई, औली—“बाबूजी, मुझे कुछ बढ़े थे?”

पोस्ट-मास्टर—“इन्हीं, कल ही में चला जाएंगा।”

• इन्हीं—“कहाँ चले जाओंगे, बाबूजी?”

पोस्ट-मास्टर—“या जाएंगा।”

इन्हीं—“किस कदम आओंगे?”

पोस्ट-मास्टर—“अब नहीं आएंगा।”

इन्हींने किस कहीं बात न पूछी। पोस्ट-मास्टरने इदूरी इसमें कहा—“मैंने नवाहलेके लिये अरज़ी दी थी, अरज़ी मंज़ुर नहीं हुई। इसीमें काम लोडकर वर जाएंगा।”

बहुत देर तक दोनों चूप रहे। एक कोनमें दिअ टिमटिसा रहा था, और एक जगह मकानकी पुगनी छत चूकर एक मिट्टीके मध्यमें टप्परप वर्गातका पानी टपक रहा था।

कुछ देर बाद इन्हींमें उठकर रसोई-घरमें गोटी बनाने चले गई। और दिनकी नग्ह उन्हीं पुगनी सहीं थी। शायद वीच-वीचमें उसे बहुतसी चिन्ताएँ आ घरती थीं। पोस्ट-मास्टर जब खाकर उठे, तो वालिका अचानक पूछ बैठी—“बाबूजी, मुझे अपने घर ले चलोगे?”

पोस्ट-मास्टरने हँसकर कहा—“सो कैसे हो सकता है ?”

उन्होंने, किन-किन कारणोंसे उसका जाना असम्भव है, यह बात बालिकाको न समझाई, न इसकी उन्हें कोई ज़खरत ही मालूम पड़ी ।

गनभग, सपनेमें और जागतेमें बालिकाके कानोंमें पोस्ट-मास्टरकी हास्यध्वनिका कण्ठस्वर गंजने लगा—“सो कैसे हो सकता है ?”

सबंगे उठकर पोस्ट-मास्टरने देखा कि उनके नहानेके लिये पानी नेयार है ; कल्पकत्तेकी आढ़तके अनुसार वे गव्वे हुए पानीसे नहाते थे । किस बङ्गत वे जायेंगे, यह बात किसी कारणसे बालिका पूछ न सकती थी ; कहीं तड़के ही न ज़खरत पड़े, इस द्यालमें रत्नीने पौ-फटते ही नदीसे पानी लाकर गव्व दिया था । नहा चुकनेके बाद रत्नीकी पुकार हुई । रत्नीने चुपचाप घरके भीतर प्रवेश किया और आज्ञा पानेकी आशासे एक बार मालिकके मुँहकी ओर देखा । मालिकने कहा—“रत्नी, मेरी जगहपर जो बाबू आयेंगे, उन्हें मैं कह जाऊंगा—वे तुम्हे मेरी ही नग्ह जतनमें रखेंगे ; मैं जा रहा हूं, इसके लिये तुम्हें चिन्ना करनेकी ज़खरत नहीं ।” ये बातें अत्यन्त रन्देह और दयार्द्र हृदयसे निकली थीं, इसमें सन्देह नहीं, पर नारीके हृदयको कौन समझ ? रत्नीने अनेकों बार मालिकके अनेक तिग्सकार चुपचाप सह लिये हैं, पर आजकी ये मीठी बातें उससे न सही गईं । वह एकसाथ सिसक-सिसक कर गेने लगी, बोली—“नहीं नहीं, तुम किसीसे भी कुछ मत कहना, मैं नहीं रहना चाहती ।”

पोस्ट-मास्टरने रत्नीका ऐसा ध्वन्यार कभी न देखा था, इसमें वे दंग रह गये ।

नया पोस्ट-मास्टर आया। उसे मारा चार्ज समझाकर पुगने पोस्ट-मास्टर चलनेकी नैयागी करने लगे। चलने समय रत्नीको बुलाकर कहा—“रत्नी, तुम्हें मैं कभी भी कुछ दे नहीं सका हूँ। आज जाने समय तुम्हें कुछ दिये जाता हूँ, इसमें तेरी कुछ दिनकी गुह्यता चल जायगी।

गहन-खर्चके लिए कुछ निकालकर, उन्हें जो भी कुछ ननवावाहक समय मिले थे, जेवमें निकालकर देने लगे। तब रत्नीने धूलमें लौटकर उनके पैर पकड़कर कहा—“वाहूजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, पैरों पड़ती हैं, युझे कुछ मत डीजिये ; तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, मेरे लिए किसीको भी कुछ सोच करनेकी ज़रूरत नहीं।”—इतना कहकर वह दोड़कर वहाँसे भाग गई।

भूतपूर्व पोस्ट-मास्टर एक गहरी माँस लेकर हाथमें कार्पेटका बैग लटकाये, कंधेपर छतरी रखाये, मज़दूरके सिरपर नीले और सफेद रंगकी लकीरोंसे रंगा हुआ टीनका बक्स गवाकर धीरे-धीरे घाटकी तरफ चल दिये।

जब नावपर चढ़े और नाव छुट गई—बपरिंक पानीसे ढूँ तक फँली हुई नदी जब पृथ्वीके आवेगसे झिकड़े हुए औंसुओंकी नद्द चारों ओर चमकने लगी, तब दृश्यके अंदर वे एक गहरी बेदनाका अनुभव करने लगे—एक साधारण ग्राम्य दालिकाकी कस्ता मुखल्लियि मानो एक विश्वव्यापी वृहत् अञ्चल मर्म-व्यथा प्रकट करने लगी। एक बार बड़ी इच्छा हुई कि ‘लौट चलूँ, संसारकी गोदमें छिटकी हुई उस अनाधिनीको साथ लेना चल’—पर नव यात्रमेंहवा भर चूकी थी,

वर्षीक मोत वेगमें चल रहा था, गाँव पारकर नदीके किनारेकी शमशान-भूमि दिखाई दे रही थी;—और नदीके प्रवाहमें बहते हुए पथिकके उदास हृदयमें इस तत्त्वका उदय हो रहा था कि जीवनमें ऐसे किनते विच्छेद—किनती सृत्यु होंगी, लौटनेसे कायदा? संसारमें कौन किसका है?

परन्तु गतीके मनमें किसी भी तत्त्वका उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट-आफिसके चांगें तरफ सिर्फ आँसू बहानी हुई घूम रही थी। शायद उसके मनमें क्षीण आशा जाग रही थी कि 'शायद यावृजी लौट आवे';—जमी कल्यनमें उड़कर बेचागी कहीं दूर नहीं जा सकती थी। हाय! बुद्धिमान मानव-हृदय! तेगे धान्ति किमी तगड़ भिट्ठी ही नहीं! युक्तिशास्त्रका विश्वास बहुत देखमें मार्गमें घुसता है, प्रदल प्रमाणका भी विश्वास न कर मिथ्या आशाको दोनों भुजाओंसे बांधकर जी-जानसे छातीमें लगाता है; आखिर एक दिन तमाम नाड़ियोंको काटकर हृदयका खुन चूसकर वह भाग जाती है, तब होश आता है और किर दूसरे धान्ति-जालमें पड़नेके लिए चिन व्याकुल हो उठता है।

## बहुजी

बहुजीको दुर्बल दो-नीन दर्जे नीचे हमारे पणिडत थे शिवनाथ ।

उसकी डाढ़ी-मुँछांपर उस्तरा किंग हुआ था, जिसके बाल छृंट हुए और चोटी छोटी थी । उन्हें देखने ही लड़कोंके प्राण सूख जाते थे ।

प्राणियोंमें अक्षय यह बात देखनेमें आती है कि जिनके डंक हैं, उनके बैत नहीं होते । पर हमारे पणिडतजीमें दोनों बाले एक ही साथ मौजूद थीं । एक ओर श्वप्न-वूमे—पौर्योंके वगीचेमें ओलेकी तरह—बरमने, तो दूसरी ओर कठोर वचनोंमें ज्ञान निकल जाती थी ।

पणिडतजीको इस बातका अक्षमाम था कि पहले ज़मानेकी तरह गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अब नहीं रहा ; विद्यार्थी अब देवताके समान गुरुकी भक्ति नहीं करते ; यह कहकर अपनी उपेक्षित देव-महिमाको बालकोंके सिरपर जोरेंसे पटक दिया करते, और कभी-कभी गहरा हुंकारा भरने ; परन्तु उसके भीतर इतनी ओछी बातें भिली रहतीं कि उसे देवताके बज्रनादका स्वप्नान्तर समझ लेनेमें किसीको भ्रम नहीं हो सकता ।

कुछ भी हो, हमारे स्कूलके इस तीसरे दर्जेके दूसरे विभागके देवताको इन्हें, चन्द्र, वरण अथवा कर्तिक कोई न समझता था ; सिर्फ़ एक ही देवताके साथ उनको समानता हो सकती थी, जिसका कि नाम यम है ; और इनने दिनों बाद अब तो यह माननेमें कोई दोष नहीं और न भय है कि झगड़ोग मन-ही-मन चाहतें थे कि उक्त देवालयको प्रस्थान करनेमें अब वे ज्यादा विलम्ब न करें तो अच्छा है ।

परन्तु इतना तो अच्छी तरह समझ नुक्के थे कि नग-देवताके नमान दूसरी बला नहीं । सुखलोक-वासी देवता उपद्रव नहीं करते । पैड़र एक पूल तोड़कर चढ़ानेसे ग़ुश हो जाते हैं, नहीं दो तो तगाढ़ा नहीं करते । हमारे नग-देवता बहुत अधिककी आशा रखते हैं, और हमसे ज़ग भी बुटि हो गई, तो लाल-लाल आँखें निकालकर मारने दौड़ते हैं ; उस समय वे किसी भी नगफ़र्से देवता ज़से नहीं दिखाई देते ।

लड़कोंको तकलीफ़ देनेके लिये हमारे शिवनाथ पण्डितके पास एक अख्त था, जो सुननेमें मामूली, पर वास्तवमें बहुत भयानक था । वे लड़कोंके नये-नये नाम रखते थे । नाम यद्यपि शब्दके सिवा और कुछ नहीं, पर आदमी अपनेसे अपने नामको ज़्यादा चाहता है ; अपने नामकी प्रसिद्धिके लिये लोग क्या-क्या कष्ट नहीं सहा करते ? यहां तक कि नामकी रक्षाके लिये लोग मरनेमें भी नहीं हिचकिचाते ।

ऐसे नाम-प्रिय मानवके नामको विकृत कर देना, उसकी जानसे भी प्यारी जगहपर चोट पहुंचाना है । और तो क्या, जिसका नाम भूतनाथ है, उसे अगर नलिनीकान्त कहा जाय, तो उसके लिये भी वह अस्त्व है ।

इसमें एक तत्त्वकी उपलब्धि होती है। वह यह कि मनुष्य वस्तुकी अपेक्षा अवस्तुको अधिक मूल्यवान् समझता है—सोनेकी अपेक्षा बाणीको, प्राणोंकी अपेक्षा मानको और अपनेसे अपने नामको बड़ा मानता है।

मानव-स्वभावके इन अन्तर्निहित गृह नियमोंके वरीमूल हो पण डिनजीने जब शशिश्वरकानाम ‘भेटकी’\* रख दिया, तब वह बहुत दुःखित हुआ। खासकर इसलिये उसकी मर्म-व्यथा और भी बढ़ गई कि उक्त नामकरणमें उसके चेहरेपर विशेष लक्ष्य दिया जाता है, फिर भी अंत्यन्त शान्त भावसे, सब सहते हुए, उसे चुपचाप बँठा रहना पड़ा।

आशुतोपका नाम था ‘बहूजी’, पर उसके साथ थोड़ासा इतिहास लिपटा हुआ है।

आम् अपने दृज्ञमें नितान्त सीधा-सादा और भोला लड़का था। किसीसे लड़ता-झगड़ता न था, बड़ा भौंपू था। शायद उमरमें वह सबसे छोटा था, सभी बातें सुनकर मुसकगा देता था; खूब पढ़ना था। स्कूलके बहुतसे लड़के उसके साथ मित्रता करनेको उत्सुक थे, पर वह किसीके साथ खेलता न था। छुट्टी होते ही तुरत-फुरत घर चला जाता।

दोनोंमें कुछ मिठाई और छोटी फूलकी बंटीमें पानी लेकर एक बजेके क्लीब घरकी महरी आया करती। आमूको इसके लिये बड़ी शर्म मालूम पड़ती; महरी किसी तरह लौट जाय तो मानो वह बच जाय। स्कूलके छात्रके अलावा वह और भी कुछ है, इस बातको

\* ‘भेटकी’ एक तरहकी मछली होती है, जिसका मुँह बहुत ही भद्दा—चपटा, पिचका-हुआ-सा—होता है। वंगालियोंमें अक्सर लोग भैंड चेहरवालेको ‘भेटकी’ कह दिया करते हैं।

—अनुवादक।

लड़कोंमें प्रकट करनेके लिये वह विलकुल ही तयार न था। वह घरका कोई है, अपने बाप-माँका लड़का है, भाई-बहनोंका भाई है, यह उसके लिये बहुत ही छिपानेकी बात थी, इम बातकी वह बड़ी कोशिश रखता कि कोई लड़का यह जान न ले।

पढ़ने-लिखनेमें उसकी कोई त्रुटि न होनी थी, सिर्फ किसी-किसी गेझ स्कूल आनेमें ज़ग देर हो जाया करनी थी, और शिवनाथ पण्डित उसका काण्ण पूछते, तो वह उसका कोई सदुन्तर न दे सकता था। इसलिये कभी-कभी उस बड़ी फटकार महनी पढ़ती थी। पाण्डितजी उस घुटनोंपर हाथ रखकर पीठ नीची करके ढ़ानकी सीढ़ियोंपर खड़ा कर देते थे, और चारों दर्जोंके लड़के उस मुँगू वालकको ऐसी हालतमें देखा करते थे।

एक दिन ग्रहणकी हुद्दी थी। उसके दूसरे दिन स्कूलमें चौकीपर बैठे हुए पण्डितजीने देखा—एक सिलेट और स्याही लंग हुए बसतामें पढ़नेकी किताबें लपेटे हुए—और दिनकी अपेक्षा बहुत संकुचित भावमें—आसू कलासमें बुस रहा है।

शिवनाथ पण्डितने सूखी हँसी हँसकर कहा—“अच्छा, बहूजी आ गईं क्या !”

पढ़ाई रखतम होनेपर हुद्दीमें पहले उन्होंने सब लड़कोंको सम्बोधन करके कहा—“मुनो रे, सब कोई मुनो !”

पृथ्वीकी सारी मध्याकर्पण-शांक्त जोगोंसे वालकको नीचेकी ओर खींचने लगी; पग्न्तु छोटामा आसू अपनी बेच्चपर से धोतीका एक ठोक और दोनों पर लटकाकर सब लड़कोंका लक्ष्यस्थल ( निशाना )

बनकर बैठा रहा । अब तक तो आसूकी काफी उम्र हुई होगी और उसके जीवनमें वहुनसे भागी-भागी मुख्य-दुःख-लज्जाके दिन आये होंगे, इसमें सन्देह नहीं ; परन्तु उस दिनके बालक-हृदयके इतिहासके साथ किसी दिनकी तुलना नहीं हो सकती ।

लेकिन वात वहुन छोटीसी है, और दो शब्दोंमें खत्म हो जाती है ।

आसूकी एक छोटी वहन है ; उसकी वगवगकी कोई साथिन या वहन न थी, इसलिये आसूके साथ ही वह खेला करती थी ।

\* लोहेकी गेलिंगसे वग हुआ गेट-वाला आसूका मकान है, सामने गाड़ी ठहड़नेके लिये दालान है । उस दिन खूब वर्षा हो रही थी । जूना हाथमें लिये, मिरपर छतरी नाने जो दो-चार आदमी सामनेसे जा रहे थे, उन्हें किसी भी ओर ताकनेकी फुर्मत न थी । उस मेघके अन्धकारमें, वर्षाकिं\* भमभम-भमभम शब्दमें, नमाम दिनकी लुट्रीमें दालानको सीढ़ियोंपर बैठा आसू अपनी वहनके साथ खेल रहा था ।

उस दिन उनके गुड़ा-गुड़ियोंका ब्याह था । उसीकी नैयारीके बारेमें आम् अन्यन्त गमभीरताके साथ अपनी वहनको उपदेश दे रहा था ।

अब तर्क उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाय ? बालिका चटमें दौड़ी गई और एक आदमीसे पूछने लगी—“क्यों जी, तुमहम लोगोंके पुरोहितजी बनोगे ?”

आसूने पीछेको मुह फेरकर देखा, शिवनाथ पण्डित अपनी भीगी छतरी समेटे पानीसे भीगे हुए वगमदेमें खड़े हैं । गस्तेसे जा रहे थे, बागिश इयादा होनेमें वहाँ ठहर गये । बालिका उन्हें पुरोहित बननेके लिये आग्रह कर रही है ।

पणिडतजीको देखते ही आसू अपने ग्वेल और बहनको, सब-कुछ छोड़-छाड़ कर एक दौड़में मकानके अन्दर दाखिल हो गया। उसका छुट्टीका दिन विलकुल ही मिट्टीमें मिल गया।

दूसरे दिन शिवनाथ पणिडतने जब सूखी हँसीके साथ भूमिकाके रूपमें इस घटनाका उल्लेख कर आसूका नाम 'बहूजी' रख दिया, तब पहले वह जँसे सभी बानोंमें मुसकग देता था, वैसे ही मुसकगकर उसने चारों तरफकी हँसीमें शामिल होनेकी कोशिश की; इननेमें धंटा बज गया, सब कलासोंके लड़के बाहर चले गये; और दौनेमें थोड़ीसी मिठाई और चमकनी हुई फूलकी धंटीमें पानी लिये महरी आकर दौरवाजेपर खड़ी हो गई।

उस समय हँसते-हँसते उसका मुँह और कान सुर्ख हो उठे, व्यथित ललाटकी नसें फूल उठीं, और बेगसं निकलते हुए आँसू रोके न रुक सके।

शिवनाथ पणिडत बैठकमें जलपान करके निश्चिन्त मनसे हुक्का पीने लगे,—लड़के बड़े आनन्दसे आसूको धेकर 'बहूजी' 'बहूजी' कहकर हळा मचाने लगे। छुट्टीके दिनका छोटी बहनके साथ खेला हुआ वह ग्वेल, आसूकी दृष्टिमें अपने जीवनका एक सबसे अधिक लज्जाजनक भ्रम मालूम होने लगा; उसे विश्वास न हुआ कि दुनियांके आदमी कभी भी उस दिनकी बातको भूल जायँगे।

(वि० सं० १६४८)

## रामकन्हाईकी मूर्खता

जो यह कहते हैं कि गुरुचरणके मरने समय उनकी दूसरी स्त्री  
अन्नःपुरमें बैठकर नाश खेल रही थीं, वे विश्व-निन्दक हैं—  
गईका पहाड़ बना देने• हैं। असलमें वहूंजी तब एक पंखकी पालनी  
पर बैठकर दूसरे पंखका घुटना ठोड़ीमें लगाये, कच्ची इमली, हरी मिर्च  
और मछलीकी चम्परी भुजियासे खूब मन लगाकर बामा भात म्या  
रही थीं। बाहरमें जब पुकार पड़ी, तो चबाये हुए ढंठल और जृदी  
पत्तलको फेंककर मुँह गम्भीर बनाकर बोलीं—“ए गम, बासे भातके  
दो गस्में पेटमें डाल लूं, इननी भी छुट्टी नहीं।”

इधर जब डाक्यने जवाब दे दिया, तो गुरुचरणके भाई  
गमकन्हाईने गोगीके पास बैठकर धीरेमें कहा—“दहा, अगर तुम्हारी  
‘विल’ ( वसीयत ) करनेकी तवीयत हो, तो बनाओ।” गुरुचरणने  
बहुत ही धीमे स्वरमें कहा—“मैं कहता जाता हूं, तुम लिख लो।”  
गमकन्हाई कागज और दावान-कलम लेकर बैठ गये। गुरुचरण  
कहने लगे—“मैंगी स्थावर और जंगाम तमाम सम्पत्ति मैंने अपनी  
धर्मपत्नी श्रीमती वरदामुन्दरीको दी।” गमकन्हाईने लिखा तो सही,

पर लिखते हुए उनकी कलम न चलती थी। उन्हें बड़ी आशा थी कि उनका इकलौता वेटा नवद्वीप ही अपने पुत्रहीन नाऊजीकी नमाम जायदादका उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि दोनों भाई अलहदा थे, तो भी इसी आशासे नवद्वीपकी माँने नवद्वीपको किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी, - जब्दीमें उसका व्याह कर दिया था, और वह व्याह निष्फल भी नहीं हुआ। परन्तु फिर भी गमकन्हाईने लिखा और दस्तखत करनेके लिए कलम भड़याके हाथमें दी। गुरुचरणने निर्जीव हाथसे जो दस्तखत किये, वह काँपती हुई टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें थीं या दस्तखत, समझना कठिन था।

वासा भात खाकर जब श्रीमतीजी उस कमरेमें आई, तब गुरुचरणकी ज़वान बन्द हो चुकी थी, वह गेते लगी, जो वहुत आशा करके भी जायदादसे वंचित रह गये, वे कहने लगे—“दिखावटी रोना है।” परन्तु यह बात विश्वास-योग्य नहीं।

वसीयतनामेका हाल सुनने ही नवद्वीपकी माँ दौड़ी, और शोर मचा दिया, - बोली—“मगते वक्त बुद्धि विगड़ जाती है। ऐसे सुन्दर भतीजेके रहते—”

गमकन्हाई यद्यपि रुकीके प्रति अत्यन्त श्रद्धा करते थे—इतनी ज्यादा कि उसे भापान्तरमें ‘भय’ भी कहा जा सकता है—पर उनसे भी रहा न गया, वे लपकके आगे बढ़े और बोले—“अगे, तेरी बुद्धि तो नहीं बिगड़ी है, फिर तू क्यों ऐसा करती है? दहा चले गये, पर मैं तो हूं, तुम्हें जो कुछ कहना हो, किसी मौकेसे मुझसे कह लेना, अभी मौका नहीं है।—”

नवद्वीपको यह खबर लगी, वह भी आ पहुँचा, पर तब तक नाऊजी परलोक सिधार चुके थे। नवद्वीपने मृत व्यक्तिको धमकी देकर कहा—“देरख लूँगा, मुख्यामि कौन करेगा,—और श्राद्ध-शान्ति अगर कहूँ, तो मैंग नाम नवद्वीप नहीं।” गुरुचरण कुछ भी न मानते थे। वह डफ साहबके छात्र थे। शास्त्रके अनुसार जो चीज सबसे ज्यादा अभृत्य होती, उसीके खानेमें उन्हें विशेष तृप्ति होती थी। लोग अगर उन्हें क्रिध्विन कहते, तो वह दाँतों नले जीभ दवाकर कहते—“गम रौम, मैं अगर क्रिध्विन होऊँ, तो गउका मांस खाऊँ।” जीवित दशामें जिसकी यह हालत थी, वह मरनेके बाद तुर्न ही पिण्ड-नाशकी आशङ्कामें ज़ग भी चिच्छिन होगा, यह सम्भव नहीं; परन्तु मौजूदा हालतमें बदला लेनेकी इसके सिवा और कोई चाग ही न था। नवद्वीपको एक सहाग मिल गया, यह कि परलोकमें जाकर नाऊजी अवश्य ही भूम्भों मर्गे। जब तक इस लोकमें बने हैं, नाऊजीकी जायदाद न मिलनेपर भी, किसी तरह पेट तो भर जाता है, पर ताऊजी जिस लोकमें गये हैं, वहाँ भी वर मांगकर भी पिण्ड नहीं मिलना। यहाँ ज़िन्दा रहनेमें भी वहुनसे लाभ है।

गमकन्हाइने बरदामुन्दीर्थीके पास जाकर कहा—“भाभीजी, भद्रया तुम्हें ही मर-कुछ दे गये हैं। यह लो उनका वसीयननामा। लोहेके सन्दूकमें हिफाजतसे रख देना।”

विद्यवा उस समय लम्बे-लम्बे पढ़ स्वचक्र ऊचे स्वरमें विलाप कर रही थी, दो-चार दासियाँ भी उसके स्वरमें स्वर मिलाकर बीच-बीचमें दो-चार नये शब्द जोड़कर शोक-सङ्गीतसे मारे गाँवकी

निद्रा दूर कर रही थीं। वीचमें इस कागजके टुकड़ेने आकर कम-से-कम तान तो तोड़ ही दी, और भावोंका भी पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया। मामलेने अब इस प्रकार असंलग्न रूप धारण किया—

“हाय, मेरी अम्मा गी ! हाय, मेरी तकदीर फूट गई गे-ई ! अगे मेरी अम्मा गी ! हाय,—हाय,—दंवरजी, यह लिखावट किसकी है ? तुम्हारी है ?—हाय, हाय, ऐसे जननमें अब कौन रखेगा, मेरी ओर अब मुँह उठाकर कौन देखेगा, हाय ! अगे मेरी अम्मा गे-ई ! अर ज़ग ठहहा जा, ज्यादा चिढ़ावे मत, बात सुन लेने दे। अगे, मेरी महनारी गी, मैं भी क्यों नहीं मर गई गे-ई !—मैं क्यों जिन्दी रही गे-ई !” रामकन्हाईने मन-ही-मन गहरी साँस लेकर कहा—“यह हम लोगोंकी तकदीरका दोष है।”

पर जाकर नवदीपकी माँ रामकन्हाईके सिर हो ली। लड़ी हुई गाड़ी समेत दलदलमें फँसकर अभागे बैल जैसे गाड़ीवानके हज़ारों डंडे खाकर भी देर तक बेवसीसे चुपचाप घटे रहते हैं, रामकन्हाई भी उसी तगह देर तक चुपचाप सब सहते रहे,—आखिरकार धीमे स्वरमें बोले—“मेरा क्या करूँगा है ! मैं तो दहा नहीं था !”

नवदीपकी माँ फुसकागकर बोली—“नहीं, तुम बड़े भले आदमी हो, तुम कुछ नहीं जानते ; दहने कहा, ‘लियो’, भाई वैसे ही लिखते गये। तुम सब एक-से हो ! तुम भी वक्त्पर ऐसी ही बुद्धिमानी करोगे, मुझे मालूम है। मेरे मरते ही किसी मुँहजली डाइनको घरमें ले आओगे—और मेरे नन्हेसे नवदीपको गहरे पानीमें बहा दोगे ! पर इसके लिए फिकर मत करो, मैं जल्दी नहीं मरनेकी !”

इस प्रकार गमकन्हाईके भावी अन्याचारोंकी आलोचना करके मालिकिन उत्तरोत्तर ज्यादा गरम होने लगीं। गमकन्हाई निश्चित जानते थे कि अगर इन उत्कट काल्पनिक आशंकाओंके निवारणके लिए वे जग भी जीम हिलावें, तो उलझ नहींजा होगा। इस डरसे वे अपग्राधीकी तरह चुप बने रहे,— मानो उनसे वे दोष बन ही गये हों। मानो वे नन्हें नवद्वीपको कुछ न देकर अपनी भावी पत्नीके नाम तमाम जायदादका वसीयतनामा लिखकर मर ही चुके हों। विना इस अपेक्षाको मंजूर किये कोई चाग ही नहीं।

इतनेमें नवद्वीप अपने बुद्धिमान मित्रोंमें स्वूच सलाह-मशाविरा करके वह आया और माँस बोला — “माँ, कोई चिन्ना नहीं। यह जायदाद सुरक्ष ही मिलेगी। कुछ दिनके लिए बाबूको यहाँसे कहीं रवाना कर देना चाहिए। वे गहरे, तो सब गुड़ गोवर हो जायगा।” नवद्वीपके बापकी बुद्धिपर नवद्वीपकी माँको तनिक भी अद्वा न थी ; इसलिए यह बान उन्हें भी युक्ति-संगत मालूम पड़ी। आखिरको माँकी भक्तक या ताड़नामें यह विलकुल अनावश्यक, सब काम चौपट करनेवाला नियोग वाप किसी वहाँसे कुछ दिनके लिए कारी चला गया।

धोड़े ही दिनोंमें वरदासुन्दरी और नवद्वीपचन्द्र दोनों एक दूसरे पर जाली ‘विल’ (वसीयतनामा) बनानेका मुकदमा दायर करके अदालतमें पहुँचे। नवद्वीपने अपने नामका जो वसीयतनामा निकाला है, उसके दस्तखत देखनेसे साफ मालूम पड़ता है कि वे गुरुचरणके ही हैं। इसके दो-एक गवाह भी हैं। वरदासुन्दरीकी तरफ नवद्वीपके पिता ही एकमात्र गवाह हैं, और दस्तखतको तो कोई समझ

ही नहीं सकता। उसका एक भाई है, जो उन्हींके बग रहता है; उसने कहा—“जीजी, तू कुछ सोच मत कर। मैं गवाही दूँगा, —और भी गवाह जुटाऊँगा।”

मामला जब पूरी तरह से पेंचीढ़ा हो चुका, तो नवद्वीपकी माँने नवद्वीपके वापको काशीमें चले आनेको लिख भेजा। बंचाग आश्राकागे भला मानस बैंग और छाना हाथमें लिए अथाममय हाजिर हुआ। कुछ ग्मालाप करनेकी भी कोशिश की—हाथ जोड़कर हँसते हुए बोले—“गुलाम हाजिर है, महागनी माहिवाका बंधा हुक्म है, फरमावं।”

घर-पालिकिनने सिर हिलाकर कहा—“वस, रहने दो, देख ली, अब ज्यादा रसिकता मत करो। इतने दिन काशीमें विना आये, कभी एक दिनके लिए याद भी की?” इयादि।

इसी तरह दोनों ओरसे बहुत देर तक एक दूसरेपर प्यारका दोपारोपण होना रहा,—अन्नमें वह व्यक्तिको छोड़कर जानिपर आ पड़ा,—नवद्वीपकी माँने पुरुषोंके प्रेमकी मुसलमानोंके मुर्गी-वात्सल्यसे तुलना की। नवद्वीपके वापने कहा—“स्त्रियोंके मुँहपर मधु रहता है, हृदयमें लगी।” परन्तु यह बतलाना कठिन है कि इस मौखिक मधुरताका परिचय नवद्वीपके वापको कब मिला।

इसी बीचमें गमकन्हाईको अकस्मान् अदालतसे एक गवाहीका सफीना मिला। बंचारेके हाथ-पाँव ढीले पड़ गये। गमकन्हाई सफीना पढ़कर उसका मतलब समझनेकी कोशिश कर रहे थे, इतनेमें नवद्वीपकी माँने आकर रोना शुरू कर दिया। कहने लगी—“आग-दूँ

डंकिनी मेरे लालको सिर्फ नाऊकी जायदादसे कोग रखना चाहती हो, सो नहीं, वह तो उसे जेल भिजवानेकी तयारी कर रही है।”

अन्त तक धीरे-धीरे सब वानें समझकर गमकन्हाई दंग रह गये। भुँझलाकर जोगसे बोल उठे—“अरे, तुम लोगोंने यह क्या सत्यानाम कर डाला!” मालिकिनने भी क्रमशः अपना स्वरूप प्रकट किया, बोली—“क्यों, इसमें नवद्वीपका क्या दोप हो गया? वह अपने ताऊकी जायदाद न लेगा! यो ही बात-की-बातमें छोड़ देगा।”

एक बाहरकी छोकड़ी, पतिकी आयु हड्पनेवाली, डायन आकर घरकी मालिकिन वन बैठे, और घरका लड़का चुपचाप उसे देखना रहे? कौन ऐसा छात्कुलप्रदीप कनकचन्द्र वंशधर होगा, जो यह अनाचार सह ले? मान लो, मरते समय और डंकिनीके मन्त्र फूँकते रहनेसे अगर किसी मृदुमनि नाऊकी बुद्धि ब्रष्ट हो जाय, तो क्या बुद्धिमान भनीजा उसे अपने हाथसे नहीं मुधार लेता है? इसमें कोनसा अन्याय हुआ?

हनुमुद्धि गमकन्हाईने जब देखा कि उनके स्त्री-पुत्र दोनों मिलकर कभी नर्जन-गर्जन, कभी अश्व-विसर्जन करने लगे, तब तकदीर ठोककर चुपचाप बैठ गये—अन्न-जल छोड़ दिया।

इस तरह दो दिन चुपचाप बिना कुछ गवाये-पीये बीत गये। मुकद्दमेका दिन आया। इसी बीचमें नवद्वीपने वरदासुन्दरीके मर्मे भाईको डर दिखाकर ऐसा वशमें कर लिया कि उसने सहज ही नवद्वीपकी तरफ गवाही दी। जयश्री जब वरदासुन्दरीको त्यागकर दूसरी ओर जानेकी तयारी कर रही थी, तब गमकन्हाईकी पुकार हुई।

दो दिनसे खाना-पीना छोड़ देनेसे बृद्ध गमकन्हाईकी बड़ी व्युत्त हालत थी, ओठ सूख गये थे, ज्वान सूखकर नालूसे लग गई थी। अधमरे बृद्ध गमकन्हाईने अपनी काँपती हुई शिथिल उँगलियोंसे गवाहके कठघरेको जोरसे दावकर पकड़ लिया। चतुर वैरिस्टर वड़े कौशलसे पेटकी बात निकालनेके लिए जिरह करने लगे—बहुत दूरसे शुरू करके बड़ी सावधानी और अत्यन्त धीर वक्रान्तिसे प्रसंगके पास पहुँचनेकी कोशिश करने लगे।

तब गमकन्हाईने जजकी ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा—“हुजूर, मैं बृद्धा हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। ज्यादा बोलनेकी मुझमें दम नहीं है। मुझे जो कहना है, संक्षेपमें कह देना हूँ। मेरे भाई साहब स्वर्गाय गुरुचरण चक्रवर्णी मरने समय अपनी सारी जायदाद अपनी धर्मपत्री श्रीमती वरदामुन्दरीको दे गये हैं। वसीयतनामा मैंने अपने हाथसे लिया था और भाई साहबने उसपर दस्तखत किये थे। मेरे पुत्र नवद्वीपचन्द्रने जो वसीयतनामा दिखाया है, वह झूठा है।” इतना कहकर गमकन्हाई काँपने लगे और तुरंत ही मृद्धित हो गये।

चतुर वैरिस्टरने बड़ी शोखीसे बगलमें बैठे हुए अटर्नीसि कहा—“वाइ जोव ! देखा, जिरहमें कंसा कसकर फँसाया था !”

ममेग भाई जीजीके पास दौड़ा गया, बोला—“बुद्धेने तो सब मस्ती कर दिया था, मेरी गवाहीसे मुकदमा सम्भल गया।”

जीजीने कहा—“अच्छा ! आइमीको कौन पहचान सकता है ? मैं तो बुद्धेको भला आइमी जानती थी।”

जैल गये हुए नवद्वीपके बृद्धिमान मित्रोंने खब विचार कर निश्चय

किया कि अवश्य ही तुड्डेने डग्कर ऐसी गवाही दे डाली है। कठघरे पर जाकर तुड्डा तुद्धिको ठीक नहीं रख सका। ऐसा ठोस बेवकूफ सारे शहरमें ढूढ़े न मिलेगा।

घर लौटकर गमकन्हाईको जोरोंका सन्निपात ज्वर चढ़ा। बादमें पुत्रका नाम लेते-लेते बेचारा निर्वोध सर्वकार्य-विध्वंसकारी, नवद्वीपका अनावश्यक वाप संसारसे सदाके लिए विदा हो गया। घरबालों में से किसी-किसीने कहा—“और कुछ दिन पहले चला जाता तो अच्छा था”।—परन्तु जिस-जिसने यह बात कही थी, उनका नाम लेना नहीं चाहता।

( वि० सं० १६४८ )

---

## व्यवधान

**ना** ना मिलाकर देखा जाय तो वनमाली और हिमांशुमाली दोनों में से

कुंकरे भाई हैं, सो भी बहुत हिसाब लगानेपर। परन्तु इनदोनोंका कठुम्ब बहुत दिनोंसे पड़ोसी रहा है; बीचमें सिर्फ एक काँचेका व्यवधान है, इसीलिए इनका नाना बहुत निकट न होनेपर भी घनिष्ठता काफी है।

वनमाली हिमांशुसे बड़ा है। हिमांशुके जब दाँत नहीं निकले थे और वह बोल भी नहीं सकता था, तब वनमालाने गोदमें लेकर इसी बगीचेमें उसे मुबह-शाम हवा छिलाई है, खेल सिखाया है, गोना बन्द कराया है, दोदो-दोदो करके मीठी नींद मुलाया है, और बच्चोंको बहलानेके लिए परिणत-बुद्धि प्रोट्रोट्र व्यक्तियोंको—ज़ोरसे सिर हिलाना, अंटसंट बोलना, आदि—जो भी कुछ वयसानुचित चपलता और उत्कट उद्यम करना पड़ता है, उसमें भी वनमालीने कोई बात उठा न रखी थी।

वनमाली विशेष पढ़ा-लिखा नहीं है। उसे बगीचेका शौक था, और था इस दूरके नातेके छोटे भाईपर प्रेम। वह उसे एक दुर्लभ और अमूल्य लताकी तरह अपने हृदयका स्नेह सींचकर पाल रहा था। और जब वह उसके तमाम अन्तर-बाहरको आच्छन्न करके खूब फलने-फूलने लगी, तब वनमाली अपनेको धन्य समझने लगा।

यदि वात अक्षम देखनेमें नहीं आती ; परन्तु कोई कोई स्वभाव ऐसा होता है, जो एक छोटीसी कल्पना या एक छोटे वच्चे या एक अकृतज्ञ मित्रके लिए सहज ही में अपनेको समूर्णतः विसर्जन कर देना है—इस विशाल पृथ्वीपर मिर्फ एकछोटेसे स्नेहके कागेवारमें जीवनका साग मूल्यन लगाकर निश्चिन्न हो जाता है। उसके बाद या नो वह जगसे मुनाफेपर परम मन्तोपके साथ जीवन विना देना है, या किस सहसा किसी दिन प्रभातमें अपना घर-द्वार मब बंचकर कंगाल होकर गास्तपर जा खड़ा होता है।

हिमांशुकी उष्ण जब और थोड़ी बढ़ गई, तब, उष्ण और नातेका काफी तारतम्य होनेपर भी, बृनमालीका उसके साथ मानो मित्रताका बन्धन स्थापित हो गया। दोनोंमें मानो छोटे-बड़ेका कोई भेद ही न रहा।

ऐसा होनेका कुछ कारण भी था। हिमांशु पढ़ता-लिखता था और उसकी ज्ञानस्पृहा स्वभावतः बहुत तंज थी। पुस्तक पाने ही पढ़ने बैठ जाता, इससे फालतू पुस्तकें भी बहुतसी पढ़ी गईं, परन्तु किसे भी हो, चांगे नरफ़से उसके मनने एक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। बृनमाली विशेष श्रद्धाके साथ उसकी वात मुनता था, उससे सलाह लेता था, उसके साथ छोटी-बड़ी सब वातोंकी आलोचना करता था, किसी भी विषयमें बालक समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करता था। हृदयके प्रथम स्नेह-रससे जिसे पाल-पोमकर आदमी बनाया गया है, उमरपर वही याद अपनी दुष्टि, ज्ञान और उत्तम-स्वभावके लिए श्रद्धाका अधिकारी बन जाय, तो उसके समान ऐसी परम प्रिय वस्तु संसारमें और उसमें नहीं मिल सकती।

बगीचेका शौक हिमांशुको भी था। परन्तु इस विषयमें दोनों मित्रोंमें कुछ भेद था। वनमालीको था हृदयका शौक, और हिमांशुको बुद्धिका। पृथ्वीतलके ये कोमल पौधे और लताएं, यह अचेतन जीवन-गणि, जो यत्नकी ननिक भी लालसा नहीं रखती और फिर भी यब पानेपर घरके बाल-बच्चोंकी तरह बढ़ती रहती है, जो आदमीके बाल-बच्चोंमें भी बढ़कर बच्चे हैं, उनको यक्से पाल-पोसकर बड़ा बनानेके लिए वनमालीमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। परन्तु हिमांशुमें पेड़-पौधोंके प्रति एक कौतूहल हैषि थी। अंकुर निकल आये, कल्पा फूटने लगे, और लग गये, फूल खिलने लगे, इन सब बातोंमें उसका खूब मन लगता था।

बीज बोने, कलम लगाने, खाद देने, मचान बांधने आदि विषयोंमें हिमांशुको नई-नई बातें सूझतीं और वनमाली उन्हें बड़े आनन्दके साथ सुनता। इस बगीचेके लिए आकृति-प्रकृतिके जितने प्रकार भी संयोग-वियोगके हो सकते हैं, दोनों मिलकर सब करते।

दरवाजेके सामने बगीचेके बीचमें एक पक्की बेदी-सी बनी थी। चार बजते ही वनमाली एक महीन कुरता पहनकर, चुना हुआ दुपट्टा कंधेपर डालकर, हाथमें नलीदार हुक्का लिये वहां छायामें जाकर बैठ जाता। कोई मित्र-दोस्त भी नहीं थे और न हाथमें कोई पुस्तक या अखबार। बैठा-बैठा हुक्का पीता, और तिगछी निगाहसे, उदासीन भावसे कभी दायें और कभी बायें देखा करता। इसी प्रकार उसका समय हुक्केके धुएँकी तरह धीरे-धीरे बहुत ही हल्का होकर उड़

जाता, टूट जाता, शून्यमें विला जाता, कहीं भी उसका कोई चिह्न न रह जाता ।

अन्तमें जब हिमांशु स्कूलसे लौटकर कलेया करके हाथ-मुँह धोकर दिखाई देता, तब वह झटपट हुस्केकी नली छोड़कर उठ बैठता । तब उसके आग्रहको देखकर सहज ही समझमें आ जाता कि वह अब तक किसके लिए बैठा-बैठा धीरजके साथ इन्तजार कर रहा था ।

\* उसके बाद दोनों जने बगोचेमें बातें करते हुए टहलते । अन्यकार हो आज्ञेपर दोनों बैच्चदर बैठ जाते—दक्षिणकी हवा पेड़के पत्तोंको हिलाती हुई वही चली जाती, किसी-किसी दिन हवा चलती भी न थी, पेड़-पौधे नम्रतीरकी तरह निश्चल रहे रहते, मिरपर आकाश-भरमें तांग चमकते रहते ।

हिमांशु बातें करता, बनमाली चूपचाप सुनता रहता ! जो बात समझमें न आती, वह भी उम्म अच्छी लगती ; जो बातें और किसीके मुहसें बहुत ही बुरी और खबरी मालूम दे सकती थीं, वे ही बातें हिमांशुके मुहसें बड़े मज़ेकी लगतीं । परंतु अद्वावान् प्रौढ़ श्रोताके मिल जानेसे हिमांशुकी वक्तृता-शक्ति, स्मृति-शक्ति और कल्पना-शक्तिको विशेष लाभ होता । वह कुछ पढ़कर कहता, कुछ सोचकर कहता और कुछ उपस्थित-बृद्धिमें जो आती सो कह डालता ; और कभी-कभी कल्पनाकी सहायतासे अपने ज्ञानकी कमीको ढक लेता । वह बहुतसी ठीक बातें कहता, बहुतसी ग़लत भी कह डालता, पर बनमाली सबको गंभीरतासे सुनता,

बीच-बीचमें दो-एक शब्द वह भी कहता, हिमांशु उसका प्रतिवाद करके जो समझा देता वही समझ लेता, और उसके दूसरे दिन छायामें बैठकर हुका पीना हुआ उन दोनोंको वहुत देर तक विस्मयके साथ सोचता रहता।

इनमें एक भगड़ा उठ खड़ा हुआ। वनमाली और हिमांशुके मकानके बीचमें एक पानीका नाला है। उस नालेमें एक जगह एक नीवूका पेड़ पैदा हो गया है, उस पेड़पर जब फल लगते हैं, तो वनमालीका नौकर उन्हें नोडनेकी कोशिश करता है, और हिमांशुका नौकर उसे गेकरता है; और इस बारेमें दोनों ओरमें गाली-गलौज्जकी जो वर्षी होती है, उसमें यदि जग भी तच्च होता, तो शायद तमाम नाला भर जाता।

नतीजा यह हुआ कि वनमालीके पिता हरचन्द्र और हिमांशुके पिता गोकुलचन्द्रमें इसी बातको लेकर तकरार हो गई। दोनों फरीके नालेके अधिकारका निर्णय करानेके लिए अदालत पहुंचे।

वकील-बैरिस्टरोंमें जितने भी महारथी थे, सभीने दोनोंमें से किसी-न-किसीका पद्ध लेकर वाक्-युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओरसे इतने स्पष्ट खर्च हुए कि सावन-भाद्रोंकी वपरीमें उस नालेसे उतना पानी भी कमी न वहा होगा।

अन्तमें हरचन्द्रकी जीत हुई; सावित हो गया कि नाला उन्हींका है, और नीवूके पेड़पर किसीका भी हक नहीं है। अपील हुई, परन्तु नाला और नीवूका पेड़ हरचन्द्रका ही रहा।

जिनने दिन मुकदमा चलना रहा, दोनों भाइयोंकी मित्रतामें कोई कर्क न आया। इस आशंकासे कि शायद कहीं भगड़की छाया उन्हें

छ न ले, वनमाली दूनी वनिष्टनासं हिमांशुको हृदयके पास वाँच रखनेकी कोशिश करने लगा, और हिमांशुने भी तनिक भी चिमुखता नहीं प्रकट की ।

जिस दिन अदालतसं हग्चन्द्रकी जीत हुई, उस दिन घरमें, खामकर अन्तःपुरमें गुशियाँ मनाई जाने लगीं ; सिर्फ वनमालीकी आँखोंमें नींद नहीं गही । उसके दूसरे दिन कर्णीव चार बजे वह उदास चेहरा लेकर उसी वगीचेकी बेंदीपर जा बैठा, मानो पृथ्वीपर और किसीके भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसीकी बड़ी-भागी हार हुई है ।

उस दिन सुरज ढूब गया, छः बज गये, पर हिमांशु नहीं आया । वनमालीने एक गहरा उदास लेकर हिमांशुके मकानकी ओर देखा । गुले जंगलेमें से देखा, अगगनीपर हिमांशुके स्कूलके कपड़े लटक रहे हैं ; वहुनसं चिरपरिचित लझणोंसे जान लिया—हिमांशु घर ही में है । हुश्काकी नली फेंककर उदास मुँह लिये टहलने लगा, और हजार बार उसी जंगलेकी तरफ देखा, पर हिमांशु वगीचेमें नहीं आया ।

शामकी वत्ती जलनेपर वनमाली धीरे-धीरे हिमांशुके वर गया ।

गोकुलचन्द्र दगवाजेपर बैठे हुए गरम देहपर हवा लगा रहे थे । उन्होंने कहा—“कौन है ?”

वनमाली चौंक पड़ा । मानो वह चोरी करने आया हो, और पकड़ा गया हो ।

कौपती हुई ज्ञानसे बोला—“मैं हूं, मामाजी !”

मामाने कहा—“किस ढूँढ़ने आये हो ? घरपर कोई नहीं है ।”

वनमाली फिर वगीचेको लौट आया और चपचाप बैठ गया ।

जितनी गत वीतने लगी, उसने देखा कि हिमांशुके मकानके जंगले एक-एक करके सब बंद हो गये ; दरवाजेकी संधरमें से जो उजेला चमक रहा था, वह भी क्रमशः बुझ गया। अंधेरी गतमें बनमालीको ऐसा मालूम हुआ कि हिमांशुके घरके सारे दरवाजे उसीके लिए बंद हो गये हैं, मिर्फ़ वही अंकला बाहरके अन्धकारमें पड़ा रहा।

दूसरे दिन फिर वगीचेमें आकर बैठ गया; सोचने लगा, आज शायद आवं तो आ सकता है। जो बहुत दिनोंमें गेज़ आया करना था, वह एक दिनके लिये भी न आयेगा, यह बात वह किसी भी तरह न सोच सका। कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि यह बन्धन किसी भी तरह टूट जायगा; इनना निश्चिन्त था कि उसे पता नहीं कि कब उसके जीवनके सारे मुख-दुःख उस बन्धनमें जकड़ गये। आज अकस्मात् मालूम हुआ कि वह बन्धन टूट गया है, पर एक ही मृदृतमें उसका यह सर्वनाश हुआ है, यह वह किसी भी तरह हड्डयसे विश्वास नहीं कर सका।

प्रतिदिन नियमसं वह वगीचेमें बैठता है, शायद दंबयोगसे आ जाय ; परन्तु ऐसा दुभाग्य है कि जो नियमानुसार प्रतिदिन होता था, वह दंबयसे एक दिन भी न हुआ।

गविवारके दिन सोचा, पहलेकी तरह आज भी हिमांशु सबोरे हमारे यहीं खानेको आवंगा। हृद विश्वास तो नहीं किया, पर फिर भी आशा न छोड़ सका। सब आये, पर वह नहीं आया।

तब बनमालीने कहा, “तो अब शायद खाकर ही आयेगा।” खाकर भी नहीं आया। बनमालीने सोचा, “शायद आज खा-पीकर

सो गया है, जगनेपर आयेगा।” कब जगा, सो तो नहीं मालूम, पर आया नहीं।

फिर वही शाम हुई, रात हो गई, हिमांशुके घरके दरवाजे एक-एक करके सब बंद हो गये, एक-एक करके सब बत्ती भी बुझ गई।

इस तरह सोमवारसे लेकर गविवार तक सप्ताहके सातों दिन उसकी तक़दीरने जब छीन लिये, आशाको आश्रय देनेके लिए हाथमें एक भी दिन जब याकी नहीं बचा, तब हिमांशुके बंद मकानकी तरफ उसकी डबडबाती हुई व्युथित आँखोंने एक मर्मभंडी अभिमानको फरियाद भेज दी, जीवनकी सारी बेदनाको सिर्फ़ एक ही आर्तस्वरमें भरकर उसने कहा—“हे दयामय !”

[ विं सं. १८८८ ]

---

## ताराप्रसन्नकी करतूत

**ले**खक-जानिकी प्रकृतिके अनुसार तागप्रसन्न ज़रा कुछ भेंप् और मुँह-लिपाऊ आदमी थे। लोगोंक सामने निकलनेमें उनका सिर चकगता था। घर बैठे कलम चलाने-चलाने उनकी हाषि घट गई, पीठ झुक गई, पर गिरफ्तीका अनुभव अभी बहुत ही थोड़ा है। लौकिकताके बंधे हुए बोल स्वभावतः उन्हें आते न थे, इसलिए गृह-दुर्गसे बाहर वे अपनेको किसी भी तग्ह निगपद न समझते थे।

लोग भी उन्हें एक अजब ही चीज़ समझते थे, और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। मान लो, पहली मुलाकातमें किसी भलेमानसने उनसे बड़ी प्रसन्नतासे कहा—“आपके साथ मिलकर मुझे इतना आनन्द हुआ कि जिसका पार नहीं।”—तागप्रसन्न चुपचाप बैठे बड़े ध्यानके साथ अपनी दाहनी हथेली देखने लगे। सहसा उस नीरवताका अर्थ ऐसा मालूम होता है, “हाँ, तुम्हें जो आनन्द हुआ, सो हो सकता है, पर मुझे आनन्द हुआ, यह भूठी बात में कैसे मँहसे निकाल, यही सोच रहा हूँ।

मध्याह-भोजनके लिए निमंत्रण देकर लग्वपनी वरका मालिक जब तीसरे पहर पगोसना शुरू करता है—और बीच-बीचमें विनीत प्रार्थनाके साथ भोज्य पदार्थकी तुच्छनाके विषयमें तागप्रसन्नको सम्बोधन-पूर्वक कहता रहता है—“यह कुछ नहीं, कुछ नहीं ! बहुत मामूली है ! गगीवकी रसवी-मूर्गी है, विदुरका आयोजन है ! आपको सिर्फ तकलीफ देना है”—तब भी तागप्रसन्न चूप ही बने रहते हैं ; मानो उनकी बात ऐसी प्रामाणिक है कि उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है—जब कोई भलामानस तागप्रसन्नसे आकर कहता है कि उनके समान अथाह पाण्डव्य इस ज्ञानमें मिलना मुश्किल है, सरस्वती अपना पद्मासन त्यागकर उनके कण्ठाप्रमें निवास करती हैं, तब भी तागप्रसन्न उसका जगा भी प्रतिवाद नहीं करते, मानो सचमुच ही सरस्वती उनका कण्ठ धेनकर बैठी हों। तागप्रसन्नको यह जानना चाहिए कि महापर जो प्रशंसा करते हैं, और दूसरोंके सामने जो आत्म-निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे दूसरोंसे प्रतिवादकी प्रत्याशासे ही बहुत-कुछ असंकोच अत्युक्ति कर डालते हैं—दूसरा पक्ष यदि शुरूसे आखिर तक तमाम बातें यों ही मुनता रहे, तो वक्ता अपनेको प्रतारित समझकर अत्यन्त क्षुब्ध हो जाता है। ऐसी दशामें लोग अपनी बात झूठ सावित होनेपर भी दुःखित नहीं होते ।

वरके आदमियोंके साथ तागप्रसन्नका व्यवहार दूसरी तरहका है, और तो क्या, उनकी खास स्त्री दाक्षायणी भी उनके साथ बातोंमें नहीं जीत पाती । उन्हें बात-बातपर कहना पड़ता है—“रहने दो, रहने

दो : मैं हारी, तुम जीते, वस ! मुझे अभी और भी काम करने हैं।” वाकु-युद्धमें स्त्रीको उसीके मुहसें हार मनवा लें, ऐसी शक्ति और ऐसा सौभाग्य किनने पतियोंको प्राप्त है ?

नाराप्रसन्नके दिन वडे मजेमें बीते जाते हैं। दाक्षायणीको यह वट्ठ विश्वास है कि विद्या-युद्ध और धूमतामें उनके पतिके वगवरीका कोई नहीं है, और इस बातको वे मुंह खोलकर कह भी डालती हैं—मुनकर ताराप्रसन्न कहते—“तुम्हारे एकके सिवा दूसरा कोई पति ही नहीं है, तुलना करो तो किसमें ?” इसपर दाक्षायणी बहुत गुस्सा हो जाती ।

दाक्षायणीको मिर्फ एक ही बातका अफसोस है, यह यह कि उनके पतिकी असाधारण शक्ति बाहर प्रकट नहीं होती, न पतिको इस बारेमें कुछ दिलचस्पी ही है। नाराप्रसन्न जो लिखते हैं, उसे छपाते नहीं ।

दाक्षायणी कभी-कभी अनुरोध करके पतिके मुँहसे उनके लेख सुना करती—जितना ही उनकी समझमें न आता, उतनी ही वे आश्र्वयमें पड़ जाती । उन्होंने कृतिवासकी गमायण, काशीदासका महाभारत, कविकद्वाण-चण्डी पढ़ा है, और कथाएं भी सुनी हैं। वह सब-कुछ पानीकी तरह सरलतासे समझमें आ जाता है—निरक्षर लोग भी आसानीसे समझ लेते हैं; परन्तु उनके पतिकी रचनाके समान ऐसी पूरी तरहसे न समझमें आनेवाली आश्र्वयकी चीज़ इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं देखी या सुनी ।

वे मन-ही-मन सोचतीं, यह पुस्तक जब छपकर निकलेगी और कोई भी उसका एक अक्षर न समझ सकेगा, तब देश-भरके लोग

आश्रयमें दंग रह जायेगे। उन्होंने हजारों बार पनिदेवमें कहा—  
“इन सवको छपा डालो !”

पनि कहते—“पुस्तकके छपानेके विषयमें भगवान् मनु स्वयं कह गये हैं ‘प्रवृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाकला’।”

तागप्रसन्नके चार सन्तानें हैं, चारों ही कन्या। दाक्षायणी समझती थीं, यह गर्भवासिणीकी ही त्रुटि है। इसलिए वे अपनेको अपने प्रतिभा-सम्पन्न पतिके लिए अत्यन्त अयोग्य स्त्री समझती थीं। जो पनि बात-की-बातमें ऐसे-ऐसे दुःख ग्रन्थोंकी रचना कर डालना है, उसकी स्त्रीके गर्भमें सिवा कन्याके और सन्तान ही नहीं होती, स्त्रीके लिए इससे बढ़कर अयोग्यता और क्या हो सकती है!

पहलोटी लड़की जब पिताकी छानी तक बढ़ गई, तब तागप्रसन्नकी निश्चिन्तता जाती गई। तब उन्हें होश आया कि एक-एक करके चारों लड़कियोंका व्याह करना है, और उसके लिए बहुतमें रूपयोंकी ज़रूरत है। गुहिणीने अत्यन्त निश्चिन्ततासे कहा—“तुम अगर एक बार ज़रा मन लगा दो, तो फिर किसी बातकी चिन्ता ही न रहे।”

तागप्रसन्न कुछ व्यग्रतासे पूछ उठे—“सचमुच ! अच्छा, बताओ तो सही, क्या करना होगा ?”

दाक्षायणीने संशय रहित निरुद्धिग्रभावसे उत्तर दिया—“कलकत्ते चलो—अपनी पुस्तकें छपाओ—लोग तुम्हें जान जायें—फिर देखना, रुपये अपने-आप आते हैं या नहीं।”

स्त्रीकी तसल्लीसे तागप्रसन्नको भी धीरे-धीरे तसल्ली होने लगी—और मनमें निश्चय हो गया कि घर बैठ-बैठे अब तक उन्होंने जितना

लिया है, उससे उनकी बात तो क्या, उनके मुहल्ले-भरके लोगोंको कन्या-दायरे मुक्त किया जा सकता है।

अब कलकत्ते जाते ममय बड़ी-भागी एक दिक्कत खड़ी हुई। दाक्षायणी अपने निर्माण निःसहाय पतिको किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। वहां उन्हें खिला-पिलाकर और नित्य-नैमित्तिक कर्तव्योंकी याद दिलाकर गिरगतीके विविध उपद्रवोंसे उनकी कौन गङ्गा करेगा?

परन्तु अनभिज्ञ पति भी अपशिचित परदेशमें स्त्री-कन्याओंको साथ ले जानेमें डरते हैं और गङ्गी नहीं होते। अन्तमें दाक्षायणीने मुहल्लेके एक चतुर आदमीको पतिके नित्य अभ्यासके बारेमें हज़ारों उपदेश देकर अपने पढ़पर नियुक्त किया। और पतिको बहुत-बहुत सौगंद दिलाकर, बहुतसे तावीज-गंडे पहनाकर दरदेशको रखाना कर दिया, और घरमें पछाड़ खाकर रोने लगी।

कलकत्ते आकर तागप्रसन्नने अपने चतुर साथीकी सहायतामें 'वेदान्त-प्रभाकर' प्रकाशित किया। दाक्षायणीके गहने गिरवी रखकर जो कुछ स्पष्ट मिले थे, उनमेंसे अधिकांश खर्च हो गये।

विक्रीके लिए किताबोंकी दुकानोंपर और समालोचनाके लिए देशके तमाम छोटे-बड़े सम्पादकोंके पास 'वेदान्त-प्रभाकर' भेजा गया। डाकसे स्त्रीको भी एक प्रति गजिस्टरी करके भेज दी; डर था कि कहीं बीच ही में डाकखाने वाले न उड़ा लें।

गृहिणीने जिस दिन छपी हुई किताबके ऊपरके पुष्पपर छापेके हँड़फोंमें अपने पतिका नाम देखा, उस दिन मुहल्लेकी तमाम

लड़कियोंको निमन्त्रण देकर खुब खिलाया । जहां सबके बैठनेका स्थान था, वहां किनाब पड़ी रखने दी ।

जब सब आकर बैठ गईं, तो ऊचे स्वरमें बोली—“अरे, यह पुस्तक यहां किसने रख दी ! अन्नदा, जग उस किनाबको उठा देना बहन, उठाकर रख दूँ ।” इन लड़कियोंमें अन्नदा पढ़ना जाननी है। पुस्तक उठाकर टीनके बकसपर रख दी ।

कुछ देर बाद एक चीज़ उतारन्तमें उसे हाथसे गिर दी—फिर अपनी बड़ी लड़कीका नाम लेकर बोली—“शशी, बावृजीकी पुस्तक पढ़ना चाहनी है क्या ? तो लेनी क्यों नहीं, पढ़-पढ़ ! इसमें सरम काहंकी !” बावृजीकी पुस्तक पढ़नेके लिए शशीको बिलकुल ही आग्रह न था ।

फिर कुछ देर बाद उसे डाटकर कहने लगी—“छिः, बेटी, बावृजीकी किनाब इस तरह चिगाड़ते नहीं, अपनी कमला जीजीके हाथमें दो, वह उस अलमारीके ऊपर रख देंगी ।”

किनाबके यदि जग भी कहीं चेतना होती, तो उस एक ही दिनके उत्पीड़नसे बेदान्तका प्राणान्त परिच्छेद हो जाता ।

एक-एक करके सब समाचारपत्रोंमें समालोचना निकलने लगी । गुहिणीने जो सोचा था, वह बहुत अंशोंमें सत्य सावित होने लगा । ग्रन्थका एक भी अश्वर न समझमें आनेके कारण देश-भरके समालोचक बिलकुल विह्वल हो उठे । सभीने एकस्वरसे कहा—“ऐसा सारगर्भित ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ ।”

जो समालोचक गेनल्डमके ‘लन्दन-ग्रहस्य’के अनुवादक सिवा

और कोई पुस्तक दृ नहीं सकते, उन्होंने वडे उत्साहके साथ लिया—“देशके ढंग-के-ढंग नाटक-उपन्यासोंके बढ़ले यदि इस श्रेणीके दो-एक प्रन्थ वीच-वीचमें निकलते रहें, तो हमारा साहित्य सचमुच ही पढ़ने योग्य हो जाय।”

जिस व्यक्तिने पुस्तानुक्रमसे वेदान्तका नाम कभी सुना नहीं था, उसीने सिर्फ़ यह लिया—“लेखकके साथ सब स्थलोंपर हमारा मत्तक्य नहीं है—स्थानाभावके कारण यहां उनका उल्लेख नहीं किया जा सका। परन्तु फिर भी मोटी तौरपर यह कहा जा सकता है कि प्रन्थकारके साथ हमारे मतका बहुत जगह सामंजस्य पाया जाता है।” वान यदि सत्य होती, तो कम-से-कम प्रन्थको जला देना उचित था।

देशमें जहां-कहीं जिनती भी लाइब्रेरी थीं और नहीं थीं, उन सबके मंत्रियोंने मुद्राके बढ़ले मुद्राङ्कित पत्र भेजकर तागप्रसन्नसे प्रन्थकी भिक्षा चाही। वहुतोंने लिख भेजा—“आपके इस चिन्ताशील प्रन्थसे देशका एक बड़ाभागी अभाव दूर हो गया है।” चिन्ताशील प्रन्थ किसे कहते हैं, तागप्रसन्न ठीक-ठीक न समझ सके, परन्तु फिर भी पुलकित चित्तसे गांठसे डाकखर्च देकर हरएक लाइब्रेरीको ‘वेदान्त-प्रभाकर’ भेज दिया।

इस तरह वेशुमार स्तुति-वाक्योंकी वर्षासे तागप्रसन्न जब बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे थे, ठीक उसी मोक्षेपर पत्र मिला कि दाक्षायणीके बहुत ज़लदी पाँचवीं सन्तान होनेकी सम्भावना है। तब कहीं वे ग़म्भकको साथ लेकर रूपये वसूल करनेके लिए दृक्कानोंपर पहुंचे।

मत दृकानदारोंने एक ही तरहका जवाब दिया—“एक भी किनाव नहीं विकी है।” सिर्फ़ एक जगह मुना कि बाहरसे किसी एक आदमीने किनाव मंगाई थी और उस बी० पी० भी भेजी गई थी, पर वह लौट आई, किसीने लूडाई ही नहीं। दृकानदारको अपनी गांठसे डाकखर्चका दण्ड देना पड़ा, इसलिए वह प्रनथकारपर बहुत ही खफा हुआ और उसी समय किनाव वापस करनेको तैयार हो गया।

प्रनथकार घर लौटकर बहुत-कुछ मोचते रहे, पर कुछ भी उनकी अक्लमें न आया। अपने चिन्ताशील प्रनथके विषयमें जितनी ही अधिक चिन्ता करने लगे, उनमें ही वे अधिकतर उद्धिष्ठ होने लगे। अन्तमें जो कुछ रूपये शेष बचे थे, उसीके सहारे देशकी तरफ़ चल दिये।

तागप्रसन्नने गुहिणीके पास आकर अन्यन्त आडम्बरके साथ प्रकुप्ता प्रकट की। दाक्षायणी शुभ-संवादके लिये हँसती हुई प्रतीक्षा करती रही।

तागप्रसन्नने एक अंक ‘गोडवात्तीवह’का लाकर गुहिणीकी गोदमें फेंक दिया। पढ़कर मन-ही-मन उन्होंने सम्पादकके तईं अश्वय धन और पुत्रकी कामना की; और उनके मुहपर मानसिक पुष्प-चन्दनका अर्घ्य दिया। समालोचना पूरी पढ़ चुकनेके बाद फिर पतिकी तरफ़ देखने लगीं।

पतिने नब ‘नवप्रभात’ खोलकर रख दिया। पढ़कर आनन्दसे चिह्निल दाक्षायणीने फिर पतिके मुहपर प्रत्याशापूर्ण स्निग्ध हाथ डाली।

तब तागप्रसन्नने 'युगान्तर' निकाला। उसके बाद ? उसके बाद 'भारत-भाग्यचक्र'। उसके बाद ? उसके बाद फिर 'शुभ जागरण', उसके बाद 'अमणालोक', उसके बाद 'संवाद-तरङ्ग-भङ्ग', उसके बाद 'आशा', 'आगमनी', 'उछुवास', 'पुष्पमञ्जरी', 'सहचरी', 'सीता-गजट', 'अहल्या लाइंगरी प्रकाशिका', 'ललित समाचार', 'कोतवाल', 'विश्व-विचारक', 'लावण्य लतिका'। हँसते-हँसते गुहिणीके आनन्दाश्रु भरने लगे।

आँखें पोंछकर फिर एक बार पतिके कीर्तिग्रन्थ-समुज्ज्वल मुखका ओर देखा, पतिने कहा—“अभी और भी वहुतसे अखबार बाकी हैं।”

दाक्षायणीने कहा—“उन्हें शामको देखूँगी, अब और-और बातें सुनाओ, कैसे क्या हुआ ?”

तागप्रसन्न बोले—“अबकी बार कलकत्ते जीकर सुन आया हूँ, लाट साहबकी मेमने एक किनाव निकाली है, पर उसमें 'वदान्त-प्रभाकर' का कोई उल्लेख नहीं किया है।”

दाक्षायणीने कहा—“अरे, इन सब बातोंको जाने दो—और क्या लाये, बताओ ?”

तागप्रसन्नने कहा—“कुछ चिट्ठियाँ भी हैं।”

तब फिर दाक्षायणीको साफ़-साफ़ कहना पड़ा—“मैंपरे किनने लाये ?”

तागप्रसन्नने उत्तर दिया—“विभूषणसे पांच मूपये उधार लेकर यहां आया हूँ।”

अन्तमें दाक्षायणीने जब साग वृत्तान्त सुना, तब संसारकी

साधुनाके विषयमें उनका नमाम विश्वाम उठउ गया। अवश्य ही दृकानदारोंने उनके पतिको ठग लिया है, और देश-भरके नमाम खगेदारोंने पड़यन्त्र करके दृकानदारोंको छकाया है।

अन्तमें सहसा याद आई कि जिसको अपना प्रतिनिधि बनाकर पतिके साथ भेजा था, उसी विद्युभूषणने ही भीतर-ही-भीतर दृकानदारोंसे मिलकर ऐसा किया है—और जितना दिन चढ़ने लगा, उन्होंने उनके पूरे दुश्मन हैं, यह सब काँचाई उन्हींकी है। हाँ, ज़रूर, जिस दिन उनके पति कलकत्ते गये थे, उनके दो ही दिन बाद विश्वम्भरको उन्होंने बड़के नीचे खड़े-खड़े कन्हाई पालसे बनलाते देखा था—परन्तु कन्हाई पालके साथ अक्सर उनको बानचीत हुआ करती थी, इससे उस समय सन्देह नहीं हुआ, अब तो सब साफ-साफ समझमें आ गहा है।

इधर दाक्षायणीको घर-गिरस्तीकी दुश्मिन्ना दिनों-दिन बढ़ने लगी। जब अर्थोपार्जनका ऐसा अच्छा और मुगम उपाय व्यर्थ हो गया, तो अपना कन्या-प्रसवका अपराध उन्हें चौगुना सताने लगा—जलाने लगा। विश्वम्भर, विद्युभूषण या देशके अधिवासियोंको इस अपगाधके लिये जिम्मेदार न कर सकीं—साग अपराध एक अपने ही सिगर लाद लिया—सिर्फ लड़कियां जो पैंदा हुईं और होंगी, उन्हें भी ज़रा-ज़रा बाँट दिया। दिन और रात, एक बड़ीके लिये भी उनके मनमें शान्ति न गही।

ज्यों-ज्यों प्रसवका समय निकट आने लगा, त्यों त्यों दाक्षायणीकी

शरीरकी हालत बिगड़ने लगी ; सबको विशेष चिन्ता हुई । निरुपाय नागप्रसन्न पागलकी तरह विश्वम्भगके पास दौड़ गये, बोले—“भाई साहब, मेरी इन पचास किनावोंको गिरवी रखकर अगर कुछ मृपये दे दो, तो मैं शहरसे अच्छी दाई बुलवाकर दिखा देंगूँ ।”

विश्वम्भगने कहा—“भाई, इसके लिये कोई फिकर नहीं, मृपया जो लगें सो मैं दूँगा, तुम इन किनावोंको ले जाओ ।” इतना कहकर कन्हाई पालके साथ बहुत-कुछ कहा-मुनी करके कुछ मृपये कहींसे ले आया, और विधुभूषण स्वयं अपनी गांठसे गहरवर्च देकर कलकत्तेसे धात्री ले आया ।

दाक्षायणीने न-जाने क्या सोचकर पतिको कमरेमें बुलवा लिया और सरकी कसम देकर कहा—“जब कभी तुम्हें वह दर्द सतावे, तो म्वप्पलब्ध औपधि खाना न भूलना । और उस संत्यासीका दिया हुआ तावीज कभी न खोलना ।” और भी बहुतसी छोटी-छोटी हजारें बातें पतिको समझाईं, और उनका हाथ पकड़कर उनसे सब मंजूर कर लीं । फिर बोली—“विधुभूषणका तर्निक भी विश्वास नहीं, उसीने हमारा सर्वनाश किया है ।” नहीं तो औपधि, तावीज और सरकी कसम-समेत अपने पतिको उसीके हाथ सौंप जातीं ।

उसके बाद महादेवके समान अपने विश्वासप्रवण भोलानाथ पतिको संसारके निर्मल कुटिल-वुद्धि पड़यन्त्रकारियोंके विषयमें बार-बार सावधान कर दिया । अन्तमें चुपके-से बोलीं—“देखो, मेरे जो लड़की होगी, वह अगर ज़िन्दा रहे, तो उसका नाम रखना ‘वेदान्त-प्रभा’, उसके बाद फिर चाहे उसे प्रभा कहकर ही बुलाना, कोई हर्ज़ नहीं ।”

इतना कहकर पतिके पैर छूए, पैरोंकी धूल माथेसे लाई। मन-ही-मन कहने लगीं—“सिर्फ लड़कियां पैदा करनेके लिये ही पतिके घर आई थीं। अबकी शायद उससे पिण्ड छूट जायगा।”

धात्रीने जब कहा—“माँजी, देखना ज़रा, लड़की कौसी सुन्दर हुई है।” माँने एक बार देखकर आँखें मीच ली, बड़े कोमल स्वरसे कहा—“वेदान्तप्रभा !” इसके बाद फिर उन्हें इस लोकमें एक भी बात कहनेका अवसर न मिला !

• [ वि० सं० १६४८ ]

---

## लल्लूका लौटना

पहला परिच्छेद

**रा**यचरण जब पहले-पहल नौकरीपर आया था, तब उसकी उमर थी बारह वरसकी । जसोर जिल्हेमें उसका घर था । लम्बे-लम्बे बाल, बड़ी-बड़ी आँखें और श्याम-चिक्कण छरछरी देह थी । जातिका कायस्थ था । उसके मालिक भी कायस्थ थे । मालिकके घर एक वरसका एक बच्चा था, उसीको खिलाना डुलाना बहलाना उसका मुख्य कर्तव्य था ।

धीरे-धीरे उस बच्चेने रायचरणकी गोद छोड़कर स्कूलमें, स्कूल छोड़कर कालेजमें और अन्तको कालेज छोड़कर मुन्सफीमें प्रवेश किया है । रायचरण अब भी उसका नौकर है ।

उसका एक मालिक और बढ़ गया है ; वहूंजी आ गई है ; इसलिये अनुकूल-बाबू पर रायचरणका पहले जितना अधिकार था, उसका अधिकांश नवीन गृहिणीके हाथ लग गया है ।

परन्तु मालिकिनने जैसे रायचरणका पूर्वाधिकार कुछ घटा दिया है, वैसे ही एक नया अधिकार देकर उसकी बहुत-कुछ पूर्ति भी कर दी है। थोड़े ही दिन हुए, अनुकूलके एक लड़का पंदा हुआ है,— और रायचरणने उसे सिर्फ अपनी कोशिश और मेहनतसे खूब अपना लिया है।

उसने उसे ऐसे उत्साहके साथ छुलाना शुरू किया है, ऐसी निपुणताके साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपरको उछालता है, उसके मुँहके पास जा-जाकर ऐसा सिर हिलाता रहता है, उत्तरकी कोई उम्मीद न रखकर ऐसे-ऐसे अर्थशून्य प्रश्न उससे करता रहता है कि वह नन्हाँ-सा आनुकौलव रायचरणको देखते ही मारे खुशीके फूल जाता है।

वह नन्हाँ-सा बच्चा जब पेटके बल—घुटनोंके बल—चल कर चौखट पार होता और कोई पकड़ने आता तो खिलखिलाकर हँसता हुआ जल्दीसे निरापद स्थानमें दुवकनेकी कोशिश करता, तब रायचरण उसकी असाधारण चतुरता और विचार-शक्ति देखकर आश्चर्यमें आ जाता। माँके पास जाकर बड़े गर्व और आश्चर्यके साथ कहता—“माँजी, तुम्हारा लड़का बड़ा होनेपर ‘जज’ होगा, पाँच हजार रुपये पाया करेगा।”

संसारमें और भी कोई मानव-सन्तान इस उमरमें चौखट पार करना आदि असम्भव-चातुर्यका परिचय दे सकती है, यह बात रायचरणके कल्यासके बाहर है, परन्तु सिर्फ भावी जजोंके लिये यह सब सम्भव है, उनके लिये यह कोई तअज्ज्ञवकी बात नहीं।

आखिर बच्चेने जब डगमगाते हुए चलना शुरू किया, तो वह बड़े आश्रयकी बात हो गई, और जब माँको 'म्माँ' बुआको 'उआ' और रायचरणको 'चन्ना' कहकर पुकारने लगा, तब गयचरण इस आश्रयजनक संवादको यत्र-तत्र घोषित करने लगा।

सबसे बड़ी तअज्जुबकी बात तो यह है कि माँको 'म्माँ' कहता है, बुआसे 'उआ' कहता है, पर उसे कहता है 'चन्ना'! वास्तवमें बच्चेके मस्तिष्कमें यह बुद्धि कहांसे आई, बतलाना कठिन है। अवश्य ही कोई ज्यादा उमरका आदमी ऐसी अलोक-सामान्यताका परिवय न दे सकता था, और देनेपर भी उसके जज-पदकी सम्भावनामें सबको पूरा-पूरा सन्देह उपस्थित होता।

कुछ दिन बाद मुँहमें रस्सी दबाकर रायचरणको घोड़ा बनना पड़ा। पहलवान बनकर उसे बच्चेके साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी—और पराजित होकर जमीनपर न गिर पड़े, तो बेचारेकी शामत आ जाती।

इसी समय अनुकूल-बाबूका पद्मा नदीके किनारे किसी जिलेमें तबादला हो गया। अनुकूल अपने बच्चेके लिये कलकत्तेसे एक छोटीसी ठेला-गाड़ी ले गये। साटनका कुरता और सिरपर जरीदार टोपी, हाथमें सोनेके कड़े और पौरोंमें लच्छे पहनाकर रायचरण नवकुमारको दोनों बक्क गाड़ीमें बिठाकर हवा खिलाने ले जाता।

बर्षाक्रृतु आई। क्षुधित पद्मा उद्यान, ग्राम, खेत, सबको एक-एक कौरमें मुँहमें ठूँसने लगी। टापूकी रेती पर के पेड़-पौधे सब पानीमें डूब गये। नदीके किनारेकी बाढ़ धसकनेके भयावने शब्द और

पानीके गर्जनसे दसों दिशाएँ मुखरित हो उठीं। द्रुत-गतिसे दौड़ती हुई फेनरशिने नदीकी तीव्र गतिको और भी प्रत्यक्ष कर दिया।

तीसरे पहर वादल उमड़े थे, पर वरसनेकी कोई सम्भावना न थी। रायचरणका खामखयाली तनिक-सा मालिक किसी भी तरह धरमें नहीं रहना चाहता। गाड़ीर सवार होकर अड़ गया। रायचरण धीरे-धीरे गाड़ीको ढकेलता हुआ खेतोंके पास नदी किनारे जा पहुंचा। नदीमें एक भी नाव न थी, खेतमें एक भी आदमी न था,—मेघके छिद्रोंमें से दिखाई दिया कि उस पार जन-शून्य बालुकामय नदी-किनारे शब्द-हीन दीप समारोहके साथ सूर्योस्तकी तैयारियां हो रही हैं। उस निस्तब्धताके बीचमें से बालक सहसा एक ओर उँगली दिखाकर बोल उठा—“चन्ना, फूः !”

पास ही सजल पङ्किल भूमिपर एक बृहत् कदम्बवृक्षकी ऊँची शाखापर कुछ फूल खिले हुए थे, उसी ओर बालककी लुब्ध हृषि आकृष्ट हुई थी। तीन-चार दिन हुए, रायचरणने सींकोंमें गूँथ-गूँथकर उसे एक कदम्बके फूलोंकी गाड़ी बना दी थी, उसमें रस्सी बाँधकर खीचनेमें उसे ऐसा आनन्द आया कि उस गोज़ रायचरणको मुँहमें लगाम नहीं देनी पड़ी ; घोड़ेसे वह एकाएक ही सर्झसके पदपर चढ़ा दिया गया।

कीच-कहड़में से जाकर चन्नाको फूल लानेकी इच्छा न हुई, उसने चटसे दूसरी ओर उँगली दिखाकर कहा—“देख, देख, बो—ओ देख, चिरंया,—देख तो, उड़ गई—आहा ! अझे गे चिरंया, लल्लूको लड्डू दे जइये”—इस प्रकार लगातार विचित्र बातें करना हुआ वह जोरोंसे गाड़ी चलाने लगा।

पर जो लड़का बड़ा होकर जज होगा, उसे इस तरह फुसलानेकी आशा करना व्यर्थ है—खासकर उस वक्त, जब कि चारों तरफ दृष्टि आकर्षण करनेवाली कोई चीज़ ही न हो। काल्पनिक चिरंयाका वहाना ज्यादा देर तक नहीं ठहर सका।

रायचरणने कहा—“तो तुम गाड़ीमें बैठे रहना, भला, मैं चटसे फूल लिये आता हूँ। खवरदार, पानीके किनारे न जाना!” यह कहता हुआ वह धोती ऊपर चढ़ाकर कदम्बवृक्षकी ओर चल दिया।

परन्तु वह जो पानीके किनारे जानेको मना कर गया, उससे बच्चेका मन कदम्बके फूलसे हटकर उसी क्षण पानीकी तरफ दौड़ गया। देखा, पानी कल्-कल् छल्-छल् करके दौड़ा जा रहा है; मानो बदमाशी करके किसी एक बृहत् गयचरणके हाथसे निकलकर एक लाख शिशु-प्रवाह हँसता हुआ कल्-कल् स्वरके साथ मना किये हुए स्थानकी तरफ तेज़ीसे भागा जा रहा हो।

उसके इस बुरे दृष्टान्तसे मानव-शिशुका चित्त चञ्चल हो उठा। गाड़ीसे धीरे-धीरे उतरकर वह पानीके पास पहुँचा। एक लम्बे तिनकेको उठाकर उसे मछली पकड़नेकी ‘बंसी’ बना पानीमें झुककर उससे मछली पकड़ने लगा। चंचल जलराशि अस्फुट कलकल-भाषामें बार-बार शिशुको अपने खेलमें शामिल होनेके लिये आह्वान करने लगी।

सहसा पानीमें किसी चीज़के गिरनेका शब्द हुआ, परन्तु बरसातमें पद्माके किनारे ऐसे कितने ही शब्द हुआ करते हैं। रायचरणने झोली भरकर कदम्ब-फूल तोड़े। पेड़से उतरकर

मुसकाता हुआ गाड़ीके पास पहुंचा, देखा तो वहाँ कोई नहीं ! चारों तरफ अच्छी तरह निगाह दौड़ाकर देखा, कहीं किसीका कोई चिह्न तक न दिखाई दिया ।

क्षण-भग्नमें गयचरणका स्वून बर्फ बन गया । सारे दुनियाँ उसे मलिन उदास धुआँधार दीखने लगी । वह अपने टूटे हुए हृदयमेंसे चीत्कार कर उठा—“लल्लू—लल्लू !”

परन्तु ‘चन्ना’ कहकर किसीने उत्तर नहीं दिया, शगरत करके किसी बच्चेका कण्ठ हँस न उठा ; सिर्फ पद्मा ही पहलेकी तरह कल-कल छल-छल करके दौड़ती रही, मानो वह कुछ जानती ही नहीं—मानो उसे दुनियाँकी इन ज़रा-ज़रासी बातोंपर ध्यान देनेका अवकाश ही नहीं !

सन्ध्या होनेपर उक्कण्ठित माताने चारों तरफ आदमी भेजे । लालटेन हाथमें लिये लोग नदीके किनारे पहुंचे, वहाँ देखा तो गयचरण आँधीकी हवाकी तरह खेतोंमें चारों तरफ “लल्लू—लल्लू” चिलाता हुआ भटक रहा है,—उसका गला बँठ गया था । अन्तमें घर लौटकर गयचरण धड़ामसे माँजीके परेंपर गिर पड़ा । उससे बहुत पूछा गया, वह रो-रोकर यही कहता रहा—“नहीं जानता, माँ !”

यद्यपि सब समझ गये कि यह पद्माका ही काम है, फिर भी गाँवके बाहर जो बंजारे ठहरे हुए हैं, उनपर सन्देह रह ही गया । माताके मनमें तो यह सन्देह पैदा हुआ कि कहीं गयचरणने ही न चुरा लिया हो, और तो क्या, उसे बुलाकर कहने लगी—“तू मेरे लल्लूको लौटा दे—तू जितने रूपये माँगेगा, मैं दूँगी ।”

सुनकर रायचरणने सिर्फ माथेपर हाथ दे मारा। मालिकिनने उसे निकाल बाहर किया।

अनुकूल बाबूने अपनी स्त्रीके मनसे रायचरणपर इस बेजा सन्देहको दूर करनेकी कोशिश की; उन्होंने पूछा—“रायचरण ऐसा जघन्य काम किस लिये करता ?” गृहिणीने उत्तर दिया—“क्यों ? क्या हुआ ? वह सोनेके गहने पहने था।”

### दूसरा परिच्छेद

**रा**यचरण देश चला गया। अब तक उसके कोई बाल-बच्चा नहीं हुआ था, होनेकी ऐसी कोई उम्मीद भी न थी। परन्तु दैववश, वरस बीतते-न-बीतते उसकी स्त्रीने ज्यादा उमरमें एक पुत्र जनकर संसारसे ही कूच कर दिया। इस नवजात बालकपर रायचरणको बड़ा क्रोध आया—बैरी-सा दीखने लगा। उसने सोचा—यह छल करके लल्लूके स्थानपर अधिकार करने आया है। सोचने लगा—मालिकके इकलौते बेटेको पानीमें बहाकर खुद पुत्र-सुखका उपभोग करना, मानो एक महापातक है। रायचरणकी विधवा वहन अगर न होती, तो यह बच्चा दुनियाँकी हवा अधिक दिन तक न ले सकता था।

आश्वर्यकी बात है कि इस लड़केने भी कुछ दिन बाद चौखट पार करना शुरू कर दिया, और सब तरहकी मनाहियोंको न माननेमें

चतुरता दिखाने लगा। और तो क्या, इसका कण्ठस्वर, हँसने और रोनेकी ध्वनि बहुत-कुछ उसी लल्लूसे मिलती-जुलती है। किसी-किसी दिन जब इसका रोना सुनता, तो रायचरणकी छाती सहसा धड़क उठती, मालूम होता कि वह उसका लल्लू ही कहीं भटक-भटककर रो रहा है।

फुलना—रायचरणकी बहनने इसका नाम रखा था फुलना—वुआको ‘उआ’ कहकर पुकारने लगा। उस परिचित सम्बोधनको सुनकर एक दिन सहसा रायचरणको ख़याल आया—तब तो लल्लू मेरे मोहको नहीं छोड़ सका है। वह तो मेरे ही घर आकर पैदा हुआ है।

इस विश्वासके अनुकूल कुछ अकाङ्क्य युक्तियाँ भी थीं। पहले तो, उसके जानेके बाद शीघ्र ही उसका जन्म होना। दूसरे, इतने वर्ष बाद सहसा उसकी स्त्रीके गर्भसे लड़का पैदा होना, यह कदापि स्त्रीके गुणसे नहीं हो सकता। तीसरे, यह भी घुटनोंके बल चलता है, डगमगाता हुआ धूमता है और वुआको ‘उआ’ कहता है! जिन लक्षणोंके होनेसे भविष्यमें जज होनेकी सम्भावना है, उनमेंसे अधिकांश इसमें मौजूद हैं।

तब माँजीके उस हृदय-विदारक सन्देहकी बात उसे सहसा याद आ गई—आश्र्वयमें आकर मन-ही-मन कहने लगा—“हां-हां, माँके मनने ठीक जान लिया था, किसने उसके बच्चेको चुरा लिया है!”—फिर, इतने दिनों तक जो उसने बच्चेकी लापरवाही गर्वी, उसके लिये उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। बच्चेको वह ख़ूब चाहने लगा।

अबसे फुलनाको वह इस तरह पालने लगा, जैसे वह किसी बड़े घरानेका बच्चा हो । साटनका कोट खरीद दिया । जरीदार टोपी ले आया । मृत खीके गहने गलवाकर कड़े और लच्छे बनवा दिये । मुहल्लेके किसी भी लड़केके साथ उसे खेलने नहीं देता — रात-दिन खुद ही उसका साथी बनकर खेलता रहता है । मुहल्लेके लड़के उसे मौका पाते ही ‘नवाबका नाती’ कहकर चिढ़ाने लगते हैं । गांवके लोग गयचरणके ऐसे उन्मत्तवत् आचरणपर आश्र्य करने लगे ।

फुलना जब पढ़ने लायक हुआ, तब गयचरण अपनी ज़मीन बगैरह सब बेच-खोचकर लड़केको कलकत्ते ले गया । वहां बड़ी मुश्किलसे एक नौकरी तलाश करके फुलनाको विद्यालयमें भरती कर दिया । खुद जैसे-तैसे गुजर कर लेता, पर लड़केको अच्छा खाना, बढ़िया पोशाक और अच्छी शिक्षा देनेमें कोई कसर न रखता । मन-ही-मन कहता —“लल्लूजी, तुम मोहवश मेरे घर आये हो, इसलिये तुम्हारा निरादर मुझसे न होगा ।”

इसी तरह बारह वर्ष बीत गये । लड़का पढ़ने-लिखनेमें तेज़ है और देखनेमें भी अच्छा, मोटा-ताजा, साँबले रंगका है—केश-वेशकी सजावटकी तरफ़ ध्यान है, मिजाज़ कुछ आगामतलब और शौकीन है । बापको ठीक बाप जैसा नहीं समझता । कारण, रायचरण स्नेह करनेमें बाप और सेवा करनेमें नौकर था । और उसमें एक त्रुटि भी थी, वह फुलनाका बाप है—यह बात उसने सबसे छिपा रखी थी । जिस छात्रावासमें फुलना रहता था, वहांके और सब लड़के गँवार गयचरणकी हँसी उड़ाया करते, और सम्भवतः पिताकी अनुपस्थितिमें फुलना भी

उसमें शामिल हो जाया करता था। फिर भी, वत्सल-स्वभाव भोलाभाले गयचरणको सभी लड़के बहुत प्यार करते थे, और फुलना भी प्यार करता था, परन्तु पहले ही कहा जा चुका है कि वापके समान नहीं, उसमें थोड़ासा अनुग्रह मिला हुआ था।

गयचरण अब बृद्ध हो चला है। उसके मालिक हर वक्त् काम-काजमें दोष पकड़ते रहते हैं। वास्तवमें उसका शरीर भी शिथिल हो चला है, काममें भी उतना ध्यान नहीं रहता, बेर-बेर भूल जाता है,—पर जो पूरी तनरखाह देता है, वह बुढ़ापेका उज्ज नहीं सुन सकता। इधरु वह जो खेत-जोत बैचकर रूपये लाया था, वे भी खत्म हो चले। फुलना भी आजकल अपनेको कपड़े-लत्तोंसे तंग अनुभव करने लगा है।

### तीसरा परिच्छेद

**ए**क दिन गयचरणने सहसा कामसे छुट्टी ले ली, और फुलनाको कुछ रूपये देकर बोला—“ज़रूरी काम है, मैं कुछ दिनके लिये देश जा रहा हूँ।” बस, इतना कहकर वह बारासत पहुंचा। अनुकूल बाबू उस समय बारासतमें मुनिसिफ थे।

अनुकूलके और कोई बाल-बच्चा नहीं हुआ, गृहिणी अब भी उसी बच्चेके शोकमें आँसू बहाया करती हैं।

एक दिन सन्ध्याके समय बाबू साहब कचहरीसे लौटकर आगम

कर रहे थे, और गुहिणी किसी सायु-महात्मा से सन्तानकी कामनासे बड़ी क्रीमत देकर कोई जड़ी और आशीर्वाद खरीद रही थीं,— इतनेमें आँगनसे आवाज़ आई—“जय हो माँजीकी !”

बाबू साहब बोले—“कौन है ?”

रायचरणने आकर नमस्कार किया, बोला—“मैं हूं, रायचरण ।”

बूढ़ेको देखकर अनुकूलका हृदय पसीज गया। उसकी मौजूदा हालतके बारेमें हजारों प्रश्न किये, और फिरसे उसे कामपर बहाल करनेको कहा।

रायचरणने सूखी हँसी हँसकर कहा—“माँजीको गालागन करना चाहता हूं ।”

अनुकूल बाबू उसे अपने साथ भीतर ले गये। माँजीने रायचरणका प्रसन्नतासे आदर नहीं किया—रायचरणने उस ओर कुछ ध्यान न देते हुए हाथ जोड़कर कहा—“माँजी मैंने ही आपका लड़का चुगया था। पद्माने नहीं, और किसीने भी नहीं, उसका चुरानेवाला कृतन्त्र अधम मैं ही—”

अनुकूल कह उठे—“क्या कह रहा है तू ! कहां है वह !”

“जी, मेरे ही पास है, मैं परसों ला दूँगा ।”

x

x

x

x

उस दिन रविवार था, कचहरीकी छुट्टी थी। सवेरेसे खी-पुरुष दोनों-जने बड़ी उत्सुकतासे रायचरणके आनेकी राह देख रहे हैं। दस बजे फुलनाको साथ लेकर रायचरण हाजिर हुआ।

अनुकूलकी रूपीने कुछ भी पूछताछ—कुछ भी विचार न किया ; उसे वे गोदमें बिठाकर, छातीसे चिपटाकर, चूमकर अतृप्त नयनोंसे उसका मुखड़ा देखकर, गोती-हँसती हुई व्याकुल हो उठीं। दर-असल लड़का देखनेमें बहुत अच्छा था, पहनावमें गहन-सहनमें गरीबीका कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता। मुँहपर अत्यन्त प्रियदर्शन विनीत सलज्ज भाव देखकर अनुकूलके हृदयमें भी सहसा स्नेह उमड़ आया।

फिर भी उन्होंने हृष्टाके साथ पूछा—“कोई सबूत है ?”

रायचरणने कहा—“ऐसे कामका सबूत क्या हो सकता है ? मैंने जो आपका लड़का चुराया था, इस बातको सिर्फ भगवान ही जानते हैं, संसारमें और कोई भी नहीं जानता।”

अनुकूलने सोच-समझकर निश्चय किया कि लड़केको पाते ही उनकी रूपीने जिस अध्रहके साथ उसे अपना लिया है, उसे देखते हुए अब सबूत चाहना युक्ति-युक्त नहीं है ; जैसे भी बने, विश्वास करना ही अच्छा है। उसके सिवा और भी एक बात है, रायचरणको ऐसा लड़का मिल भी कहांसे सकता है ? और बूढ़ा नौकर उन्हें बिना कारण ऐसा धोखा ही क्यों देगा ?—

लड़केसे भी बातचीत करनेपर मालूम हुआ कि वचपनसे ही वह रायचरणके साथ है और अब तक उसे ही वह पिता समझता था, परन्तु रायचरणने कभी भी उसके साथ पिताके समान व्यवहार नहीं किया, बल्कि नौकर जैसा ही बरताव करता रहा है।

अनुकूलने मनसे सन्देहको दूर कर कहा—“लेकिन रायचरण, तू अब हम लोगोंकी परछाई भी न छू सकेगा।”

रायचरणने हाथ जोड़कर कहा—“मालिक साहब, इस बुढ़ापें में कहाँ जाऊँगा !”

मालिकिनने कहा—“नहीं नहीं, रहने दो ! लल्लू मेरा खुश बना रहे ! उसे मैं माफ़ करती हूँ ।”

न्यायपरगयण अनुकूलने कहा—“जैसा उसने काम किया है, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता ।”

रायचरणने अनुकूलके पैर पकड़कर कहा—“मैंने नहीं किया, भगवानने किया है ।”

अपना पाप ईश्वरके सिर मढ़नेकी कोशिश करते देख अनुकूल और भी नाशक हो गये, बोले—“जिसने ऐसा विश्वासघातका काम किया है, उसपर अब फिर विश्वास करना ठीक नहीं ।”

रायचरणने मालिकके पैर छोड़कर कहा—“ऐसा मैं नहीं हूँ मालिक !”

“तो कौन है ?”

“मेरी तक़दीर !”

परन्तु ऐसी कैफियतसे किसी शिक्षित आदमीको सन्तोष नहीं हो सकता ।

रायचरणने कहा—“संसारमें मेरा और कोई भी नहीं है ।”

फुलनाने जब देखा कि वह मुन्सिफका लड़का है—रायचरणने अब तक उसे चुरा रखा था और अपना लड़का बताकर उसका अपमान करता रहा है, तब उसे मन-ही-मन कुछ गुस्सा आया । परन्तु फिर भी उसने उदारताके साथ पितामे कहा—“पिताजी, उसे माफ़ कर दो । घरमें नहीं रखना चाहते, तो उसके लिये कुछ माहवारी बाँय दो ।”

इसके बाद रायचरणने मुँहसे कुछ भी न कहकर एक बार अच्छी तरह पुत्रका मुँह देखा, सबको प्रणाम किया, उसके बाद दरवाजेसे बाहर निकलकर संसारके असंख्य आदमियोंमें मिल गया। महीनेके अन्तमें अनुकूलने जब उसके देशके पतेसे कुछ रूपये भेजे, तो वे रूपये वापस आ गये। वहाँ कोई न था !

[ अगहन, १६८८ ]

---

## सम्पत्ति-समर्पण

पहला परिच्छेद

बृन्दावन कुण्ड बहुत गुस्सेमें आकर बापसे बोला—“लो, मैं अभी चला ।”

बाप, यज्ञनाथ कुण्डने कहा—“नालायक, कृतव्रत कहींका, छुटपनसे अब तक जो तुझे खिला-पिलाकर इतना बड़ा किया है, उस कर्ज़को तो पहले चुका दे, तब तेज़ी दिखाना ।”

यज्ञनाथके घर जैसा खाने-पहरनेका चलन था, उसे देखते हुए तो यह नहीं मालूम होता कि अधिक खर्च हुआ होगा । प्राचीन कालमें मुनि-ऋषिगण आहार-वस्त्र-सम्बन्धी खर्चमें हदसे ज्यादा किफायत करके जिन्दगी बसर करते थे; यज्ञनाथके रहन-सहनमें भी वही उच्चादर्श भलकता था । परन्तु सम्पूर्ण सिद्धि लाभ न कर सके थे,— कुछ तो आयुनिक समाजके दोषसे और कुछ शरीर-रक्षा-सम्बन्धी प्रकृतिके अन्यायपूर्ण अनिवार्य नियमोंके अनुरोधसे ।

लड़का जब तक अविवाहित रहा, तब तक तो सहता रहा ; पर विवाह होनेके बादसे ही खाने-पहरनेके बारेमें पिताके अन्यन्त विशुद्ध आदर्शके साथ पुत्रके आदर्शका मेल न बैठा। यह बात देखनेमें आई कि लड़केका आदर्श क्रमशः आध्यात्मिकतासे हटकर भौतिकताकी ओर बढ़ता जा रहा है। सरदी-गरमी और भूख-प्याससे सताये हुए पार्थिव समाजकी देखादेखी उसके कपड़ोंका नाप और भोजनकी तौल उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगी।

\* इस बारेमें पिता-पुत्रमें अक्सर झगड़ा होने लगा। अन्तमें, बृन्दावनकी स्त्रीकी कठिन वीमारीमें बैद्यग्राजने एक कीमती दवा बताई। बस, इसीपर से यज्ञनाथने उन्हें अनभिज्ञ करार देकर उसी समय विदा कर दिया। बृन्दावनने पहले तो हाथ-पैर जोड़े-जाड़े, फिर तनातनी भी की, पर कुछ नतीजी न निकला। स्त्रीकी मृत्यु हो जानेपर वापको उसने स्त्री-हत्याकारी कहकर गाली दी।

वापने कहा—“क्या दवाई खाकर कोई मरता नहीं ? कीमती दवा खाकर ही अगर सब बच जायें, तो फिर गजा बादशाह बर्गेंह क्यों मरते हैं ! जैसे तेरी माँ मरी है, तेरे दादी मरी है, तेरे स्त्री क्या उनसे ज्यादा धूमधामके साथ मरती ?”

वास्तवमें यदि बृन्दावन शोकमें अन्धा न होकर स्थिरचित्तसे विचार कर देखता, तो इस बातसे उसे बहुत कुछ तसल्ली मिलती। उसकी माँ, दादी, किसीने भी मरते बक्क दवा नहीं खाई। इस घरकी ऐसी ही सनातन प्रथा है, परन्तु आधुनिक लोग प्राचीन नियमसे मरना भी नहीं चाहते। जिस समयकी यह बात है, तब अंग्रेजोंका

यहां आना शुरू ही हुआ था । परन्तु उस समय, तबके पुराने ज़मानेके आदमी तबके नये ज़मानेके आदमियोंका हाल-चाल देखकर दंग रह जाते और ज्यादा तम्बाकू पिया करते थे ।

कुछ भी हो, तबके नई गोशनीके वृन्दावनने तबके पुरानी रोशनीके यज्ञनाथसे भगड़ा कर डाला, और कहा—“लो, मैं चला ।”

बापने उसे उसी दम चले जानेकी इजाजत देकर सबके सामने कहा—“वृन्दावनको अगर मैं अब एक पाई भी दूँ, तो वह गो-रक्त गिरानेके बगाबर होगा ।” वृन्दावनने भी सबके सामने कह दिया—“मैं भी अगर तुम्हारी एक दमड़ी भी हुँऊँ, तो मुझे माताकी हत्याका पाप लगे ।” इसके बाद पिता-पुत्रका विच्छेद हो गया ।

बहुत दिनोंकी शान्तिके बाद ऐसे एक छोटे-मोटे विष्वासे गाँवके लोग ज़ग खूब प्रसन्न हो उठे । खासकर यज्ञनाथके लड़केके उत्तर-धिकारसे वंचित होनेके बाद सभी कोई अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञनाथके दुःसह पुत्र-वियोगके दुःखको दूर करनेकी कोशिश करने लगे । सभी कोई कहने लगे—“मामूली-सी एक बहूके लिये वापके साथ लड़ना-भगड़ना सिर्फ इसी ज़मानेमें सम्भव है ।”

उन लोगोंने एक विशेष युक्ति दिखाई ; कहने लगे—“एक बहूके जानेपर दूसरी बहू तो भट मिल सकती है, पर वाप तो दूसरा सिर दे मारनेपर भी नहीं मिल सकता ।” दलील बहुत ही मज़बूत है, इसमें सन्देह नहीं; पर हमारा विश्वास तो ऐसा है कि वृन्दावन जैसा लड़का इस युक्तिको सुनकर अनुताप न करता, बल्कि कुछ खुश ही होता । वृन्दावनके जाते वक्त पिताको अधिक क्षोभ हुआ हो, सो भी

नहीं। उसके चले जानेसे एक तो खर्च घटा, दूसरे एक बड़ा-भारी डर भी जाता रहा। हर वक्त् यह चिन्ता रहती थी कि न जाने कब किस घड़ी वह जहर देकर उन्हें मार डाले! एक तो वैसे ही थोड़ा खाते थे, उसके साथ जहरकी चिन्ता! बहुकी मौतके बाद यह चिन्ता कुछ घटी थी, और अब लड़केके चले जानेपर तो बिलकुल ही जाती रही।

सिर्फ एक वेदना उनके मनमें खटक रही थी। यज्ञनाथका चार वर्षका एक नाती है गोकुलचन्द्र, उसे भी वृन्दावन साथ लेता गया है। गाँकुलके खाने-पहरनेका खर्च औरोंकी अपेक्षा कुछ कम था, इसलिये उसपर यज्ञनाथका स्नेह बहुत कुछ निष्कण्टक था। फिर भी, वृन्दावन जब उसे लेकर चला गया, तो उस अकृत्रिम शोकमें भी यज्ञनाथके मनमें क्षण-भरके लिये एक जमा-खर्चके हिसावका उदय हो उठा; दोनोंके चले जानेसे महीनेमें किसना खर्च घटा और वर्षमें कितनी बचत हुई— और वह कितने रुपयोंकी व्याज हुई।

परन्तु फिर भी, सूने घरमें गोकुलचन्द्रका ऊधम न होनेसे, घरमें टिकना मुश्किल हो गया। आजकल यज्ञनाथको ऐसी मुश्किलका सामना करना पड़ रहा है कि पूजाके वक्त् कोई विनानहीं ढालता, खाते समय कोई छीनकर नहीं खाता, हिसाव लिखते वक्त् दवात लेकर भाग जाय, ऐसा भी कोई नहीं रहा। बिना उपद्रवके शान्तिसे स्नानाहार सम्पन्न करते हुए उनका चित्त व्याकुल होने लगा।

मालूम हुआ, मानो मरनेके बाद ही लोग ऐसी उत्पात-हीन शून्यता प्राप्त करते हैं; खासकर बिछौनेपर उनके नातीके किये हुए छेद और बंठनेकी चटाईएर उक्त चित्रकार-द्वारा अंकित स्थाहीके चिह्नको देख-देखकर

उनका हृदय और भी अशान्त हो उठता। उस अमिताचारी बालकने—दो ही घरसकी उमरमें बाबाकी पहननेकी धोती विलकुल फाड़-चीर डालनेके कारण—बाबाका बहुत-कुछ तिग्नकार सहा था; अब उन्होंने जब अपने शयनगृहमें उस शत-प्रन्थि-विशिष्ट मलिन परियक्त चीरखण्डको देखा, तो उनकी आँखें डबडबा आईं; उसे दिआकी बत्ती अथवा पलीता बनाने या अन्य किसी घर-गिरस्तीके काममें न लगाकर जतनसे सन्दूकमें रख दिया और मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि ‘यदि गोकुल वापस आ जावे और यहाँ तक कि अगर मालमें एक धोती भी फाड़-चीर डाले, तो भी उसे ढाँटिंगे-ड्यटिंगे नहीं।’

परन्तु गोकुल न लौटा, और यज्ञनाथकी उमर मानो पहलेसे और भी जलदी-जलदी बढ़ने लगी, सूना घर दिनों-दिन औरभी सूना मालूम देने लगा।

यज्ञनाथसे अब घरमें टिका नहीं जाता। दोपहरको जब सब रईस लोग खा-पीकर सुखनिद्रा लेते हैं, तब यज्ञनाथ हुक्का हाथमें लिये मुहल्ले-मुहल्ले धूमा करते हैं। उनके इस नीरव मध्याह-भ्रमणके समय गस्तेके लड़के खेल छोड़कर निरापद स्थानको भाग जाते और उनकी मितव्ययिताके सम्बन्धमें स्थानीय कवि-रचित विविध-छन्दोवद्व रचनाएँ श्रुतिगम्य-कृचे स्वरमें गाया करते। कहीं दिन-भर फाँके ही न गुजारना पढ़े, इस डरसे लोग उनका पितृदत्त नाम तक उच्चारण न करते थे, इसीलिये सब अपनी इच्छानुसार उनका नया नाम रख लिया करते थे। बूढ़े उन्हें ‘यज्ञनाश’ कहा करते थे; पर छोड़कड़े न जाने क्यों उन्हें ‘चमगादड़’ कहकर पुकारा करते थे, इसका कुछ स्पष्ट कारण नहीं मालूम पड़ता।

## दूसरा परिच्छेद

एक दिन दोपहरको इसी तरह आष्ट्रतस्की छायासे शीतल ग्राम्य पथमें यज्ञनाथ धूम रहे थे,—देखा, एक अपरिचित बालक गाँवके लड़कोंका सरदार बनकर एक विलकुल नये उपद्रवका पन्थ दिखला रहा है। और-और लड़के उसके इस चरित्र-बल और कल्पनाकी नवीनतापर मुग्ध होकर तन-मनसे उसके वशमें हो गये हैं।

\* और-सब लड़के जैसे बुड्ढेको देखकर खेल छोड़कर भाग जाया करते थे, इसने ० वैसा न करके झटसे बुड्ढेके पास जाकर उनके ऊपर अपनी चहर भाड़ दी, चदरेमें से एक बन्धन-मुक्त गिरगिट निकलकर बुड्ढेके ऊपर गिरा और तुरत पेड़ोंकी तरफ भाग गया। आकस्मिक त्राससे बुड्ढेके रोगटे खड़े हो गये। लड़कोंमें एक बड़ा-भारी खुशीका शोर मच गया। और कुछ दूर आगे जाते-न-जाते यज्ञनाथके कंधे पर से अंगोछा ही गायब हो गया, देखा तो उस अपरिचित बालकके सिरपर वह पगड़ीका काम दे रहा है।

इस अज्ञात मानव-पुत्रके द्वारा इस प्रकार नये ढंगका शिष्ठाचार प्राप्त करके यज्ञनाथ बहुत ही सन्तुष्ट हुए। किसी भी बालकसे ऐसी असंकोच आत्मीयता उन्होंने बहुत दिनोंसे न पाई थी। बहुत बार बुला-बुलूकर और तरह-तरहके प्रलोभन देकर यज्ञनाथने उसे कुछ-कुछ वशमें कर लिया।

पूछा—“तेरा नाम क्या है ?”

इसने कहा—“निताई पाल।”

“कहाँ रहता है ?”

“नहीं बताऊँगा ।”

“तेरे बापका नाम क्या है ?”

“नहीं बताऊँगा ।”

“क्यों नहीं बतायेगा ?”

“मैं घर छोड़कर भाग आया हूँ ।”

“क्यों ?”

“मेरा बाप मुझे पाठशालामें भरती करना चाहता था ।”

यज्ञनाथने उसी समय समझ लिया कि ऐसे लड़केको पाठशालामें भरती करना बिलकुल फिजूलका खर्च बढ़ाना है, और बापकी बुद्धि-हीनताका परिचायक है ।

यज्ञनाथने कहा—“हमारे घर चलकर रहेगा ?”

बालकने ज़रा भी आपत्ति न की और उसके घर जाकर ऐसी निःसंकोचताके साथ आश्रय लिया कि मानो वह कोई सड़कके किनारेकी वृक्षकी छाया हो ।

सिर्फ़ इतना ही नहीं, खाने-पहननेके सम्बन्धमें ऐसी दृढ़तासे अपनी इच्छानुसार हुक्म चलाने लगा कि मानो उसने पहले ही उसके पूरे दाम चुका दिये हों । और इसी विषयको लेकर कभी-कभी घर-मालिकसे उसकी तकरार भी हो जाया करती । अपने लड़केको परास्त करना सहज है, पर दूसरेके लड़केके आगे यज्ञनाथको हार माननी पड़ी ।

## तीसरा परिच्छेद

**य**ज्ञनाथके घर निराई पालका ऐसा कल्पनातीत आदर देखकर गाँवके लोग तअज्जुब करने लगे। समझने लगे कि बुड्ढा अब ज्यादा जीयेगा नहीं और मगते वक्त् इस परदेशी छोकड़ेको सब धन-दौलत दे जायगा।

बालकपर सभी कोई ईर्ष्या करने लगे और उसका अनिष्ट करनेको तँयार हो गये। परन्तु बृद्ध यज्ञनाथ उसे छातीकी पसलियोंकी तरह दुबकाये फिरता।

लड़का कभी-कभी चले जानेकी धमकी दिया करता। यज्ञनाथ उसे प्रलोभन देते, “ना बेटा, तुम्हे मैं अपनी तमाम दौलत दे जाऊँगा।” लड़केकी उमर तो थोड़ी थी, पर इस बातका अर्थ और मूल्य वह पूरी तरहसे समझ सकता था।

तब गाँवके लोग उस लड़केके बापकी तलाश करने लगे। वे सभी कोई कहने लगे—“हाय, बाप-माँको न जाने कितना कष्ट होगा! लड़का भी तो कम शैतान नहीं है।” यह कहकर लड़केको अकथ्य भापामें गालियाँ देते। उसकी इतनी ज्यादा चरपगाहट होती कि उसमें न्याय-बुद्धिकी उत्तेजनाकी अपेक्षा स्वार्थकी जलन ही अधिक पाई जाती।

बुड्डेने एक दिन एक राहगीरसे सुना कि दामोदर पाल नामका एक आदमी अपने लापता लड़केकी खोज करता फिरता है, और वह हृदयर ही को आ रहा है।



निताई इस समाचारके मुनते ही घब्रा उठा । भावी जायदादको छोड़-छाड़कर वह भागनेको तैयार हो गया ।

यज्ञनाथ निताईको बार-बार समझाने लगे—“तुझे मैं ऐसी जगह छिपा रखूँगा कि कोई ढूँढ़ ही नहीं पायेगा—गाँवके लोग भी नहीं ।”

बालक बड़े कोतूहलमें पड़ गया, बोला—“कहां? दिखा दो ज़रा !”

यज्ञनाथने कहा—“अभी दिखानेसे सब भेद खुल जायगा । रातको दिखाऊँगा ।”

निताई इस नये रहस्यके आविष्कारकी आशासे फूला न समाया । उसने मन-ही-मन संकल्प किया कि वाप जब अपना-सा मुँह लिये लौट जायगा, तब लड़कोंसे शर्त बदकर वहां दुबका-चोरी खेलेंगे । कोई ढूँढ़ न पायेगा ! बड़ा मज़ा आयेगा ! धाप आकर तमाम गाँव छान डालेगा, फिर भी उसे न पायेगा, यह भी बड़े मज़ेकी बात होगी ।

दोपहरको यज्ञनाथ बालकको घरमें बन्द करके कहीं बाहर चले गये । वापस आनेपर निताईने उनसे प्रश्न करते-करते नाको-दम कर दिया ।

शाम होते-न-होते बोला—“चलो ।”

यज्ञनाथने कहा—“अभी रात नहीं हुई है ।”

निताईने फिर कहा—“रात हो गई है, बाबा, चलो ।”

यज्ञनाथने कहा—“अभी मुहल्लेके लोग सोये नहीं हैं ।”

निताईने क्षण-भर ठहरकर फिर कहा—“अब सो गये, चलो ।”

रात बढ़ने लगी । निद्रातुर निताई बड़ी मुश्किलसे नींदको {

रोकनेकी कोशिश करता रहा, पर फिर भी वह बैठा-बैठा औंचने लगा। आधी रातको यज्ञनाथ निराईका हाथ पकड़कर निरित ग्रामके अन्यकागमय मार्गसे बाहर निकले। किसी तरहका शोर नहीं था, सुन-सान रात थी, सिर्फ वीच-वीचमें कुत्तोंका भौंकना सुन पड़ता था। कभी-कभी निशाचर पक्षी पैरोंकी आहट सुनकर जंगलकी ओर उड़ जाते थे। निराईने डरके मारे यज्ञनाथका हाथ जोरोंसे पकड़ लिया।

लम्बी रात्ता तय करके अन्तमें दोनों एक जंगलके अन्दर एक देवता-हीन टूटे-फूटे मन्दिरमें जा पहुंचे। निराईने कुछ उदास होकर कहा—“यहांपर ?”

उसने जो सोचा था, वह तो नहीं हुआ! इसमें तो कोई विशेष रहस्य नहीं मालूम पड़ता। घर छोड़नेके बाद ऐसे पुराने खंडहर मन्दिरमें उसे कितनी ही रातें बितानी पड़ी हैं। जगह तो दुबका-चोरी खेलनेके लिए दुरी नहीं है, पर यहांसे ढूढ़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं।

यज्ञनाथने मन्दिरके वीचमेंसे एक पत्थर उठाया। बालकने देखा, नीचे एक कोठा-सा बना है, और वहां दीपक जल रहा है। देखकर उसे बहुत ही आश्र्य और कौतूहल हुआ, साथ ही डर भी लगने लगा। एक नसनीके सहारे यज्ञनाथ नीचे उतर गये, उनके पीछे-पीछे निराई भी डरते-डरते उतरा।

नीचे जाकर देखा, चारों तरफ पीतलके कलसे गंवे हैं। वीचमें एक आसन है और उसके सामने सिल्डर, चन्दन, फूलोंकी माला

आदि पूजाकी सामग्रियाँ रखी हैं। बालकने कौतूहल दूर करनेके लिये आगे बढ़कर देखा, कलसोंमें सिर्फ रूपये और मोहरें भरी हुई हैं।

यज्ञनाथने कहा—“निताई, मैंने कहा था, मैं अपनी दौलत तुम्हें दे जाऊँगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ही थोड़ेसे घड़े ही मेरी पूँजी है। आज ये सब मैं तुम्हें सौंप दूँगा।”

बालक उछल पड़ा, बोला—“ये सब ? इसमें से एक भी रुपया तुम न लोगे ?”

“अगर लँ, तो मेरे हाथोंमें कोढ़ हो जाय। पर एक बात है। अगर मेरा लापता नाती गोकुलचन्द्र, या उसका लड़का, या पोता, या उसके वंशका कोई भी आवे, तो उसे ये सब रुपये गिन देने पड़ेंगे।”

बालकने सोचा, बुझदा पागल हो गया है। उसी समय उसने स्वीकार कर लिया—“अच्छा।”

यज्ञनाथने कहा—“तो इस आसनपर बैठ जाओ।”

“क्यों ?”

“तुम्हारी पूजा होगी।”

“क्यों ?”

“ऐसा नियम है।”

बालक आसनपर बैठ गया। यज्ञनाथने उसके माथेपर चन्दन लगाया, सिन्दूरका टीका किया, गलेमें माला पहना दी; सामने बैठकर बड़-बड़ करके मन्त्र पढ़ने लगे।

देवता बनकर आसनपर बैठकर मन्त्र सुननेमें निताईको डर लगने लगा; चिल्हा उठा—“वाबा !”

यज्ञनाथ कुछ उत्तर न देकर मन्त्र पढ़ते गये ।

अन्तमें, बड़ी मुश्किलसे एक-एक कल्सेको घसीट-घसीटकर बालकके सामने रखते और उत्सर्ग करते गये, प्रत्येक बार कहलाते गये—“युधिष्ठिर कुण्डूके पुत्र गदाधर कुण्डू, तस्य पुत्र प्राणकृष्ण कुण्डू, तस्य पुत्र परमानन्द कुण्डू, तस्य पुत्र यज्ञनाथ कुण्डू, तस्य पुत्र वृन्दावन कुण्डू, तस्य पुत्र गोकुलचन्द्र कुण्डूको अथवा उसके पुत्र वा प्रपौत्रको अथवा उसके वंशके न्याय्य उत्तराधिकारीको ये सारे रूपये गिन दूँगा ।”

इस तरह बाई-बार एक ही बात दुहराते-दुहराते लड़का हत्युद्धि-सा हो गया । उसकी जीभ उत्तरोत्तर लड़खड़ाने लगी । जब तक यह अनुष्ठान समाप्त हुआ, तब तक दीपकके धुआँ और दोनोंकी निःश्वास-वायुसे वह छौटासा गहर भापसे भर गया । बालकका तालू सूख गया, हाथ-पैर जलने लगे, दम घुटनेकी नौबत आ गई ।

दिआकी लौधीमी पड़ गई और वह सहसा बुझ गया । अन्धकारमें बालकने अनुभव किया—यज्ञनाथ नसंनीके सहारे ऊपर चढ़ रहा है ।

व्याकुल होकर पूछ उठा—“बाबा, कहां जाते हो ?”

यज्ञनाथने कहा—“मैं चला । तू यहाँ रह—तुम्हे अब कोई भी न ढूँढ़ सकेगा । पर याद रखना, यज्ञनाथका पौत्र, वृन्दावनका पुत्र गोकुलचन्द्र ।”

कहकर बुड़ा ऊपर चढ़ आया और भट्टसे नसैनी खींच ली । लड़केका दम घुटने लगा, उसने बड़े कष्टसे इतना कहा—“बाबा, मैं तापूके पास जाऊँगा ।”

यज्ञनाथने उस छेदपर पत्थर ढक दिया, और उसपर कान लगाकर सुना, निताईने और एक बार रुद्र कण्ठसे कहा—“बापू !”

उसके बाद किसी चीज़के गिरनेका धमाका हुआ, फिर कोई शब्द नहीं हुआ। इस प्रकार यक्षके हाथमें धन सौंपकर यज्ञनाथ उस पत्थरके टुकड़ेको मट्टीसे ढकने लगे। उसके ऊपर भग्न मन्दिरकी ईटोंका हंर लगा दिया। उसपर वास जमाई और जंगलके छोटे-छोटे पौधे लगा दिये। रात करीब-करीब खत्म हो चुकी थी, पर उनसे वह जगह छोड़ी न रही। रह-रहकर बार-बार जमीनसे कान लगाकर सुनने लगे। मालूम होने लगा, मानो वहुत दूरसे, पृथ्वीके अतलस्पर्शसे एक क्रन्दनध्वनि उठ रही है। मालूम हुआ, मानो रात्रिका आकाश सिर्फ उसी एक ही ध्वनिसे भरा जा रहा है, पृथ्वीके समस्त निश्चित प्राणी मानो उस शब्दसे शश्यापर जागकर बंठ गये हैं और काम लगाकर सुन रहे हैं।

बुड़ा धबगा-धबराकर बार-बार मिट्टीपर मिट्टी जमा कर रहा था। मानो ऐसे ही वह किसी तरह पृथ्वीका मुँह बन्द कर देगा।

वह कौन बुला रहा है—“बापू !”

बुड़ा मिट्टीपर लात जमाकर कहने लगा—“चुप हो जा। सब सुन लेंगे !”

फिर किसीने पुकारा—“बापू !”

देखा, घाम चढ़ आई है। डरता हुआ मन्दिरसे निकलकर खेतोंमें पहुंचा।

वहांपर भी किसीने पुकारा—“बापू !” यज्ञनाथने चौंककर पीछेकी तरफ देखा तो वृन्दावन !

वृन्दावनने कहा—“वापू, मैंने सुना है कि मेरा लड़का तुम्हारे यहाँ आ छिपा है, दो उसे !”

बुद्धेने आँखें मुँह विकृत करके वृन्दावनके ऊपर छुककर कहा—“तेरा लड़का ?”

वृन्दावनने कहा—“हाँ, गोकुल,—अब उसका नाम निताई पाल है, मेरा नाम दामोदर। आस-पास सब जगह तुम्हारी नामवरी है, इसलिये हम लोगोंने शर्मके मारे नाम वदल दिया है, नहीं तो कोई हम लोगोंका नाम नहीं लेता ।”

बुद्धा दसों उंगलियोंसे आकाश टटोलना हुआ मानो हवाके जोगोंसे पकड़नेकी कोशिश करने लगा—धड़ामसे जमीनपर पछाड़ खाकर गिर पड़ा ।

होश आनेपर यज्ञनीथ वृन्दावनको मन्दिरकी तरफ घमीट ले गये । बोले—“रोना सुन पड़ता है ?”

वृन्दावनने कहा—“नहीं तो ।”

“कान लगाकर सुन तो सही, ‘वापू’ कहकर कोई पुकार रहा है ?”

वृन्दावनने कहा—“नहीं तो ।”

बुद्धा अब मानो विलकुल निश्चिन्त हो गया ।

उसके बाद, बुद्धा सभीसे पूछता फिरता—“रोना सुन पड़ता है ?” पागलोंकी-सी बात सुनकर सब हँस देते ।

अन्तमें चार वर्षके बाद बुद्धेके मरनेके दिन आये । जब आँखोंके सामनेसे दुनियाँका दीपक बुझनेको हुआ और साँस रुकने लगी, तब विकारके बेगमें वह सहसा उठकर बैठ गया; एक बार दोनों

हाथोंसे चारों ओर टटोलकर सुमूर्पुने कहा—“निताई, मेरी नसेंनी किसने उठा ली ?”

जब उस वायु-हीन आलोक-हीन महागद्वरसे निकलनेकी नसेंनी न मिली, तो वह धर्मसे बिछौनेपर गिर पड़ा । संसारके आँख-मिचौनीके खेलमें जहाँ कोई किसीको ढूँढ़ नहीं सकता, वहींको रवाना हो गया ।

[ पौप, १९४८ ]

---

## दालिया

भूमिका

**प्रणित शाह** शुजाने औरंगजेबके भयसे भागकर आगामानके राजाकी शरण ली। साथमें थीं तीन सुन्दरी कन्याएँ। आगामानके राजाने चाहा कि उन कन्याओंके साथ राजपुत्रोंका विवाह हो जाय। इस प्रस्तावके छेड़नेपर शाह शुजा बहुत ही असन्तुष्ट हुए। नतीजा यह हुआ कि राजाके आदेशसे एक दिन उन्हें छलसे नावपर बिठाकर बीच नदीमें डुबो देनेकी कोशिश की गई। उस विपत्तिके समय छोटी लड़की अमीनाको उन्होंने स्वयं नदीमें पटक दिया। बड़ी लड़कीने अपने-आप आत्महत्या कर ली। मझली जुलेखा पिताके एक विश्वस्त कर्मचारी रहमत अलीके साथ तंरकर भाग गई। शुजाने लड़ते-लड़ते अपनी जान दे दी।

अमीना स्रोतमें बहकर दैवयोगसे शीघ्र ही एक धीवरके जालमें उलझ गई और धीवरने उसे तुरंत ही निकाल लिया। वहीपर वह पली और बड़ी हुई।

इस बीचमें वृद्ध राजाकी मृत्यु हो गई, और युवराज गहीपर बैठे।

## पहला परिच्छेद

एक दिन सवेरे बूढ़े धीवरने आकर अमीनासे डॉटकर कहा—

“तिन्नी !” धीवरने आगकानी भाषामें अमीनाका नया नाम रखा था, तिन्नी । “तिन्नी, आज सवेरेसे तुझे हो क्या गया ! काम-धन्धेमें खिलकुल हाथ ही नहीं लगाया ! हमारे नये जालमें गाँद नहीं लगा है, हमारी नाव—”

अमीनाने धीवरके पास जाकर बड़े स्नेहके साथ कहा—“बाबा, आज मेरी बहन आई है बहन ! इसलिये आज लूटी मनाई है ।”

“अरे ! तेरी बहन कहांसे आई री, तिन्नी !”

जुलेखा न जाने कहांसे निकल आई, बोली—“मैं हूं, मैं ।”

बूढ़ा दंग रह गया । फिर जुलेखाके खिलकुल पासमें आकर गौरसे उसका मुँह देखने लगा ।

भट्टसे पूछ बैठा—“तू काम-काज जानती है ?”

अमीनाने कहा—“बाबा, जीजीके बदले मैं काम कर दिया करूँगी । जीजी काम नहीं कर सकती ।”

बुड्ढेने कुछ देर तक सोचकर कहा—“तू रहेगी कहां ?”

जुलेखाने कहा—“अमीनाके पास ।”

बुड्ढेने सोचा, यह तो बड़ी मुश्किल हुई ! पूछने लगा—“खायगी क्या ?”

जुलेखाने कहा—“उसके लिये इन्तज़ाम है”—कहकर अवज्ञाके साथ धीवरके सामने एक मोहर फेंक दी ।

अमीनाने उसे उठाकर धीवर्गके हाथमें दिया, और चुपकेसे कहा—“बाबा, अब कुछ मत कहना, तू कामपर जा। बहुत अबेर हो गई है।”

जुलेखा छद्मवेशमें अनेक स्थानोंमें घूमती हुई अन्तमें अमीनाका पता लगाकर धीवर्गकी भाँपड़ीमें कैसे आ पहुंची, इसकी लम्बी-चौड़ी कथा है, कहनेसे एक अलग कहानी ही बन जायगी। उसका गळक अपना नाम ग़हमत् शेख़ ग़खकर आगकानकी गज-सभामें काम कर रही है।

### दूसरा परिच्छेद

**छोटीसी** नदी वह रही थी, प्रथम ग्रीष्मकी शीतल प्रभात-वायुसे केलू़ वृक्षकी लाल-लाल पुष्प-मञ्जिरियोंसे फूल भर रहे थे।

वृक्षके नीचे बैठी हुई जुलेखा अमीनासे कहने लगी—“भगवानने जो हम दोनों वहनोंको मौतके हाथसे बचाया है, वह सिर्फ पिताकी हत्याका बदला लेनेके लिये। नहीं तो, और तो कोई सबब ढूँढ़े नहीं मिलता।”

अमीनाने नदीके उस पार सबसे अधिक दूरकी, सबसे अधिक छायामय बनश्चेणीकी ओर देखते हुए कहा—“जीजी, अब उन सब बातोंको मत छेड़ो, बहन ! मुझे यह दुनियां अब अच्छी लगती है। मरते हैं तो मरदोंको मार-काट करके मरने दो, मुझे तो यहां कोई तकलीफ नहीं मालूम होती।”

जुलेखाने कहा—“छिः छिः, अमीना, तू क्या शाहजादेकी लड़की है। कहां देहलीका सिंहासन, और कहां यह आगकानके एक धीवरकी भोंपड़ी !”

अमीनाने हँसकर कहा—“जीजी, देहलीके सिंहासनसे मेरे इस बूढ़ेकी भोंपड़ी और इस कँड़ुकी छाया अगर किसी बालिकाको अधिक प्यागी लगे, तो देहलीका सिंहासन उसके लिए एक बूँद आँसू भी न गिरायेगा।”

जुलेखाने कुछ अनमने भावसे और कुछ अमीनाको लक्ष्य करके कहा—“हाँ, तुम्हें तो दोष नहीं दिया जा सकता,, तू तब विलकुल छोटी थी। पर एक बार मनमें सोच तो देख, अब्बाजान तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्याग करते थे, इसीलिये अपने हाथसे तुम्हें पानीमें डाल दिया था। उस पिनाकी दी हुई मौतसे इस ज़िन्दगीको तू ज्यादा प्यारी मत समझ। हाँ, अगर बदला ले सकी, तो ज़िन्दगीका कुछ अर्थ भी हो सकता है।”

अमीना चुप्पी साथे बैठी रही, दूरकी ओर देखती रही। परन्तु उसके चेहरेपर यह साफ भलक्ने लगा कि सब कुछ होते हुए भी बाहरकी इस हवा और पेड़की छायाने, उसके नवयोवन और न-जाने कौनसी एक सुख-स्मृतिने उसे निमग्न कर रखा है।

कुछ देर बाद, एक लम्बी साँस लेकर बोली—“जीजी, तुम ज़ग बैठो। मेरे घरका काम बाकी पड़ा है। मेरे बिना राँधे बूढ़ा भूखा रह जायगा।”

## तीसरा परिच्छेद

**जु**लेखा अमीनाकी हालत सोचकर बड़ी उदास हो गई, चुपचाप बैठी गही। इतनेमें अचानक धम्मसे किसीके कूदनेकी आवाज़ आई, और पीछेसे आकर किसीने जुलेखाकी आँखें मूँद लीं। जुलेखाने घबराकर कहा—“कौन है ?”

गलेकी आवाज़ सुनकर, युवक आँखोंपरसे हाथ हटाकर सामने आँखड़ा हुआ—जुलेखाके मुंहकी ओर देखकर बेघड़क बोल उठा—“तुम तो तिन्ही नहीं हो !” मानो जुलेखा अपनेको ‘तिन्ही’ साविन करनेकी कोशिश कर गही थी, सिर्फ युवककी असाधारण तीक्ष्ण बुद्धिने ही सब भेद खोल दिया हो !

जुलेखा अपनी चाढ़र सम्हालती हुई तेजीसे उठ खड़ी हुई, उसकी दोनों आँखोंसे आग बरसने लगी। कड़ककर बोली—“कौन हो तुम ?”

युवकने कहा—“तुम मुझे नहीं पहचानतीं। तिन्ही जानती है। तिन्ही कहाँ है ?”

तिन्ही शोगगुल सुनकर बाहर निकल आई। जुलेखाका गेष और युवकका हतबुद्धि-विस्मिन मुख देखकर अमीना कहकहा मारकर हँस उठी।

बोली—“जीजी, उसकी बातपर तुम कुछ ध्यान मत दो। वह आदमी थोड़े ही है। अगर कुछ बेअदवी की हो, तो मैं उसे डाँट दूँगी। दलिया, क्या किया था तुमने ?”

युवकने फौरन जवाब दिया—“पीछेसे आकर आँखें मँढ़ ली थीं। मैंने जाना कि तिन्ही हैं, पर वह तो तिन्ही नहीं हैं।”

तिन्ही सहसा दुःसह क्रोध प्रकट करती हुई बोली—“फिर! छोटे मुंह बड़ी वात! कब तुमने तिन्हीकी आँखें मीची थीं? बड़ी हिम्मत है!”

युवकने कहा—“आँखें मीचनेमें ऐसी क्या हिम्मतकी ज़म्मन है; हाँ, पहलेकी आदत चाहिये। पर सच कहता हूँ तिन्ही, आज ज़ग डर-सा गया था।”

कहकर निगाह बचाकर जुलेखाकी ओर उँगलीसे इशाग करके अमीनाके मुँहकी तरफ देखता हुआ मुसकराने लगा।

अमीनाने कहा—“नहीं, तुम बड़े असभ्य हो। शाहज़ादीके सामने खड़े होने लायक नहीं हो। तुमको तमीज़ सिखानेकी ज़म्मन है। देखो, इस तरह सलाम करो।”

कहकर अमीनाने अपनी यौवन-मंजरिन देह-लताको बड़ी नज़ाकतके साथ झुकाकर जुलेखाको सलाम किया। युवकने बड़ी मुश्किलसे उसकी बहुत ही अधूरी नकल की।

बोली—“इस तरह तीन कदम पीछे हट आओ।”

युवक पीछे हट आया।

“फिर सलाम करो।”

फिर सलाम किया।

इसी तरह पीछे हटाते-हटाते, सलाम कराते-कराते अमीना युवकको भोंपड़ीके दरवाजे तक ले गई।

बोली—“भीतर जाओ।”

युवक भीतर चला गया।

अमीनाने, बाहरसे घरका दग्धवाज्ञा बन्द करके कहा—“ज़रा घरका काम करो। देखो, आँच न बुझने पावे।” कहकर जीजीके पास जाकर बैठ गई।

बोली—“जीजी, गुस्सा मन हो वहन, यहांके आदमी ही ऐसे हैं। मेरा तो जी उकता गया है।”

परन्तु अमीनाके मुंहपर या उसके व्यवहारमें इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, बल्कि बहुतसी बातोंमें उसका यहांके आदमियोंके प्रति अनुचित पश्चापात ही नज़र आता है।

जुलेखाने शक्ति-भर गुस्सा दिखाकर कहा—“सचमुच, अमीना, तेरे बतावसे मैं तो दंग रहूँ गई हूँ। एक बाहरका युवक आकर देहसे हाथ लूआवे, यह तो उसकी बड़ी भागी हिमाकृत है।”

अमीनाने वहनकी हाँ-में-हाँ मिलाकर कहा—“हाँ, देख तो सही ! अगर कोई बादशाह या नवाबका लड़का ऐसा बेहूदा सलूक करता, तो उसे बंआवरू करके निकाल बाहर करती।”

जुलेखाकी भीतरकी हँसी रोके न सकी, हँसकर बोली—“सच-सच कहना अमीना, तूने जो कहा था कि दुनियाँ तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है, सो क्या इसी असभ्य युवकके लिये ?”

अमीनाने कहा—“अच्छा तो सच-सच कह दूँ, वह मेरी बड़ी मदद करता है। फल-फूल तोड़ देता है, शिकार कर लाता है, किसी एक कामके लिये बुलाओ, तो दौड़ा आता है। बहुत बार सोचती हूँ कि उसे

डॉट-डपटकर ठीक करूँ, पर सब कोशिशों फिजूल जाती हैं। अगर खूब गुस्सा होकर कहूँ—दलिया, तुमपर मैं बड़ी नाखुश हूँ,—तो वह मुँहकी तरफ देखता और बड़े मज़ेसे चुपचाप मुसकराता रहता है। इस देशकी हँसी ही शायद ऐसी होती होगी। दो-चार थप्पड़-मुक्के लगा दो, बड़ा खुश होता है; सो भी अजमाकर देख लिया है। देखो न, घरमें बन्द कर दिया है—बड़े आनन्दमें है। दरवाज़ा खोलते ही देखोगी, आँखें मुँह लाल करके बड़ी मौजसे चूल्हा फूँक रहा होगा। बताओ, इससे कैसे बस चले ! मैं तो हैगन हो चुकी हूँ।”

जुलेखाने कहा—“मैं कोशिश करूँगी।”

अमीनाने हँसते हुए विनयके साथ कहा—“ना वहन, तेरे पैरों पड़ती हूँ। अब तू उससे कुछ मत कहना।”

यह बात अमीनाने इस ढंगसे कही, मानो वह युवक अमीनाका बड़ी साथसे पाला हुआ हिरना हो, अभी तक उसका जंगली स्वभाव दूर नहीं हुआ है—कहीं दूसरे किसी आढ़मीको देखकर भड़क न जाय, भाग न जाय, ऐसी आशंका है।

इतनेमें धीवरने आकर कहा—“आज दलिया नहीं आया, तिनी ?”

“आया तो है।”

“कहां गया ?”

“वह बड़ा ऊधम मचा रहा था, इसलिये उसे घरमें बन्द कर दिया है।”

बूढ़ा कुछ सोचमें पड़ गया, बोला—“अगर हैगन करे, तो ज़रा सह लिया कर। कम उमरमें सभी ऐसे ऊधमी हुआ करते हैं। ज्यादा

तंग मत किया कर। दलियाने कल एक 'थलू' देकर मुझसे तीन मछलियां खागीदी थीं।" ('थलू' का अर्थ है 'भोहर')

अमीना बोली—“फिर मत करो बाबा, आज मैं उमसे दो थलू वसूल करा दूँगी, और एक भी मछली न देनी पड़ेगी।”

बूढ़ा अपनी पाली-पोसी लड़कीमें, इतनी कम उम्रमें ऐसी चतुरगई और कमाऊँ-बुद्धि देखकर बड़ा खुश हुआ। उसके सिरपर ध्यारसे हाथ फेरकर चला गया।

### चौथा परिच्छेद

**आश्र्य** तो इस वांतका है कि दलियाके आने-जानेके सम्बन्धमें

जुलेखाको भी धीरे-धीरे अब कोई आपत्ति नहीं रही। विचार कर देखा जाय, तो इसमें आश्र्य कुछ नहीं। कारण, जैसे नदीके एक ओर स्रोत है और दूसरी ओर किनारा, उसी प्रकार स्थियोंके हृदयावेग और लोकलज्जा है। परन्तु सभ्य-समाजके बाहर आगकानके प्रान्तरमें—यहां लोक कहां, जिसकी लज्जा हो !

यहां तो सिर्फ ऋतुकी पर्यायोंमें वृक्ष मंजित होते हैं, और सामनेकी नीली नदी वर्षामें सफीत, शरतमें स्वच्छ और ग्रीष्मऋतुमें क्षीण होती रहती है, पक्षियोंके उच्छ्रवसित कण्ठस्वरमें समालोचनाका लेशमात्र भी नहीं है। दक्षिणकी पवन बीच-बीचमें उस पारके गांवोंसे मानवचक्रकी गंजनध्वनि बहा लाती है, पर कानाफँसी नहीं लानी।

गिरे हुए मकानपर क्रमशः जैसे घास पेंदा हो जाती है, वैसे ही यहां भी कुछ दिन रहनेसे प्रकृतिके गुप्त आक्रमणोंसे लौकिकताकी मानव-निर्मित दृढ़ भित्ति क्रमशः अलक्षित रूपसे टूटकर गिर जाती है, और चारों ओरसे प्राकृतिक जगत्‌के साथ मिलकर सब एकाकार हो जाता है। दो समयोग्य नर-नारीके मिलन-दृश्यके देखनेमें रमणीको जितना आनन्द आता है, और किसीमें उतना नहीं। इतना रहस्य, इतना सुख, इतना बड़ा अथाह कोतूहलका विषय उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। अतएव इस असभ्य कुटीरमें, निर्जन दरिद्रताकी छायामें, जब जुलेखाका कुल-गर्व और लोक-मर्यादाका भाव अपने-आप शिथिल हो आया, तब उस फूलोंसे भरे हुए कंलू-बृक्षकी छायामें अमीना और दलियाके मिलनके इस मनोहर खेलके देखनेमें उसे बड़ा आनन्द आने लगा।

शायद उसके भी तरुण हृदयकी एक अपरितृप्त आकांक्षा जाग उठती और उसे मुखदुखमें चंचल कर देती थी। अन्तमें ऐसा हो गया कि यदि किसी दिन युवकके आनेमें देर हो जाती, तो अमीना जैसे उत्कण्ठित हो उठती, जुलेखा भी वैसे ही आग्रहके साथ प्रतीक्षा करती, और दोनोंके एकत्र होनेपर चित्रकार जैसे अपने सद्य-समाप्त चित्रको कुछ दूरसे देखता है, वैसे ही स्नेहके साथ मुसकराती हुई देखती रहती, किसी-किसी दिन मौखिक युद्ध भी करती, छलसे डॉट-डपट देती, अमीनाको घरमें बन्द करके युवकके मिलनावेगमें वाधा डालती।

सम्राट् और अरण्यमें एक प्रकारका सादृश्य है। दोनों ही स्वाधीन हैं, दोनों ही अपने राज्यके एकाधिपति हैं, दोनों ही को किसीका नियम

मानकर नहीं चलना पड़ता। दोनों ही में प्रकृतिका एक स्वाभाविक बड़प्पन और सरलता है। जो मध्यम श्रेणीके हैं, जो गत-दिन लोक-शास्त्रके अक्षर मिलाकर जीवन विनाते हैं, वे ही कुछ अलग तरहके होते हैं। वे हो बड़ोंके सामने दास, छोटोंके लिये प्रभु और ऐरे-गेरे स्थानमें विलकुल 'किंकर्तव्य-विमूढ़' हो जाते हैं। अमर्य दलिया प्रकृति-सम्राज्ञोका उच्छृंखल लड़का है; शाहज़ादियोंके सामने उसे कोई संकोच न था, और शाहज़ादियां भी उसे वरावरीका आदमी समझ सकती थीं। दलिया हँसमुख, सरल, कोतुकप्रिय, सभी अवस्थाओंमें निर्भीक और निःसंकोच प्रकृतिका युवक है; चरित्रमें दगिद्रताका कोई लक्षण ही न था!

परन्तु इन सब खेलोंमें एकाएक जुलेखाका हृदय हाय-हाय कर उठता, सोचती—शाहज़ादीकी ज़िन्दगीका क्या यही ननीजा है!

एक दिन प्रभातमें दलियाके आते ही जुलेखाने उसका हाथ मसलकर कहा—“दलिया, यहांके राजाको दिखा सकते हो?”

“दिखा सकता हूँ। क्यों? बताओ तो सही?”

“मेरे पास एक छुरा है, उस में उसके सीनेमें भोक्ना चाहती हूँ।”

पहले दलिया कुछ दंग-सा रह गया। फिर जुलेखाके हिसापर चेहरेकी ओर देखकर उसका साग मुँह हँसीसे भर गया; मानो इतनी बड़ी मज़ेकी वात उसने पहले कभी सुनी ही न हो!—अगर दिल्ली कहो तो यही है, शाहज़ादीके लायक है। कुछ बात नहीं, चीत नहीं, पहली ही मुलाकातमें एक छुरेका आधा हिस्सा एक ज़िन्दा

बादशाहके सीनेमें भोक्नेपर, इस प्रकारके विलकुल अन्तरंग व्यवहारसे, बादशाहके होश-हवास केंसे फान्ना हो जायेंगे, यहो चित्र क्रमशः उसके मनमें उदित होने लगा, उसका नीरव कौतुक-हास्य गह-गहकर उच्चहास्यमें परिणत होने लगा ।

### पाँचवाँ परिच्छेद

**उ**सके दूसरे ही दिन गहमत शेखने जुलेखाको गुप्त चिट्ठी लियी—

“आगकानके नये गजाको पता लग गया है कि तुम दोनों बहनें धीवर्गकी भाँपड़ीमें हो । छिपकर अमीनाको उन्होंने देख भी लिया है, वे उसपर मोहित हो गये हैं । उसके साथ व्याह करनेके लिये शीघ्र ही वे उसे महलमें लानेकी तय्यारियां कर रहे हैं । बदला चुकानेका ऐसा उमदा मौका फिर न मिलेगा !”

तब जुलेखाने मज़बूतीसे अमीनाका पहुँचा थामकर कहा—  
“खुदाकी मरज़ी साफ़ दीख रही है । अमीना, अब तेरे जीवनमें कर्तव्य-पालनका समय आ गया है, अब हँसी-खेल अच्छा नहीं लगता ।”

दलिया मौजूद था, अमीनाने उसके मुंहकी तरफ देखा ; देखा, वह कौतुक-पूर्ण हँसी हँस रहा है ।

उसकी हँसी देखकर अमीनाका हृदय विदीर्ण हो गया, बोली—  
“जानते हो दलिया, मैं बेगम बनने जा रही हूँ !”

दलियाने हँसकर कहा—“सो तो थोड़ी ही देरके लिए न !”

अमीनाने पीड़ित, विस्मित चित्तसे मन-ही-मन सोचा—‘सचमुच यह जंगलका हिग्न है, इसके साथ आदमियों जँसा बरताव करना अपना ही पागलपन है।’

अमीनाने दलियाको और भी ज़रा सचेत करनेके लिए कहा—“बादशाहको मारकर अब क्या मैं लौट सकती हूँ!”

दलियाने इस बातको मंगत समझकर कहा—“हाँ, लौटना तो मुश्किल ही है।”

अमीनाकी सागी अन्तर्गतमा विलकुल सून हो गई।

तुँस्खाकी ओर मुड़कर, लम्बी साँस लेकर बोली—“जीजी, चलो, मैं नव्यार हूँ।”

फिर दलियाकी ओर मुड़कर, विधे हुए अन्तरसे, हँसीमें बोली—“वंगम बनकर मैं पहले तुम्हें ही बादशाहके विरुद्ध पड़्यन्त्रमें शामिल होनेके अपगाधमें सज्जा दिलाऊँगी! उसके बाद फिर जो कुछ करना होगा, करूँगी।”

सुनकर दलियाको बड़ा कौतुक हुआ, मानो इस बातके कार्यरूपमें यशिणत होनेपर उसे बहुत-कुछ आनन्दकी सामग्री मिलेगी।

### छठा परिच्छेद

**बुङ्डसवार,** हाथी, पियादे, बाजे, भंडियों और गेशनियोंकी

धूमधामसे धीवरका घर-द्वार टूटनेकी नौबत आ पहुँची। राजमहलसे सोनेकी दो जड़ाऊ पालकियाँ आई हैं।

अमीनाने जुलंखाके हाथसे छुरा ले लिया। वह उसकी हाथी-दाँतकी बनी हुई मृठको बहुत देर तक देखती रही। उसके बाद, चोली उघाड़कर, अपनी छातीपर एक बार उसकी धारकी परीक्षा कर देखी। जीवन-कलीके वृन्तके पास छुरेको एक बार छुआ लिया। फिर उसे म्यानमें रखकर चोलीके अन्दर छिपा लिया।

बड़ी इच्छा थी, इस मरण-यात्राके पहले एक बार दलियासे मिल लेती, पर कलसे वह लापता है! दलिया उस दिन जो हँस रहा था, उसके अन्दर क्या अभिमानकी ज्वाला सुलग रही थी?

पालकीमें बैठनेसे पहले अमीनाने अपने वाल्यकालके आश्रयको आँसुओंके भीतरसे एक बार देखा—अपने उस घरके पेंड़को, अपनी उस घरकी नदीको। धीवरका हाथ थामकर वह काँपती हुई ज़बानसे बोली—“बाबा, अब मैं चली।—तिनी तो जाती है, अब तेरी घर-गिरस्ती कौन सम्हालेगा?”

बूढ़ा सहसा वालककी तरह गे उठा।

अमीनाने कहा—“बाबा, अगर दलिया यहां आवे, तो उसे यह अंगूठी देंदेना। कहना, तिनी जाते वक्त दे गई है।”

इतना कहकर जल्दीसे वह पालकीपर बैठ गई। बड़ी धूम-धामके साथ पालकी रवाना हो गई। अमीनाकी झोंपड़ी, नदीका किनारा, कँट्ठ, वृक्षके नीचेका स्थान,—सब अन्धकारमय निस्तब्ध जनशून्य हो गया।

यथासमय दोनों पालकियोंने तोरणद्वार पारकर अन्तःपुरमें प्रवेश किया। दोनों बहनें पालकीसे निकलकर बाहर आईं।

अमीनाके मुँहपर हँसी न थी, आँखोंमें आँसुओंका चिह्न तक न था। जुलेखाका मुँह फीका—सफेद—पड़ गया था। कर्तव्य जब तक दूर था, तब तक उसके उत्साहकी तीव्रता थी, अब उसने कम्पित हृदयसे—व्याकुल स्नेहसे—अमीनाको छातीसे लगा लिया। मन-ही-मन कहने लगी—‘नये प्रमके डंठलसे तोड़कर इस खिलते हुए फूलको किस रक्त-स्रोतमें बहाने ले जा गही हूँ !’

परन्तु अब सोचनेका समय नहीं है। परिचारिकाओं द्वाग लाई हुई, संकड़ों-हजारों वत्तिओंकी अनिमेप नीव दृष्टियोंके बीचसे, दोनों वहने स्वप्नाहनकी तरह चलने लगीं, अन्नमें शयनागारके दरवाजेके पास झण-भरके लिए ठहरकर अमीनाने जुलेखासे कहा—“जीजी !”

जुलेखाने अमीनाको हट आलिङ्गनमें बाँधकर चुम्बन किया। दोनों धीरे-धीरे भीतर घुसीं।

देखा—शाही पोशाक पहने कमरेके बीचमें पलंगपर मशनदके गहारे वादशाह बैठे हुए हैं। अमीना वडे संकोचके साथ दरवाजेके पास खड़ी गही।

जुलेखाने आगे बढ़कर वादशाहके पास जाकर देखा—वादशाह चुपचाप वडे कौतुकसे हँस रहा है !

जुलेखा बोल उठी—“दलिया !”

अमीना मूर्छित हो गई।

दलिया उठकर उसे धायल चिरंयाकी तरह गोदमें उठाकर पलंगके पास ले गया। होश आनेपर अमीनाने चोलीके अन्दरसे लूगा

निकालकर जीजीके मँहकी ओर देखा । जीजीने दलियाकी मँहकी ओर देखा । दलिया चुपचाप मुसकराता हुआ दोनोंकी ओर देखता रहा । लुरी भी अपनी म्यानमें से जगसा मुँह निकालकर इस तमाशेको देखकर चमचमाकर हँसने लगी ।

( माघ, १८४८ )

---

## कंकाल

हम तीनों वाल्य-संगी जिस घरमें सोते थे, उसके बगलके कमरमें ही दीवालपर एक नर-कंकाल लटका रहता था। गतको हवासं उसकी हड्डियाँ खड़खड़िया करती थीं। दिनको हमें उन हड्डियोंको हिलाना पड़ता था। हम लोग तब पण्डितजीके पास 'मेघनाथ-बध' और कंमबल स्कूलके एक विद्यार्थीसे अस्थि-विद्या पढ़ा करते थे। हमारे अभिभावक चाहते थे कि हम लोगोंको वे सहसा सर्वविद्यामें पारदर्शी कर डालें। उनका यह अभिप्राय कहाँ तक सफल हुआ, यह बात जो हमें जानते हैं, उनके सामने प्रकट करना फिज़ूल है, और जो नहीं जानते, उनसे छिपाना ही अच्छा है।

उसके बाद, बहुत समय बीत चुका है। इस बीचमें उस घरसं कंकाल और हम लोगोंके माथेसे अस्थि-विद्या निकलकर न जाने कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं।

थोड़े दिन हुए, एक दिन गतको किसी कारणसे अन्यत्र स्थानाभाव

होनेके कारण मुझे उसी कमरेमें सोना पड़ा। आदत न होनेसे नींद न आई। करवट बदलते-बदलते गिरजाकी घड़ीमें बड़े-बड़े धंटे करीब-करीब सब बज गये। इतनेमें घरके एक कोनेमें जो तेलका दिआ जल रहा था, वह पांचएक मिनट तक बुत-बुत करता हुआ चिलकुल बुझ गया। इससे कुछ पहले हमारे घरपर दो-एक दुर्घटनाएँ हो चुकी थीं। इसीसे इस दिआके बुझते ही मृत्युकी बात याद आ गई। मालूम हुआ, यह जो आधी गतके बत्ते एक दीपशिखा चिरअन्धकारमें मिल गई, प्रकृतिके लिये जैसी यह है, वैसी ही मनुष्यकी छोटी-छोटी प्राणशिखाएँ हैं, जो कभी दिनमें, कभी रातमें सहसा बुझकर विस्मृत हो जाती हैं।

क्रमशः उस कंकालकी बात याद आई। उसके जीवित कालके विषयमें कल्पना करते-करते सहसा मालूम हुआ, एक चेतन पदार्थ अन्धकारमय घरमें दीवाल टटोलता हुआ मेरी मशहरीके चारों तरफ घूम रहा है, उसकी घनी-घनी साँस चल रही है। न जाने वह क्या ढूँढ़ रहा है, पर पाता नहीं, और तेजीके साथ घर-भरमें फिर रहा है। मैंने निश्चित समझ लिया कि यह सब-कुछ मेरे निन्द्राहीन गगमाये हुए मस्तिष्ककी कल्पना है। और मेरे ही माथेमें भन्नाता हुआ जो खूब दौड़ रहा है, वही पैरोंकी आहटकी तरह सुन पड़ता है। परन्तु फिर भी रोंगटे खड़े हो उठे। जबरदस्ती इस फिजूलके डरको दूर करनेके लिए मैं बोल उठा—“कौन है !” पदशब्द मेरी मशहरीके पास आकर थम गया, और एक उत्तर सुन पड़ा—“मैं हूँ; मेरा वह कंकाल कहाँ गया ? उसे ढूँढ़ने आई हूँ।”

मैंने साचा कि अपनी काल्पनिक सृष्टिके आगे भय दिखाना कुछ नहीं,—मैंने गाव-तकियेसे जोरसे चिपटकर चिर-परिचितकी भाँति सहज स्वरमें कहा—“वाह ! आधी रातकं वक्रत काम तो खूब ढूँढ़ निकाला है ! अब उस कंकालसे तुम्हें क्या मतलब ?”

अँगरेमें, मशहरीके बहुत ही पाससे उत्तर मिला—“खूब कही ! अरं, मेरी छातीके हाड़ तो उसीमें थे । मेरा छब्बीस वर्षका यौवन तो उसीके चारों ओर विकसित हुआ था,—एक बार देखनेकी इच्छा नहीं होती ?”

मैंने उसी वक्रत कहा—“हाँ, वात तो ठीक है । तो तुम ढूँढ़ो—जाओ । मैं ज़रा सोनेकी कोशिश करूँ ।”

उसने कहा—“तुम अकेले ही हो क्या ? —तो ज़रा बैठ जाऊँ । ज़रा गप्पे होने दो । यैतीम वर्ष पहले मैं भी आदमियोंके पास बैठकर आदमियोंकी तरह गप्पे किया करती थी । ये पैतोस वर्ष मैंने सिर्फ शमशानकी हवामें हूँ-हूँ करने हुए बिताये हैं । आज तुम्हारे पास बैठकर, और एक बार, आदमियोंकी तरह गप्पे कर लूँ ।”

मुझे मालूम हुआ कि मेरी मशहरीके पास आकर कोई बैठ गया । कोई उपाय न देख मैंने ज़रा उत्साहके साथ ही कहा—“हाँ, यही ठीक है । ऐसी कोई कहानी कहो, जिससे तवियत खुश हो जाय ।”

उसने कहा—“सबसे बढ़कर मजेकी वात सुनना चाहते हो, तो मैं अपने जीवनकी बातें सुनाती हूँ,—सुनो ।”

गिरजेकी घड़ीमें टन-टन दो बजे ।

“जब मैं मनुष्य थी और छोटी थी, तब एक आदमीसे मैं यमकी

तरह डरती थी। वे थे मेरे पति। मछलीको कांटमें फँसा लेनेपर वह जैसे फड़फड़ाती है, मैं भी वैसे ही तड़पती थी।—मुझे फँसा मालूम होता था, मानो कोई एक विलकुल अपरिचित जीव मुझे कांटमें फँसाकर मेरे स्तनध-गम्भीर जन्म-जलाशयसे खींचकर लिये जा रहा है—किसी भी तरह उसके हाथसे छुटकारा नहीं। विवाहके दो मास बाद ही मेरे पतिकी मृत्यु हो गई। घरबालों और नाते-रिश्टेदारोंने मेरी नगफँस वहुत-कुछ विलाप-परिताप किया। मेरे समुरने वहुतमें लक्षण मिलाकर साससे कहा—‘शास्त्रोंमें जिसे विप-कन्या कहा है, यह लड़की वही है।’ यह बात मुझे अभी तक विलकुल स्पष्ट आद है।—मुनते हो, कौसी लग रही है?’

मैंने कहा—“अच्छी है। कहानीका प्राग्मम तो बड़े मज़ेका है।”

“तो मुनो। आनन्दसे मायके लौट आई। क्रमशः उमर बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाते थे, पर मैं खुद अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी रूपवती जहां-तहां नहीं मिलती। क्यों, तुम्हारी क्या राय है?”

“हां सकता है। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं।”

“देखा नहीं! क्यों? मेरा वह कंकाल! हि-हि! हि-हि! मैं मैस्त्राक कर रही हूं! तुम्हारे सामने मैं कैसे सावित करूँ कि उन दोनों आँखोंकी खोखली हड्डियोंके बीचमें कमान-सी खिची हुई काली भौंग-सी बड़ी-बड़ी दो आँखें थीं, और गोन ओठोंपर जो मन्द-मन्द मुसकान थी, उसकी अब इन उघड़े हुए दाँतोंकी विकट हँसीके साथ किसी तरह तुलना ही नहीं हो सकती; मैं कैसे समझाऊँ कि उन्हीं

इनी-गिनी लम्बा सर्वी हड्डियोंके उपर इतना लालित्य, यौवनकी इतनी कठिन-कोसल सुधड़ पर्गण्ठिता प्रतिदिन प्रस्फुटिन होनी रहती थी कि तुमसे कदंबें मुझे हमी भी आती है और क्रोध भी। मेरे उम शरीरमें अस्थि-विद्या सीखी जा सकती है, यह बात उस जमानेके बड़े-बड़े डाक्टरोंके भी दिमागमें न आती थी। मुझे याद है, एक डाक्टरने अपने किसी विशिष्ट मित्रमें मुझे कनक-चम्पा कहा था। उसके मानी यह थे कि दुनियांक और सब आदमी अस्थि-विद्या और शैशिरनन्तरके हप्तान्तरम्बल थे,—निर्षमें ही सौन्दर्यस्पी फलके समान थी। कनक-चम्पाके भीतर क्या कोई कंकाल होता है ?”

“मैं जब चलती थी, तो मुझे मालूम होता था कि एक हीरेको हिलानेसे उसके चारों ओर जर्म प्रकाश चमचमाता है, मेरी देहकी प्रत्येक गतिमें भी वसी ही सौन्दर्यकी भंगी मानो अनेक रवाभाविक हिलोलोमें चारों ओर विखरी पड़ती है। कभी-कभी मैं बहुत देर तक अपने हाथ आप देखा करती, —संसारके समस्त उद्धत पौरुषके मृहमें लगाम डालकर मधुरनामें उन्हे वशमें कर सकते थे—ऐसे हाथ थे ! मुझदा जब अर्जुनको लेकर बड़े दर्पके साथ अपने विजय-स्थलको विस्मित नीन-लोकके बीचमें होकर चला ले गई थी, तब उनके शायद ऐसी ही दो अस्थल मुड़ौल मुज्जाप, आरक्ष हथेलिया और लावण्य-शिखाके समान उगलियाँ थी ।”

“परन्तु मेरे उस निर्लज्ज, निगवण, निगभण, चिरबृद्ध कंकालने तुम्हारे सामने मेरे नामसे झूठी माल्की दी हैं। मैं तब बेवम थी, कुछ बोल न सकती थी। इमीलिए संसार-भरमें मेरा सबसे ज्यादा क्रोध

तुम्हीं पर है। इच्छा होती है, अपने उस सोलह वर्षके जीवित, यौवनके तापसे उत्तम आरक्षिम रूपको एक बार तुम्हारी आँखोंके सामने खब दूँ, बहुत दिनोंके लिए तुम्हारी आँखोंकी नींद कुटा दूँ, तुम्हारी अस्थि-विद्याको अस्थिर करके देश-निकाला दे दूँ।”—

मैंने कहा—“तुम्हारी देह अगर होती, तो मैं देह छूकर कहता कि उस विद्याका लेशमात्र भी अब मेरे मन्त्रिकमें नहीं है। और तुम्हारा वह भुवन-मोहन पूर्ण यौवनका रूप रजनीके इस अन्धकार-पटपर जान्जबल्यमान होकर प्रस्फुटित हो उठा है। बस, अब इयादा मत कहलवाओ।”

“मेरी कोई सखी-सहेली न थी। भइयाने प्रतिज्ञा कर ली थी, व्याहन करेंगे। अन्तःपुरमें सिर्फ़ मैं ही अकेली थी। बगीचेमें पेड़के नीचे अकेली बैठी हुई मैं सोचा करती—तमाम दुनियाँ मुझसे ही प्रेम करती हैं, आकाशके सारे तारे मुझे ही देखा करते हैं, पवन छलसे बार-बार दीर्घ-निःश्वासके रूपमें मेरे बगलमें होकर निकल जाती है; और जिस घासपर मैं पैर फैलाकर बैठी हूँ, उसे यदि चेतना होती, तो वह भी फिरसे अचेतन हो जाती। मुझे मालूम होता, संसारके समस्त युवा पुरुष उस घासके रूपमें दल वाँधकर चुपचाप मेरे पैरोंके पास आकर खड़े हैं। हृदयमें विना कारण न-जाने कैसी एक बेदनाका अनुभव होता।”

“भइयाके मित्र शशिशेखर जव मेडिकल कालेजसे पास होकर आये, तो वे ही हमारे घरके डाक्टर हुए। मैंने उन्हें पहले ओटमेसे बहुत बार देखा है। भइया वडे अजीब आदमी थे—दुनियाँको मानो वे अच्छी तरह देख न सकते थे। संसार उनके लिये मानो काफी

खुला हुआ न था—इसलिए हटते-हटते वे बिल्कुल किनारेपर पहुंच गये थे।”

“उनके मित्रोंमें वस एक शशिशेखर ही थे। इसलिए बाहरके युवकोंमेंसे मैं सिर्फ शशिशेखरको ही हमेशा देखती थी। और जब मैं सन्ध्याके समय फूलके पेड़के नीचे सम्राज्ञीका आसन ग्रहण करती, तब संसारकी सम्पूर्ण पुरुष-जाति शशिशेखरकी मृति धारण कर मेरे चरणोंमें आकर आश्रय लेती।—सुन रहे हो ? कहानी ‘कंसी मालूम देती है ?’

मैंने एक उमास लेकर कहा—“मालूम होता है, शशिशेखर होकर पैदा होता, तो अच्छा रहता।”

“पहले पूरी सुन तो लो।—एक दिन, बदलीका दिन था, मुझे बुखार चढ़ा। डाक्टर देखने आये। यही पहली मुलाकात थी।”

“मैं खिड़कीकी तरफ मुँह किये थी, जिससे सन्ध्याकी लाल आभा मुंहपर पड़े और मुंहकी विवर्णता दूर हो जाय। डाक्टरने जब घरमें घुसते ही मेरे मुंहकी ओर एक वार देखा, तब मैंने भी मन-ही-मन अपनेको डाक्टर मानकर कल्पनासे अपने मुंहकी ओर देखा। उस सन्ध्याके गुलाबी प्रकाशमें नगम नकियेपर कुछ मुरझाया हुआ और कोमल फूलके समान वह मुख था; असंयमित धुँधगले बाल ललाटपर बिखर रहे थे और लज्जासे भूकं हुए बड़े-बड़े नेत्रोंके पहच कपोलपर छाया डाल रहे थे।”

“डाक्टरने नम्र मृदु स्वरमें भड़यासे कहा—‘एक वार हाथ देखना होगा।’”

“मैंने फर्दंके भीतरसे थका हुआ सुगोल हाथ निकाल दिया। एक बार हाथकी ओर निहारकर देखा,—यदि नीले रंगकी काँचकी चूड़ी पहन लेती, तो और भी अच्छा लगता। गेगीका हाथ थामकर नाड़ी देखनेमें डाक्टरकी ऐसी चंचलता मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने अत्यन्त असंलग्नभावसे काँपती हुई उंगलियोंसे नाड़ी देखी। वे मेरे दुखारकी गगमी समझ गये, मैंने भी उनकी अन्तरकी नाड़ी कैसी चल रही है, इसका कुछ-कुछ आभास पाया। क्यों, विश्वास नहीं होता ?”

मैंने कहा—“अविश्वासका कोई कारण नो नहीं देखता—आदमीकी नाड़ी हर ब्रह्मत एकसी नहीं चलती।”

“क्रमशः और भी दो-चार बार रोगी और आरोग्य होनेके बाद मैंने देखा—मेरी उस सन्ध्याकालकी मानस-सभामें संसारकी कोटि-कोटि पुरुष-संख्या अत्यन्त कम होते-होते अन्तमें वह एकपर आकर ठहरी, मेरी दुनियाँ करीब-करीब सूनी-सी हो गई। संसारमें सिर्फ एक डाक्टर और एक रोगी बच रहा।”

“मैं छिपकर शामके बक्के एक बसन्ती रंगकी साड़ी पहनती, अच्छी तरह जूँड़ा बाँधती, उसपर एक मोतियेकी माला लपेटती, फिर एक दर्पण लेकर बगीचेमें जा बैठती।”

“क्यों ! अपनेको देख-देखकर क्या त्रुप्ति नहीं होती ! सचमुच नहीं होती, क्योंकि मैं तो खुद अपनेको नहीं देखती थी। मैं तब अकेली बैठकर दो हो जाती थी। मैं तब डाक्टर बनकर अपनेको देखती थी, मोहित हो जाती थी, प्रेम करती थी, आदर करती थी,

फिर भी हृदयके भीतर एक दीर्घ-निःश्वास सन्त्याकी हवाकी तरह हृ-हृ कर उठता था।”

“नवसे में अकेली नहीं थी; जब चलती थी, नीचेको निगाह करके निगम-निगमकर देखती थी कि परेंकी उँगलियाँ ज़मीनपर कैसे पड़ती हैं; और सोचती थी कि इन परेंका रखना हमारे नवीन परीक्षोन्तीर्ण डाक्टरको कंसा लगता होगा। दोषहरको जंगलेके बाहर धू-धू करता रहता, कहीं भी शोर-गुल नहीं, बीच-बीचमें एक-आध चील बहुत दूर आकाशमें चीं-चीं करती हुई उड़ जाती; और हमारे बगीचेकी चहारदीवारीके बाहर खिलौनेवाला गानेके स्वरमें ‘चहिये खिलौना चहिये, चूड़ी चहिये’ बोल जाता, मैं नव अपने हाथरसे बिलौना करके उसपर एक धुली हुई चहर बिछाकर सो जाती; एक उघड़ी हुई बाँह कोमल बिलौनेपर मानो अनादरगसे गर्वकर सोचती, इस हाथको इस तरह रखते हुए मानो किसीने देख लिया, मानो किसीने दोनों हाथोंसे उठा लिया, मानो किसीने इसकी गुलाबी हथंलीपर एक चुम्बन गर्व दिया, और मानो धीरे-धीरे बह लौटा जा रहा है। मान लो, यहींपर कहानी अगर खत्म हो जाय, तो कैसी रहे?”

मैंने कहा—“अच्छी ही रहे। जग अधूरी तो रह जायगी, पर उसे पूरी कर लेनेमें बची हुई गत मज़ेमें कट जायगी।”

“परन्तु इससे कहानी बहुत गम्भीर हो जायगी। इसका उपहास फिर कहां रहेगा? इसके भीतरका ‘कंकाल’ अपने सारे ढाँत किटकिटाता हुआ कहां दिखाई देगा?—”

“हाँ, फिर उसके बाद सनो।—जग प्रैक्षिस बढ़ते ही डाक्टरने

हमारे मकानके नीचे एक दवाखाना खोल दिया। तब मैं उनसे कभी-कभी हँसी-हँसीमें दवाकी बात, ज़हरकी बात, कैसे आदमी आसानीसे मर सकता है, ये सब बातें पूछती रहती। डाक्यरी-विषयोंमें डाक्यर का मुंह खुल जाता। सुनते-सुनते मौत मानो परिचित घरके आदमीकी तरह हो गई। प्रेम और मृत्यु, मुझे सिर्फ दो ही चीजें दुनियाँमें दीखने लगीं।”

“मेरी कहानी करीब-करीब खत्तम होनेपर है—अब ज्यादा नहीं है।”

‘मैंने मुलायम स्वरमें कहा—“गत भी करीब-करीग खत्तम हो आई।”

“कुछ दिनसे देखा कि डाक्यर साहब बड़े अनमने-से रहते हैं, और मेरे सामने तो बहुत ही झेंपते हैं। एक दिन देखा कि वे कुछ अधिक ठाट-बाटसे सज-धजकर भइयाके पास आये हैं उनसे बगधी माँगने, रातको कहाँ जायेंगे।”

“मुझसे रहा न गया। भइयाके पास जाकर बातों-ही-बातोंमें मैंने पूछा—‘भइया, डाक्यर साहब आज बगधी लेकर कहाँ जा रहे हैं?’”

“संक्षेपमें भइयाने कहा—‘मरने’।”

“मैंने कहा—‘सच्ची बताओ न भइया’।”

“उन्होंने पहलेकी अपेक्षा कुछ खुलासा करके कहा—‘ब्याह करने’।”

“मैंने कहा—‘सचमुच!’—कहकर मैं खूब हँसने लगी।”

“धीरे-धीरे मालूम हुआ कि इस विवाहमें डाक्यरको बारह हजार रुपये मिलेंगे।”

“परन्तु मुझसे यह बात छिपाकर मुझे अपमानित करनेका क्या मतलब ? मैंने क्या उनके पैरों पड़कर कहा था कि ऐसा काम करनेसे मैं छाती फाड़कर मर जाऊँगी ? पुरुषोंका विश्वास नहीं ! दुनियामें मैंने सिर्फ एक ही पुरुष देखा है, और एक ही क्षणमें उसके विषयमें साग ज्ञान प्राप्त कर लिया है।”

“डाकर गेगियोंको देखकर जब घर लौट आये, तो मैंने खूब हँसते-हँसते कहा—‘अयों डाकर साहब ! मैंने सुना कि आज आपका ब्याह है ?’

“मेरी प्रकुलता देखकर डाकर सिर्फ भेंपे ही नहीं, बल्कि उदास हो गये।”

“मैंने पूछा—‘बाजे-आजे कुछ नहीं बुलाये ?’

“सुनकर उन्होंने एक लम्बी उसास ली, बोले—‘ब्याह क्या इन्हें आनन्दकी चीज़ है ?’”

“सुनकर मैं हँसते-हँसते लोट-पोट हो गई। ऐसी बात तो कभी सुनी ही नहीं थी। मैंने कहा—‘सो नहीं होगा, बाजे चहिये, रोशनी चहिये !’”

“भइयाको ऐसा तंग कर डाला कि भइया उसी दम धूमधामसे बगत निकालनेकी तय्यारीमें लग गये।”

“मैं बार-बार यही किस्सा छेड़ने लगी—बहूके घर आनेपर क्या होगा, मैं क्या करूँगी,—‘अच्छा डाकर साहब, तब भी क्या आप इसी तरह गेगियोंकी नाड़ी मसकते फिरेंगे ?’ हि-हि ! हि-हि ! यद्यपि मनुष्यका—खासकर पुरुषका—मन दृष्टिगोचर नहीं होता,

फिर भी मैं सौगंद खाकर कह सकती हूँ कि ये शब्द डाक्टरकी छानीमें शूलकी तरह चुभ गये।”

“बहुत गत बीते लग थी। शामके वक्त डाक्टर छतपर बैठे हुए भड़याके साथ दो-एक ग्लास शराब पी रहे थे। दोनों जने इस काममें कुछ-कुछ अस्यस्त थे। धीरे-धीरे आकाशमें चाँद उदय होने लगा।”

“मैं हँसती हुई ऊपर पहुँची, बोली—‘डाक्टर साहब भूल गये क्या? चलनेका वक्त तो हो गया’!”

“यहाँ जगत्सी एक बात कहनी है। इसी बीचमें मैं छिपकर डाक्टरसानेमें जाकर थोड़ासा सफेद चूरा ले आई थी, और उसमेंसे ज़गत्सा निगाह बचाकर डाक्टरके गिलासमें मिला दिया था। किम चूरेके खानेसे आदमी मर जाता है, यह डाक्टरसे ही सीख लिया था।”

“डाक्टरने एक उसासमें तमाम गिलास खाली करके कुछ भीजे हुए गद्गाद कण्ठसे, मेरे मुंहकी तरफ मर्मान्तिक हटि डालकर, कहा—‘अच्छा, तो अब चलता हूँ।’”

“शहनाई बजने लगो, मैंने एक बनारसी साढ़ी पहन ली; जितने भी गहने सन्दूकमें बैथे रखे थे, सब-के-सब, निकालकर पहन लिये; माँगमें सूख अच्छी तरह सिन्दूर भर लिया।—अपने उसी बकुल वृक्षके नीचे बिछौना बिछाये।”

“बड़ी सुहावनी रात थी। सफेद चाँदनी छिटक रही थी। सोते हुए जगत्की कुनित हरण करती हुई दखिनी हवा बह रही थी। ज़ूँही और मोतियेकी सुगन्धसे सारा बगीचा महक रहा था।”

“शहनाईका शब्द क्रमशः जब दूर चला गया, चाँदनी जब

अन्धकारका स्वप्न धारण करने लगी, उस वृक्षके पद्मव, आकाश और  
आजन्मकालके घर-द्वारको लेकर दुनियाँ जब मेरे चागें तरफसे  
मायाकी तरह बिलाने लगी, तब मैं आँखें मीचकर हँसने लगी।”

“इच्छा थी—जब लोग आकर मुझे देखें, तो मेरी वह हँसी गंगीन  
नशेकी तरह मेरे ओठोंपर लगी रहे। इच्छा थी—जब मैं अपने  
अनन्तगतिकी मुहाग-कुटीरमें धीरं-धीरं प्रवेश करूँ, तबके लिये इसी  
हँसीको यहाँसे सुंहपर लिये जाऊँ।”

“कहाँ है मेरी वह मुहाग-कुटीर ? कहाँ है मेरी वह मुहागकी  
पोशाक ? अपने भीतरसे एक खटखटकी आवाज़ मुनकर मैं जाग  
गई, देखा तो मुझे लेकर तीन लड़के अस्थि-विद्या सीख रहे हैं ! छातीके  
भीतर जहाँ मुख-दुख धुक-धुक करना रहता था और एक-एक करके  
प्रतिदिन यौवनकी कलियाँ जहाँ खिला करनी थीं, वहाँ बोत दिखाकर,  
किस हड्डीका क्या नाम है, मास्टर मिखा रहा है !—और मैंने जो वह  
अन्तिम हँसी ओठोंपर खिलाई थी, उसका कोई चिह्न तुम्हें  
दिखाई दिया था क्या ?”

“कहानी कंसी लगी ?”

मैंने कहा—“बड़े मज़ेकी !”

इतनेमें कौआ बोल उठा। पूछा—“अभी हो क्या ?”

कुछ उत्तर न मिला।

घरके भीतर प्रभातका प्रकाश चमक उठा।

## मुक्तिका उपाय

[ ? ]

**फ** की ग्रन्थन्द वचपनसं ही गम्भीर प्रकृतिके आदमी थे।

बृद्ध-समाजमें वे हमेशा जँच जाते। ठंडा पानी, ओस और हँसी-मज़ाक उन्हें बिलकुल न सुहाता था। एक तो गम्भीर, फिर वर्षमें लगभग बारहो महीना मुखमण्डलके चारों तरफ़ काला उनका गुलूबन्द लपेटे रहते, जिससे वे बहुत ही ऊँचे दरजेके आदमी मालूम पड़ते। इसके अलावा, बहुत ही कम उमरमें उनके ओष्ठ-अधर और ठोट्ठी दाढ़ी-मूँछोंसे बहुत ज़्यादा ढक जानेके कारण तमाम मुँहपर ऐसा कोई स्थान ही न रह गया, जिसमेंसे हँसी निकलती।

स्त्री हेमवतीकी उमर कम है, और उसका मन पार्थिव विषयोंमें पूरी तरह लगा हुआ है। वह वंकिम बाबूके उपन्यास पढ़ना चाहती है, और पतिकी ठीक देवताके समान पूजा करके उसे तृप्ति नहीं होती। वह ज़ग हँसी-मज़ाक पसन्द करती है; और विकसोन्मुख पुण्य ज़ंसे

वायुके चलने और प्रभातके प्रकाशके लिये व्याकुल हो उठता है, वह भी उसी तरह इस नव-यौवनके समय पतिसे लाड़-प्यार और हँसी-मसाखरी पानेकी काफ़ी आशा रखती है। परन्तु पतिदेव उसे लूटी पाते ही 'भगवत्' पढ़ते, शामको 'भगवद्गीता' सुनाते, और उसकी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये बीच-बीचमें कभी-कभी शारीरिक शासन करनेमें भी कसर नहीं रखते। जिस दिन हैमवनीके तकियेके नीचेसे "कृष्णकान्तकी विल" निकली थी, उस दिन उस बैचारी लघुप्रकृति युवतीकी सारी गत आँसू बहाते थीती; तब कहाँ फकीरचन्दको तसली हुई। एक तो उपन्यास पढ़ना, आर मिर पतिदेवको धोखा देना ! कुछ भी हो, लगानार आदेश, अनुदेश, उपदेश तथा धर्मनीति और दण्डनीति-द्वाग अन्तमें हैमवनीके मुँहकी हँसी, मनके सुख और यौवनके आवेगको विलकुल निकाल बाहर करनेमें पतिदेवताने पूर्ण सफलता पाई थी।

परन्तु, अनासक्तोंके लिए संसारमें अनेक विनाहैं। एकके बाद एक, फकीरके एक लड़का और एक लड़की पेंदा हुई, जिससे गृहस्थीका बन्धन और भी बढ़ गया। पिताकी ताड़नासे इतने बड़े गम्भीर प्रकृति फकीरचन्दको भी आफिसोंमें नौकरीकी उम्मेदवारीमें घृमना पड़ा, परन्तु नौकरी मिलनेकी कोई भी सम्भावना नहीं दिखाई दी।

तब उसने सोचा कि बुद्धदेवकी तरह मैं भी गृहस्थी त्याग दूँगा। यह विचारकर एक दिन आधी गतको वह घर छोड़कर चल दिया।

[ २ ]

**बी** चमें और एक इतिहास कहना ज़रूरी है। नवग्राम-निवासी पश्चिमणके एक ही लड़का था। नाम था माखनलाल। विवाहके बाद जलदी कोई बाल-बच्चा न होनेके कारण पिताके अनुरोध और नवीनताके प्रलोभनसे उसने और एक विवाह कर लिया। इस विवाहके बाद उनके ब्रह्मशः दोनों स्त्रीसं सात लड़कियाँ और एक लड़का पैदा हुआ।

माखनलाल आदमी बड़े शौकीन और चंचल-प्रश्निके हैं, किसी भी नगहके भागी कर्तव्यके द्वारा अपनेको बन्धनमें डालना उन्हें कर्तव्य पसन्द नहीं। एक तो बाल-बच्चोंका भार, उसपर जब दो कर्णधार दोनों नगफसे ज़ोरांसे भोका मारने लगे, तब बिलकुल असह्य होनेसे उसने भी एक दिन आधी गतको ढुबकी लगाई।

बहुत दिनों तक उसका कोई पता ही नहीं चला। कभी-कभी सुननेमें आता कि एक व्याहमें केसा सुख है, इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसने काशीमें जाकर लुके-छिपे और एक व्याह कर लिया है; सुनते हैं, अभागेको कुछ शान्ति मिली है। सिर्फ देशके आस-पास आनेके लिये कभी-कभी उसका मन चलता है, पर पकड़े जानेके डरसे आ नहीं सकता।

[ ३ ]

**कुछ** दिन घूमता-फिरता उदासीन फकीरचन्द नवग्राममें आ पहुंचा। सड़कके किनारे एक बटवृक्षके नीचे आसन जमाकर एक गहरी

उसास लेकर कहने लगा—“अहा, वंगम्यमेवाभयं । दाग-पुत्र-धन-जन कोई भी किसीका नहीं । का ते कान्ता कस्ते पुत्रः”—कहते-कहते उसने एक गाना शुरू कर दिया ।—

“सुन रे सुन, ओ अवोध मन !

मुन साथुकी उक्ति कैसे होगी मुक्ति,

उसी मुयुक्तिको कर रे ग्रहण !

भवकी शुक्ति तोड़, मुक्ति-मुक्ताका कर रे अन्वेषण !

ओर ओ, भोला मन, भोला मन रे !”

सहसा गीत बन्द हो गया । “अरे, कौन हे वह ! पिता मालूम हीते हैं ! पता लगा लिया मालूम पढ़ता है ! अब तो बड़ी मुसोबतमें फैसे ! फिर उसी ग्रहस्थीके अन्धकूपमें खींच ले जायेंगे । औंहुंकु भागना पड़ेगा ।”

[ ४ ]

**फ**कीर झटपट पासके एक घरमें घुस गया । बृद्ध धरका मालिक चुपचाप बैठा हुआ हुक्का पी रहा था । फकीरको घरमें धैंसते देख पूछ बैठा—“कौन हो तुम ?”

फकीर—“बचा, मैं संन्यासी हूँ ।”

बृद्ध—“संन्यासी ! देखूँ, देखूँ बैटा, जरा उजालेमें देखूँ ।”

इतना कहकर बुड्ढा उसे उजालेमें खींच ले गया, और फकीरके मुहपर झुककर—बूढ़े आदमी जैसे बड़ी मुश्किलसे पोथी पढ़ने हैं, उस तरह—उसका मँह निरखना हुआ बडबडाने लगा ।

“यही तो है हमारा मक्खन ! वही नाक है, वही आँख हैं, सिर्फ माथे में कुछ फर्क आ गया है और उस चाँदसे मुँहपर दाढ़ी-मूँछें ला गई हैं।” कहते-कहते बूढ़ने फकीरके दहियल मुँह पर दो-एक बार हाथ फेरा, और बोला—“बेटा, मक्खन !”

कहना न होगा कि बूढ़ेका नाम पट्ठीचरण है।

फकीर बड़े चक्रमें पड़ गया, बोला—“मक्खन ! मेरा नाम तो मक्खन नहीं है ! पहले मेरा नाम कुछ भी क्यों न हो, अभी मेरा नाम चिदानन्द स्वामी है। तबीयत चाहे तो परमानन्द भी कह सकते हो !”

पश्ची—“बेटा, अब तुम अपनेको चिड़ा बताओ, चाहे परमानन्द तू है मेरा मक्खन ही, बेटा, तुझे तो मैं नहीं भूल सकता !—बेटा, तैने किस दुःखसे ग्रहस्थी त्याग दी ! तुझे किस आतकी कमी थी ! दो-दो स्त्री हैं ; बड़ीसे प्रेम न हो, छोटी तो है। लड़के-बालोंकी भी कमी नहीं। दुश्मनोंके मुँहपर गाख पड़े, तेरे सात लड़की हैं, एक लड़का है। और मैं बूढ़ा बाप हूँ, मैं कितने दिन और जीऊँगा, सब कुछ तेरा ही बना रहेगा !”

फकीर सहसा चौंक पड़ा, बोला—“कंसी मुसीबत है ! सुनते ही ढर लगता है !”

अब सारा माजरा उसकी समझमें आ गया। सोचने लगा, बुराई क्या है, दो-चार दिन बुड़देका पुत्र बनकर ही यहां छिपा रहूँ, उसके बाद पता न लगनेपर बाप जब चले जायँगे, तब यहांसे चलता बनंगा।

फकीरको चुपचाप देख, बुड्ढेके मनमें कोई सन्देह न रह गया । किसना नौकरको बुला कर कहा—“अरे ओ किसना, सबको जाकर कह तो आ, हमारा माखन लौट आया है ।”

[ ५ ]

**दे**खते-देखते आदमियोंसे घर भर गया । मुहल्लेके लगभग सभी लोगोंने कहा—वही तो है ; किसीने सन्देह भी प्रकट किया , पर विश्वास करनेके लिये लोग इतने व्यथ्र थे कि सन्दिग्ध लोगोंपर उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगा । मानो वे जान-बूझकर उनके गंगमें भंग डालने आये हों, मानो वे मुहल्लेके चौदह अक्षरके पायार छन्दको सत्रह अक्षरका बना बैठे हों, किसी भी तरह उनका संक्षेप हो जानेपर मुहल्लेके आदमियोंको आराम मिले ; वे न तो भूत मानते हैं, न औम्भाको बुलाते हैं ; ताज्जुबकी कहानी सुनकर जब कि सब दंग हो गये हैं, तब वे प्रश्न छेड़ते हैं ! इन लोगोंको एक तरहसे नास्तिक कहना चाहिये । अरे, तुम भूतपर विश्वास करो, चाहे मत करो, उससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं ; पर बूढ़े वापके खोये हुए लड़केपर भी विश्वास न करना, यह तो बड़ा हृदयहीनताका काम है । कुछ भी हो, सबकी जब डाँट लगी, तो संशयकारियोंका दल चुप हो गया ।

फकीरचन्द्रकी अति भीषण अटल गम्भीरतापर ज़रा भी ध्यान न देकर मुहल्लेके लोग उसे घेर बैठे, और लगे कहने—“आपकोह ! अब आप क्रृषि बन गये हैं, तपस्वी हो गये हैं ! हमेशासे तो यह-दोस्तोंमें

छनती रही, आज अचानक महामुनि जमदग्नि बन बैठे ! भई, क्या वात है !”

उन्नतचेता फकीरको यह वात बहुत ही बुरी लगी, पर क्या करता, सहनी पड़ी । एक आदमी विलकुल ऊपर आकर बैठ गया, बोला—“अरे मखना, तू तो विलकुल काला था रे, गोग कैसे हो गया ?”

फकीरने जवाब दिया—“योगाभ्याससे ।”

सबने कहा—“देखा, योगका कैसा प्रभाव है !”

एकने कहा—“इसमें आश्चर्य ही क्या ! शास्त्रमें लिखा है, भीमने जब हनूमानकी पूँछ पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, तो किसी भी तरह न उठा सके । यह कैसे हुआ ? वह भी तो योगबल था, भाई !”

यह वात सबको माननी पड़ी ।

इतनेमें पट्टीचरणने आकर फकीरसे ”कहा—“बंटा, एक बार घरके भीतर हो आओ ।”

अभी तक यह वात फकीरके मस्तिष्कमें उदित न हुई थी—सहसा विजली-सी माथेपर पड़ी । बहुत देर तक चुप रहकर, मुहल्लेवालोंके अनेक अनुचित हँसी-मज्जाओंको हजम करके, अन्तमें बोला—“बचा, मैं साधु हो चुका हूँ, अब मैं घरमें नहीं घुस सकता ।”

पट्टीचरणने मुहल्लेके लोगोंको सम्बोधन करके कहा—“तो ज़रा आप लोगोंको तकलीफ करनी होगी । बहू-बेटियोंको यहीं लिये आता हूँ । वे बड़ी व्याकुल हो रही हैं ।”

सब उठ गये । फकीर सोचने लगा, इसी मौकेपर मारूँ एक दौड़—यहाँसे भाग चलूँ । पर रास्तेमें जाते ही मुहल्लेके लोग

कुत्तेकी तरह पीछा करेंगे, यह सोचकर बेचारेको बेबसीसे वहाँ बैठा रहना पड़ा ।

ज्यों ही माखनलालकी दोनों स्त्रियोंने प्रवेश किया, यों ही फकीरने उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार करके कहा—“माता, मैं तुम लोगोंकी सन्तान हूँ ।”

उसी क्षणमें फकीरकी नाकके आगे खड़ुआ-पहने हुए एक हाथ खड़गकी तरह खेल गया, और फूट काँसेकी तरह एक आवाज उठी—“अरे ओ, मुँहजले लोगटा, तैने माँ किससे कहा !”

साथ ही और एक कण्ठने, और भी दो स्वर ऊँचे, मुहल्लेको कँपाते हुए गरजकर कहा—“तेरी फूट गई क्या ! दीखता नहीं ! तुझे मौत भी नहीं आती !”

अपनी स्त्रीके मुँहसे ऐसी मुहावरेकी भाषा सुननेका वह आदी न था, इसलिए अत्यन्त दीनतासे फकीरने हाथ जोड़कर कहा—“आप लोग गलत समझी हैं ! चलिये, मैं उजालेमें खड़ा होता हूँ, जरा मुझे पहचानिये तो सही, मैं कौन हूँ !”

पहली और दूसरीने पारी-पारीसे कहा—“बहुत देख चुकी हूँ ! देखते-देखते आँखें घिस गई हैं । तुम नन्हेंसे लहशा नहीं हो, आज नये पैंदा नहीं हुए हो । तुम्हारे दूधके दाँत टूटे जमाना गुजर चुका । अरे, तुझे मौत भूल गई है, तो क्या मैं भी भूल जाऊँगी !”

ऐसी इकतरफा दाम्पत्य-वार्ता कव तक चलती, नहीं कह सकते ; कारण फकीर बिलकुल वाक्‌शक्ति-रहित होकर सिर झुकाये खड़ा था ।

इतनेमें अत्यन्त कोलाहल सुनकर, और सड़कपर भीड़ जमते देख घट्टीचरणने घरमें प्रवेश किया ।

बोले—“इतने दिनों तक हमारे घरमें सन्नाटा बीत रहा था, बिलकुल सन्नाटा रहता था । आज मालूम होता है कि माखन हमारा लौट आया !”

फकीरने हाथ जोड़कर कहा—“महाशयजी, अपनी पुत्रबधुओंके हाथसे मुझे बचाइये !”

घट्टी—“बेटा, बहुत दिन पीछे आये हो, इसीसे जरा असह्य मालूम पड़ता है । अच्छा, बेटी, तुम लोग अभी जाओ ! बेटा माखन तो अभी यहीं है, उसे अब किसी भी तरह नहीं जाने दूँगा ।”

दोनों ललनाएँ विदा हो गईं । फकीरने कहा—“महाशयजी, आपका पुत्र क्यों गृहस्थी छोड़ गया है, इसका मैंने पूरा-पूरा अनुभव कर लिया है । आप मेरा प्रणाम लीजिए, मैं चला ।”

बूढ़ेने ऐसी ज़ोरसे रोना शुरू किया कि मुहल्लेके तमाम लोग समझ बैठे, माखनने बापको पीटा है । वे ‘हैं-हैं’ करते हुए दौड़े आये । सबने आकर फकीरको चेता दिया—“ऐसा पाखण्ड यहाँ नहीं चल सकता । भले आदमीकी तरह रहना होगा ।” एकने कहा—“थे परम हंस थोड़े ही हैं, परम बक हैं, बक !—बगुला-भगत !”

गम्भीरता, दाढ़ी-मूँछ और गुल्बन्दके ज़ोरसे फकीरको ऐसी बुरी-भली कभी न सुननी पड़ी थीं । खैर, कुछ भी हो, फिर कहीं भाग न जाय, इस आशंकासे मुहल्लेके लोग चौकन्ने रहे । स्वयं ज़मीदारने घट्टीचरणका पक्ष लिया ।

[ ६ ]

**फ**कीरने देखा, ऐसा कड़ा पहरा बैठा है कि बिना मरे वहाँसे निकलना ही मुश्किल है ! वह अकेला घरमें बैठा हुआ गीत गाने लगा :—

“युक्ति सुन साधूकी रे, बचेगा कैसे भव-बन्धनसे,  
सुनके युक्ति ग्रहण कर उसको, मनमें हो निश्चिन्त ।”—

कहना न होगा कि इस गीतका आध्यात्मिक अर्थ क्षीण हो चला है ।

ऐसे तो किसी तरह दिन कट भी रहे थे । इतनेमें एक आफत और आ पड़ी,—माखनके आनेकी ख़बर पाते ही दोनों खियोंके मायकेसे साले और सालियोंका एक झंड और आ पहुंचा ।

आनेके साथ उन लोगोंने सबसे पहले फकीरकी दाढ़ी-मूँछ नोचना शुरू किया, कहने लगीं—“यह तो सचमुचकी दाढ़ी-मूँछ नहीं हैं, भेष बदलनेके लिए गोंदसे चुपका ली हैं ।”

नाकके नीचेकी मूँछ पकड़कर लगी खींचने । अब तो बंचारे फकीरचन्द जैसे अत्यन्त महान् पुरुषके लिए अपने माहात्म्यकी रक्षा करना कठिन हो उठा । इसके सिवा कानोंपर भी काफ़ी आफत थी ; एक तो मलकर, दूसरे ऐसी-ऐसी भाषाओंका प्रयोगकर कि जिसके सुननेसे बिना मले ही कान लाल हो उठें ।

इसके बाद उन लोगोंने फकीरको ऐसे-ऐसे गीतोंके नमूने सुनाये कि आधुनिक बड़े-बड़े नये पण्डित भी उनकी आध्यात्मिक व्याख्या

करनेमें हार मान जायँ । सोते बक्त बेचारेके गालोंपर स्थाही और चूना पोत दिया गया । खाते बक्त कसालके बदले घुइयाँ, नारियलके पानीके बदले हुक्काका पानी, दूधके बदले पिठीके धोवन देनेकी तैयारियाँ की गईं ; पटाके नीचे सुपारी रखकर मज़ेकी पटक खिलाई, पूँछ बनाई, और सँकड़ों प्रचलित तरकीबोंसे फकीरकी अभ्रमेदी गम्भीरताकी अच्छी तरह मग्मत की गई ।

फकीरचन्द गुस्सेमें आकर, लाल-पीला होकर, भुंभलाकर, चिलाकर किसी भी तरह उपद्रवकाशियोंके मनमें भयका संचार नहीं कर सका । उलटा सबोंके सामने भोंदू बुद्धू बनाया गया । इसके सिवा दरवाजेकी ओटमेंसे एक मीठे गलेकी कहकहादार हँसी कभी-कभी उसके कानोंमें पड़ती ; वह कुछ परिचित-सी मालूम देती, उससे मन और भी दूना अधीर हो उठता ।

परिचित कण्ठस्वर पाठकोंसे छिपा नहीं है । इतना कह देना काफ़ी होगा कि पष्ठीचरण किसी नातेसे हैमवतीके मामा लगते हैं । ब्याहके बाद साससे बहुत तंग आकर पितृमातृ-हीन हैमवती कभी-कभी किसी-न-किसी नातेदारके यहाँ आकर आश्रय लेती । बहुत दिनों बाद वह अपने मामाके यहाँ आकर नेपथ्यसे इस परम कोतूहलपूर्ण अभिनयको देख रही थी । उस समय हैमवतीमें स्वाभाविक रंग-प्रियताके साथ-साथ प्रतिहिंसा-प्रवृत्तिका उद्देक हुआ था : या नहीं, इस बातको तो चरितत्वज्ञ विद्वान् ही समझ सकते हैं—हमारी समझसे बाहर है ।

जिनके साथ हँसी-मस्तकीका रिश्ता था, वे तो बीच-बीचमें दम

भी ले लेते थे, पर जिनसे स्नेहका नाता है, उनसे ह्रुटकारा पाना कठिन है। सात-सात लड़कियों और एक लड़केने उसके नाको दम कर दिया—एक क्षणके लिए भी छोड़ना किसे कहते हैं। बापके स्नेहपर दखल करनेके लिए उनकी माताओंने उन्हें बड़ी कड़ाईके साथ नियुक्त कर रखा था। दोनों माताओंमें भी अनबन खूब थी, दोनों ही इस कोशिशमें थीं कि मेरे बच्चे इयादा प्यार पावें। दोनों ही अपनी-अपनी सन्तानोंको सर्वदा उत्तेजित किये रहतीं—दोनों दल मिलकर पिताकी गरदनसे लिपटते, गोदमें बैठते, मुँह चूमते। इस तरह दोनों दल इस प्रबल स्नेह व्यक्त करनेके कार्यमें एक दूसरेको जीतनेकी कोशिश करने लगे।

यह तो कहनेकी ज़रूरत ही नहीं कि फकीर बेचारा अत्यन्त निर्लिपि-स्वभाव है, नहीं तो अपने बाल-बच्चोंको छोड़कर क्यों आता; और बच्चे भक्ति करना जानते नहीं, उन्होंने साध्युत्त्वपर मुग्ध होना सीखा ही नहीं, इसलिए फकीरकी शिशु-जातिपर तिलमात्र भी अनुरक्ति न थी, उन्हें वे कीट-पतंगोंकी तरह शरीरसे दूर ही रखना चाहते थे। फिलहाल वे प्रतिक्षण शिशु-पंगापालोंसे आच्छन्न हो कर शुरूसे आखीर तक आँख-फोड़ बर्जेस टाइपके छोटे-बड़े फुटनोटोंसे भरे हुए ऐतिहासिक निबन्धकी तरह शोभायमान हुए। उनमें उमरका काफ़ी तारतम्य था, और वे सब उनके साथ प्रौढ़ सम्य-जनोचित व्यवहार न करते थे; शुद्ध पवित्र फकीरकी आँखोंमें बहुधा आँसुओंका संचार हाता, और इसमें सन्देह नहीं कि वे आनन्दाश्रु नहीं होते थे।

दूसरेके बच्चे जब अनेक स्वरोंमें उन्हें “कक्कू, कक्कू” कहकर प्यार

करते, तब उनका पाश्विक शक्ति प्रयोग करनेको जी चाहता, पर डरसे कर नहीं सकते। मुँह और आँखें विकृत करके चुपचाप बैठे रहते।

अन्तमें फकीरने बड़े जोरसे हङ्गा मचाकर कहा—“मैं तो जाऊँगा ही, देखूँ मुझे कौन रोके रखता है!”

तब गांवके लोगोंने एक वकील लाकर खड़ा कर दिया। वकीलने आकर कहा—“जानते हैं, आपके दो स्त्रियाँ हैं!”

फकीर—“जी, यहीं आकर पहले-पहल मालूम हुआ।”

वकील—“अपने इस बड़े परिवारके भरण-पोषणका भार अगर आप न लेंगे, तो आपकी इन अनाथिनी दोनों स्त्रियोंको अदालतकी शरण लेनी पड़ेगी, पहलेसे कहे देता हूँ।”

फकीरको सबसे ज्यादा डर था, तो बस अदालतका ही। यह बात उसे मालूम थी कि वकील लोग जिरह करते ‘वक्त्’ महापुरुषोंकी मान-मर्यादा और गाम्भीर्यका जरा भी ख़याल नहीं करते—खुले आम अपमानित करते हैं और अखबारोंमें उसकी रिपोर्ट छपा देते हैं। फकीरने डबडबाती हुई आँखोंसे वकीलको विस्तृत आत्म-परिचय देनेकी कोशिश की—वकीलने उसकी चालाकी, हाज़िर-जवाबी और झूठी बनावटी बातें बनानेकी असाधारण क्षमताकी भूरिभूरि प्रशंसा की। सुनकर फकीरको अपने हाथ-पैर नोंच खानेकी इच्छा होने लगी।

षष्ठीचरण फकीरको फिर भागनेके लिए तैयार देखकर मारे शोकके अधीर हो उठे। मुहल्लेके लोग उसे चारों तरफसे घेरकर गाली-गलौज करने लगे; और वकील साहबने उसे ऐसा धमकाया कि बेचारेका सारा उत्साह पस्त हो गया—मुहका बोल बन्द हो गया।

इसके बाद जब आठों बजे ने मिलकर गाढ़े स्नेहके साथ चारों तरफसे चुपटकर उसका दम बन्द कर दिया, तब ओटमें खड़ी हुई हैमवती हँसे या रोवे, कुछ निश्चय नहीं कर सकी ।

फकीरने तंग आकर, और कोई चारा न देख, इसी बीचमें पिताको एक चिट्ठी डाल दी थी, जिसमें सब हाल साफ-साफ लिखा था । उस चिट्ठीको पाकर फकीरके पिता हरिचण्ड वाबू भी आ पहुंचे । मुहल्लेके लोग ज़मींदार और बकील किसी भी तरह दखल नहीं छोड़ना चाहते ।

यह फकीर नहीं है, माखन ही है, इस बातके उन लोगोंने हजारों अकाल्य प्रमाण पेश किये—यहां तक कि जिस दाईने माखनको पाल-पोसकर बढ़ा किया था, उस बुढ़ियाको भी पकड़ लाये । वह भी अपने काँपते हुए हाथसे फकीरकी ठोट्ठी उठाकर, मुंहको अच्छी तरह देखभाल कर, उसकी दाढ़ीपर आँसू टपकाने लगी ।

जब देखा कि इतनेपर भी फकीर बसमें नहीं आता, तब धूँधट निकालकर दोनों स्थियां आकर उपस्थित हुईं । मुहल्लेके लोग शरमके मारे उठकर बाहर चले गये । रह गये सिर्फ दोनों बाप, फकीर और बच्चे ।

दोनों स्थियोंने हाथ हिलाकर फकीरसे पूछा—“किस भाड़में, यमराजके किस द्वारपर जाना चाहता है, कलमुँहे !”

फकीर इसका ठीक-ठीक जवाब न दे सका, इसलिए चुपचाप बैठा रहा, परन्तु चेहरेको देखकर तो यही अनुमान हुआ कि यमके किसी विशेष द्वारके प्रति उसका विशेष पक्षपात या अनुराग नहीं है;

फिलहाल किसी भी एक द्वारकी उसे शरण मिल जाय, तो उसके प्राण बच जायें । सिर्फ एक बार इस व्यूहसे किसी तरह निकल-भर जाय ।

इतनेमें एक तीसरी गमणी-मूर्निने घरमें प्रवेश कर फकीरको प्रणाम किया ।

फकीर पहले तो चकित हो गया, फिर आनन्दके मारे खुशीसे उछलकर बोला—“अरे, यह तो हैमवती ही है !”

अपनी या दूसरेकी स्त्रीको देखकर इतना प्रेम उसकी आँखोंमें इससे पहले आज तक कभी न दिखाई दिया था । मालूम हुआ, मूर्निमती मुक्तिने स्वयं आकर दर्शन दिये हैं ।

×            ×            ×            ×

और एक आदमी मुंहपर दुशाला डाले छिपकर सब देख रहा था । उसका नाम है माखनलाल । एक अपरिचित निरीह व्यक्तिको अपने पदपर अभिप्रक्त देखकर वह अब तक परम सुखानुभव कर रहा था ; अन्तमें जब हैमवतीको उपस्थित देखकर समझा कि उक्त निरपगाधी व्यक्ति उसका खास बहनोई है, तब उसके चित्तमें दया आ गई, घरमें घुसकर बोला—“ज़-हुँ:क्, अपने ही आदमीको इस तरह विपत्तिमें डालना महापातक है ।” अपनी दोनों स्त्रियोंको ओर उँगलीसे इशारा करता हुआ बोला—“ये मेरी ही रस्सी हैं, मेरी ही गागर ।”\*

माखनलालके इस असाधारण महत्व और वीरतासे मुहल्लेके लोग दंग रह गये ।

(चैत्र, १९४८)

---

\* बंगालमें ये दो चीजें आत्म-हत्याके लिए प्रसिद्ध हैं । आत्म-हत्या करनेवाले गलेमें रस्सी और गागर बांधकर पानीमें डूब मरते हैं ।

## त्याग

### पहला परिच्छेद

**फा**गुनकी पूर्णिमा है। आमके बौरोंकी सुगन्ध लेकर नव वसन्तको पवन चल रही है। तालाबके किनारे एक पुराने लीचीके पेड़के घने पत्तों में से किसी निद्राहीन अश्रान्त परीहेंकी तान मुखर्जियोंके घरके एक निद्राहीन शयनगृहमें प्रवेश कर रही है। हमन्त कुछ चंचलताके साथ कभी तो अपनो स्त्रीके बँधे हुए सिरके बालोंमेंसे थोड़ेसे बाल खोलकर अपनी उंगलियोंमें लपेटता है, कभी उसके कड़े और चूड़ियोंमें भिड़न्त कगाकर टन-टन आवाज़ करता है, और कभी उसके जूँड़में लिपटी हुई फूलकी मालाको उतारकर उसके मुँहपर रख देता है। सन्ध्या-समयके निस्तब्ध फूलके पौधेको सचेत करनेके लिये पवन जैसे एक बार इधरसे और एक बार उधरसे ज़ग-ज़ग हिला-डुला देता है, हमन्तकी भी कुछ-कुछ वैसी ही हालत थी।

परन्तु कुमुम सामनेके चन्द्रमाकी चाँदनीमें वहते हुए शून्यकी ओर दोनों आँखें गड़ाकर चुपचाप बैठी है। पतिका चाचल्य उसे छूकर टकराकर पीछे लौट जाता है। अन्तमें हेमन्तने कुछ अधीरतासे कुमुमके दोनों हाथ पकड़कर भक्तमोर डाले, बोला—“कुमुम, कहां हो तुम ? तुम तो इतनी दूर पहुंच गई हो कि दूरबीनसे बड़े गौरके साथ देखनेपर बड़ी मुश्किलसे कही बृंद-सी दिखाई पड़ती हो। मेरी बड़ी इच्छा है, आज तुम ज़रा पास आ जाओ। देखो तो सही, कैसी मुहावनी रात है !”

कुमुमने शून्यकी ओरसे हृषि हटाकर हेमन्तकी ओर मुँह कर लेया, बोली—“यह चाँदनी रात, यह वसन्तकी पवन, इसी क्षणमें मिथ्या होकर नष्ट-भ्रष्ट हो सकती है, मैं एक ऐसा मन्त्र जानती हूँ।”

हेमन्तने कहा—“यदि जानती हो, तो उसे उच्चारण करनेकी ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसा अगर कोई मन्त्र याद हो कि जिससे सप्ताहमें तीन-चार इतवार पड़ें, या रात शामके पाँच-साढ़े-पाँच बजे तक ठहर सके, तो उसे सुननेके लिए मैं तैयार हूँ।” कहते हुए उसने कुमुमको और भी अपनी ओर खींचना चाहा। कुमुम उस आलिंगन-पाशमें पकड़ाई न दी, कहने लगी—“मरते वक्त मैं जो बात तुमसे कहना चाहती थी, उसे आज ही कहनेको जी चाहता है। आज मालूम होता है कि तुम मुझे कितनी ही सज्जा क्यों न दो, मैं उसे बड़ी खुशीसे बरदाश्त कर सकूँगी।”

सज्जाके बारेमें ‘जयदेव’का एक श्लोक सुनाकर हेमन्त रसिकता करनेकी कोशिश कर रहा था। इतनेमें मालूम पड़ा कि गुस्सेसे आते

हुए किसीके स्त्रीपरकी चट-चट आवाज़ क्रमशः निकटवर्ती हो रही है। यह हेमन्तके पिता हरिहर मुखजींके आनेका परिचित पद-शब्द था। हेमन्त घबरा-सा गया।

हरिहरने दरवाज़ेके पास आकर कोधसे गरजते हुए कहा—“हेमन्त, बहूको अभी तुग्न्त ही घरसे निकाल बाहर करो।” हेमन्तने स्त्रीके मुंहको ओर देखा, खोने कुछ भी आश्वर्य प्रकट नहीं किया। सिर्फ दोनों हाथोंसे अपना मुंह छिपाकर अपनी सारी शक्ति और इच्छासे अपनेको मानो लुप्त कर देनेकी कोशिश करने लगी। दखिनी हवाके साथ पपीहेकी मीठी तान घरमें प्रवेश करने लगी, किसीके कानों तक न पहुंची। दुनियाँ ऐसी असीम सुन्दर है, परं फिर भी इतनी जलदी विकल हो जाती है।

### दूसरा परिच्छेद

**हे**मन्तने बाहरसे लौटकर स्त्रीसे पूछा—“क्यों, यह बात सच है?” स्त्रीने कहा—“हाँ, सच है।”

“इतने दिनोंसे कही क्यों नहीं थी?”

“बहुत दफे कहनेकी कोशिश की है, पर कह नहीं सकी हूँ। मैं बड़ी पापिन हूँ।”

“तो आज सब खोलकर कह दो।”

कुमुमने गम्भीरताके साथ दृढ़ स्वरसे सब हाल कह सुनाया—मानो वह अटल चरणोंसे धीर गतिसे प्रज्ज्वलित अग्निके भीतर होकर

निकल गई ; कितनी जलती थी, कोई न समझ सका । सब सुनकर हेमन्त उठकर चल दिया ।

कुमुमने समझा कि जो प्राणनाथ चले गये, उन्हें अब वह पा नहीं सकती । कुछ भी आश्रये न मालूम हुआ ; यह घटना भी मानो और-और दैनिक घटनाओंकी तरह बहुत ही स्वाभाविक भावसे उसके सामने आ खड़ी हुई ; मनके भीतर ऐसे ही एक सूखे सन्नाटेका संचार हुआ है । बार-बार उसे दुनियाँ और प्रेम शुद्धसे लेकर आखिर तक झूठा और शून्य मालूम देने लगा । हेमन्तके अतीत प्रेमकी सारी वातें याद करके अत्यन्त नीरस कठिन निरानन्द हँसी एक पैनी नितुर लुरीकी तरह उसके मनपर एक किनारेसे दूसरे किनारे तक दाग कर गई । शायद उसने सोचा कि जिस प्रेमको वह इतना समझती थी, इतना आदर, इतनी धनिप्रता—जिसका पल-भरका विच्छेद ऐसा मर्मान्तिक था, जिसका क्षण-भरका मिलन ऐसा निविड़ान्दमय था, जो असीम अनन्त जान पड़ता था, जन्म-जन्मातरमें भी जिसके अन्तकी कल्पना नहीं कर सकती थी—वही प्रेम है यह ! वस, इतनी-सी नींवपर खड़ा था वह ! समाजने ज्यों ही जग चोट पहुंचाई कि चटसे वह असीम अनन्त प्रेम टूक-टूक होकर एक मुड़ी धूल बन गया ! हेमन्त अभी तुरन्त, कुछ देर पहले, कम्पित कण्ठोंसे कानोंके पास कह रहा था—“कैसी सुहावनी रात है !” वह रात तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, अब भी वही पपीहा बोल रहा है, वही दखिनी हवा मशहरीको कँपा जाती है, वही चाँदनी सुख-आनंद सुम सुन्दरीकी तरह खिड़कीके पासके पलंगके एक

किनारेंसे मिलकर पड़ी हुई है। सब कुछ मिथ्या है ! प्रेम सुझसे भी ज्यादा मिथ्यावादी है—मिथ्याचारी है !

### तीसरा परिच्छेद

**दूसरे** दिन सुवह ही अनिद्रासे शुष्क हेमन्त पागलकी तरह प्यारीशंकर घोपालके घर पहुंचा । प्यारीशंकरने पूछा—“कहो भई हेम, क्या खबर है !”

हेमन्तने मुनो बड़ी-भारी एक आगकी तरह खूब ऊँची लौसं जलते हुए काँपते-काँपते कहा—“तुमने हमारी जाति नष्ट की है—सर्वनाशं किया है—तुम्हें इसकी सज्जा भुगतनी पड़ेगी ।”—कहते-कहते उसका गला भर आया, कंठ रुक गया ।

प्यारीशंकरने जग मुसकिगते हुए कहा—“और तुम लोगोंने हमारी जातिकी रक्षा की है, हमारे समाजकी रक्षा की है, हमारी पीठपर हाथ फेरा है ! हमपर तुम लोगोंकी बड़ी महरवानी है, बड़ा प्रेम है, क्यों ?”

हेमन्तने तो चाहा था उसी क्षणमें प्यारीशंकरको भस्म कर देना, परन्तु उस तेजसे वह खुद ही जलने लगा ; प्यारीशंकर बड़े मज़ेमें ज्यों-का-त्यों तन्दुरुस्त बैठा रहा ।

हेमन्तने भर्दई हुई आवाजमें कहा—“मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था ?”

प्यारीशंकरने कहा—“मैं पूछता हूं, मेरी एक लड़कीके सिवा

दूसरी सन्तान नहीं, मेरी उस लड़कीने तुम्हारे बापका क्या अपराध किया था ! तुम तब छोटे थे, बच्चे थे, इसके भीतर बड़े-बड़े गुल हैं, खिलेंगे तब देखना ।”

“मेरा दामाद नवकान्त जब मेरी लड़कीके गहने चुगाकर विलायत भाग गया, तब तुम बच्चे थे । उसके बाद, पाँच वर्ष पीछे जब वह बैरिस्टर होकर देशको लौटा, तब मुहल्लेमें सनसना फैल गई, शायद तुम्हें कुछ-कुछ याद हो, या तुम्हें नहीं भी याद हो, तुम तब कलकत्तेके स्कूलमें पढ़ते थे । तुम्हारे बापने गाँवके सरपंच बनकर कहा कि ‘लड़कीको अगर दामादके यहाँ भेजनेका इरादा हो, तो भेज दो, उसे फिर अपने घर नहीं ला सकते ।’ मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर छुए, मिज्रत की,—‘भइया इस बार तुम मेरी रक्खा करो । मैंने लड़केको गोबर खिलाकर प्रायश्चित्त कराया है, आप लोग उसे जातिमें ले लीजिए ।’ तुम्हारे बाप किसी भी तरह राजी न हुए, मैं भी अपनी इकलौती बिटियाको न छोड़ सका । जाति छोड़कर, देश छोड़कर, कलकत्तेमें आकर रहा । यहाँ आकर भी पिण्ड न छूटा । अपने भतीजेकी ब्याहकी पूरी तैयारियाँ कर चुका, तो तुन्हारे बापने जाकर लड़की-बालोंको ऐसा उत्तेजित कर दिया कि आखिर ब्याह हुआ ही नहीं । मैंने प्रतिज्ञा की कि अगर इसका बदला न ले लूँ, तो ब्राह्मणकी पैदायश नहीं ।—अब शायद कुछ-कुछ समझ गये होगे—पर थोड़ीसी और सुन लो,—सारी बातें सुनकर तुम खुश हो जाओगे—इसके अन्दर एक रस है ।”

“तुम जब कालेजमें पढ़ते थे, तुम्हारे घरके पास ही विप्रदास

चटर्जीका मकान था। बेचाग बड़ा भला-मानस था, अब मर चुका है। चटर्जी महाशयके मकानमें कुमुम नामकी एक वाल-विधवा अनाथा कायस्थकी लड़की आश्रित रूपमें रहती थी। लड़की बड़ी सुन्दर थी—बेचाग वृद्धा ब्राह्मण कालेजके लड़कोंकी निगाहसे उसे बचाये रखनेके लिए ज़रा दुश्मिन्ताप्रस्त हो गया था, पर वृद्धे आदमीको चकमा देना एक लड़कीके लिए मामूली बात थी। लड़की अक्सर कपड़े सुखानेके लिए छतपर जाया करती, और तुम्हें भी शायद छतपर बिना गये पाठ याद न होता था। आपसमें दोनोंकी छत परसे कोई बातचीत होती थी या नहीं, यह तुम्हीं जानो, पर लड़कीके रंग-ढंग देखकर वृद्धको सन्देह हुआ; क्योंकि काम-धन्धेमें उसकी अक्सर भूले पाई जाती, और तपस्त्रिनी गौरीकी तरह वह दिनों-दिन आहार छोड़ने लगी। किसी-किसी दिन सन्ध्याके समय वह वृद्धेके सामने ही अकारण आँखुओंको नहीं गेक सकती थी।”

“आखिर वृद्धने आविष्कार किया कि छतपर तुम दोनोंकी बक्तु बे-बक्तु नीरव भेट-मुलाकात हुआ करती हैं। यहाँ तक कि तुम कालेजमें गैरहाजिरी करके दोपहरको छतके एक कोनेमें ज़ीनेकी छायामें बैठकर किताबके पन्ने उलटा करते थे; एकान्त अध्ययनमें सहसा तुम्हाग इतना उत्साह बढ़ गया था। विप्रदास जब मेरे पास सलाह लेने आया, तो मैंने कहा—चचा, तुम तो काशीजी जानेकी सोच रहे थे, लड़कीको मेरे पास छोड़कर तुम तीर्थ-वास करने चले जाओ, मैं उसका भार अपने ऊपर लेता हूँ।”

“विप्रदास तीर्थ करने गया। मैंने उस लड़कीको श्रीपति

चटर्जीके घर रखकर उम्मे ही लड़कीका वाप प्रसिद्ध कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, तुम जानते ही हो। तुमसे शुरूसे अन्त तक सब बातें कहनेमें बड़ा आनन्द आया। जैसे कोई कहानी हो। तबीयत तो है कि इसे पूरी लिखकर एक किताब छपाऊँ, पर मुझे लिखना नहीं आता। मेरा भतीजा, सुनता हूँ, थोड़ा-बहुत लिखा करता है—उसीसे लिखानेकी इच्छा है। पर तुम और वह दोनों मिलकर लिखो, तो सबसे अच्छा हो, क्योंकि कहानीका उपसंहार मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं।”

हेमन्तने प्यागीशंकरकी इन अन्तकी बातोंपर विशेष ध्यान न दिया, बोला—“कुमुमने इस विवाहमें कोई आपत्ति नहीं की ?”

प्यागीशंकरने कहा—“आपत्ति थी या नहीं, समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जानते हो, बेटा, औरतोंका मन ठहरा ; जब ‘ना’ कहें, तो ‘हाँ’ समझना चाहिए। पहले-पहल तो नये मकानमें आकर तुम्हें न देख सकनेके कारण कैसी पगली-सी हो गई। तुमने भी, देखूँ तो, न-जाने कैसे पता लगा ही लिया, अकसर किताबें हाथमें लिए कालेज जाते समय गस्ता भूल जाया करते—और श्रीपतिके मकानके सामने न जाने क्या ढूँढ़ा करते ;—ठीक प्रेसिडेन्सी कालेजका गस्ता ढूँढ़ते हो, ऐसा तो नहीं जान पड़ता था, कारण किसी भले-आदमीके घरके जंगलेसे मिर्फ़ कीट-पतंगों और उन्मत्त युवकोंके हृदयके लिए ही गस्ता हुआ करता है। देख-सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। देखा, तुम्हारी पढ़ाईमें बहुत हर्ज़ हो रहा है और लड़कीकी अवस्था भी संकटापन्न है।”

“एक दिन कुमुमको बुलाकर मैंने कहा—बिटिया, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझसे शगमानेकी ज़खरत नहीं—‘तू जिसे मन-ही-मन चाहती है, मैं जानता हूं। लड़का भी मिट्ठी हुआ जा रहा है। मेरी इच्छा है, दोनोंका मेल हो जाय।’ सुनते ही कुमुम सहमा लाती फाड़कर रो उठी और तेज़ीसे भाग गई। इसी तरह अकसर कभी-कभी शामको श्रीपतिके घर जाकर कुमुमको बुलाता और उससे तुम्हारा ज़िकर कर-करके लज्जा छुटाता। अन्तमें उसकी शगम छूट गई; और प्रतिदिनकी क्रमिक आलोचना द्वारा मैंने उसे समझा दिया कि व्याहके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसके अलावा मिलनका कोई मार्ग नहीं। कुमुमने कहा—‘किस तरह होगा?’ मैंने कहा—‘कुलीनकी कन्या बनाकर चला दूँगा।’ बहुत तर्क-वितर्कके बाद उसने तुम्हारी सम्मति जानेनी चाही। मैंने कहा—‘वह तो वैसे ही पगला-सा हो रहा है, उससे ये सब गड़बड़ीकी बातें करनेसे फायदा? बिना आपत्तिके शान्तिसे काम हो जाना ही दोनोंके लिए अच्छा है। खासकर जब कि इस बातके खुल जानेका कोई ढर नहीं, तो फिर खामखाह क्यों उस बंचारेको ज़िन्दगी-भगके लिए परेशानीमें डाला जाय।’

“कुमुम क्या समझी, क्या नहीं समझी, मैं कुछ न समझ सका। कभी रोती, कभी चुपकी बैठी रहती। अन्तमें मैं जब कहता—‘तो जाने दे’, तो फिर वह अधीर हो उठती। ऐसी दशामें श्रीपतिके ज़रिये तुम्हारे पास व्याहका प्रस्ताव भिजवाया। देखा, सम्मति देनेमें तुमने ज़रा भी देर न लगाई। तब व्याहकी बात पक्की हो गई।”

“विवाहसे कुछ पहले कुमुम ऐसी विद्युगी कि बटोरना दुश्वार हो गया। वह परें पड़ने लगी, बोली—‘नहीं ताऊजी, ऐसा मत करो।’ मैंने कहा—‘कैसी पगली हो गई है, सब कुछ तैं हो चुका है, अब कैसे बात लौटाई जा सकती है।’ कुमुम बोली—‘तुम जाहिर कर दो कि सहसा उसकी मौत हो गई है और यहाँसे कहाँको रवाना कर दो।’ मैंने कहा—‘उस लड़केकी क्या दशा होगी ! उसकी बहुत दिनोंकी आशा कल पूर्ण होगी, यह जानकर वह स्वर्गमें बैठा हुआ है। आज मैं सहसा उसके पास तुम्हारे मरनेकी खबर पहुंचा दूँ ! और उसके दूसरे ही दिन तुम्हारे पास उसके मरनेस्ती खबर पहुंचानी पड़ेगी, और फिर उसी दिन शामको मेरे पास तुम्हारे मर जानेका समाचार आवेगा ! मैं क्या इस बुढ़ौनीमें स्त्री-हत्या और ब्रह्म-हत्या कराने बैठा हूँ !’

“उसके बाद, शुभ लग्नमें शुभ विवाह सम्पन्न हो गया—मैं अपने एक कर्तव्यके दायित्वसे मुक्त हुआ। फिर क्या हुआ, सो तुम जानते ही हो।”

हेमन्तने कहा—“हम लोगोंका जो कुछ करना था, सो तो आप कर चुके थे, फिर इस बातको जाहिर क्यों किया ?”

प्यारीशंकरने कहा—“देखा कि तुम्हारी छोटी बहनके ब्याहकी बातचीत सब पक्की हो चुकी है। तब मन-ही-मन सोचने लगा, एक ब्राह्मणकी जाति तो बिगड़ चुकी है, पर वह तो सिर्फ़ कर्तव्य समझकर। अब जो दूसरे एक ब्राह्मणकी जाति जा रही है, उसमें मेरा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करूँ, इसीलिए उन लोगोंको चिट्ठी

लिख दी। लिख दिया कि हेमन्तने शूद्रकी कन्याके साथ विवाह किया है, इसका मेरे पास सबूत है।”

हेमन्तने बड़ी मुश्किलसे धीरज धरकर कहा—“अब मैं जो इस लड़कीको छोड़ दूँगा, इसकी दशा क्या होगी ? आप उसे आश्रय देंगे ?”

प्यारीशंकरने कहा—“मेरा जो काम था, सो मैं कर चुका, अब दूसरेकी छोड़ी हुई स्त्रीका पोषण करना मेरा कर्तव्य नहीं।—अरे, कोई है, हेमन्त बाबूके लिए ज़रा वरफ डालकर एक गिलास डाबका (कच्चे नारियलका) पानी ले आ, और पान भी लेते आना।”

हेमन्त इस सुशीतल आतिश्यकी प्रतीक्षा किये बिना ही, तुरन्त ही वहाँसे चल दिया।

### नौवा परिचयद

**कृष्णपक्षकी** पंचमी है। अँधेरी गत है। चिड़िया चुहचुहाती नहीं हैं। नालाबके किनारेके लीचीके पेढ़ने मानो काले चित्रपटपर गहरी स्याहीका-सा लेप कर दिया हो। सिर्फ दमिखनी हवा इस अन्धकारमें अन्धेकी तरह घूम-फिर रही है, मानो उसे अँधेरेने पकड़ लिया हो। आकाशके तारे टकटकी लगाये सतर्क हृषिसे जी-जानसे अन्धकारको भेदकर न जाने किस रहस्यका आविष्कार करना चाहते हैं।

शयन-गृहमें आज दीपक नहीं जलाया गया है। हेमन्त खिड़कीके पास पलंगपर बैठा हुआ सामनेके अन्धकारकी ओर देख रहा है।

कुमुम जमीनपर दोनों हाथोंसे उसके पैर पकड़कर, पैरोंपर सिर रखके पड़ी है। समय मानो स्तम्भित समुद्रकी तरह स्थिर हो गया है। मानो अनन्त निशीथिनीके ऊपर अहश्चित्रकारने यह एक चिरस्थायी चित्र खींच दिया हो—चारों ओर प्रलय है, बीचमें एक विचारक है, और उसके पैरोंके पास एक अपराधिनी।

फिर स्लीपरोंकी चट्ट-चट्ट आवाज़ हुई। हरिहर मुखजीने दरवाज़ेके पास आकर कहा—“बहुत देर हो चुकी है, अब समय नहीं दे सकता। लड़कीको घरसे निकाल बाहर करो !”

कुमुमने इन शब्दोंके सुनते ही क्षण-भरके लिए एक बार चिर जीवनकी साध मिटानेके लिए हेमन्तके पैर और भी ढूने आवेगसे पकड़ लिए—चरण चूमकर पैरोंकी धूल माथेसे लगाकर पैर छोड़ दिये।

हेमन्तने उठकर पितासे जाकर कहा—“स्त्रीको मैं नहीं त्याग सकता !”

हरिहरने गरजकर कहा—“तो क्या जात खोयेगा ?”

हेमन्तने कहा—“जात-पाँत मैं नहीं मानता ।”

“तो जा, तू भी निकल जा ।”

वैशाख, १९४६ ]

## एक रात्रि

सुरवालाके संग, मैं एक साथ पाठशाला गया हूँ, और 'बझ-बझ' खेला हूँ। उसके घर जानेपर मुख्यालाकी मा मुझे बहुत प्यार करती थी, और हम दोनोंको एक साथ खड़ा करके देखती और आपसमें बातचीत करती—“अक्ष ! दोनोंकी जोड़ी कंसी अच्छी लगती है !”

मैं छोटा था, पर इस वाक्यका अर्थ एक प्रकारसे समझ जाता था। मुख्यालापर औरोंकी अपेक्षा मेरा कुछ विशेष हक्क था, यह धारणा मेरे हृदयमें जमकर बैठ गई थी। उस अधिकार-मदसे मत्त होकर मैं उसपर शासन और अन्याय नहीं करता था, यह बात न थी। वह भी सहिष्णु बनकर मेरी सब तरहकी आज्ञाओंका पालन करती और सज्जा मंजूर कर लेती थी। मुहल्लेमें उसके रूपकी प्रशंसा थी—परन्तु मुझ जैसे उजड़ लड़केको दृष्टिमें उस सौन्दर्यका कुछ गौरव न था,—मैं समझता था, सुरवालाने केवल मेरे ही प्रभुत्वको माननेके लिए अपने पिताके घर जन्म लिया है, इसीलिए वह मेरे लिये विशेष उपेक्षाकी वस्तु है।

मेरे पिता चौधरी ज़मींदारके यहां नायब थे। उनकी इच्छा थी कि लिखाईमें मेरा हाथ सध जानेपर मुझे ज़मींदारी सरिश्तेका काम सिखाकर कहोपर गुमाश्तेके कामपर लगा देंगे, परन्तु मैं मन-ही-मन इस वातसे नाग़ज़ था। हमारे मुह़लेका नीलगतन जैसे कलकत्ते भागकर वहां पढ़-लिखकर कलेक्टर साहबके नीचे नाज़िर बन गया है, मेरे जीवनका लक्ष्य भी वैसा ही बहुत ऊँचा था—कलेक्टरका नाज़िर न हो सका, तो दूसरी किसी अदालतका हेडक्लार्क बनूंगा, यह मैंने मन-ही-मन निश्चय कर रखवा था।

मैं हमेशा देखता कि मेरे बाप उक्त अदालत-जीवियोंका अस्यन्त सम्मान करते थे,—नाना उपलक्ष्मीमें मछली, साग-तगकारी, रुपये-पैसे आदिसे उन लोगोंकी पूजार्चना की जाती थी, यह भी मुझसे छिपा नहीं था, इसीलिए अदालतके छोटे-से-छोटे कर्मचारी, यहां तक कि पियादों तकको अपने हृदयमें मैंने खूब सम्मानका आसन दे रखवा था। ये हमारे देशके पूज्य देवता हैं। ‘तीतीस-कोटि’ के छोटे-छोटे नये संस्करण हैं। ज़मीन-जायदाद-सम्बन्धी सिद्धि-लाभके लिये तो स्वयं सिद्धिदाता गणेशसे भी इनपर लोगोंका आन्तरिक भरोसा बहुत ज्यादा है, इसलिये पहले गणेशका जो कुछ हक्क था, आजकल वह सब इन्हें ही मिला करता है।

मैं भी नीलगतनके हष्टान्तसे उत्साहित होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ते भाग गया। पहले गाँवके एक जान-पहचानवालेके यहां ठहरा। उसके बाद, फिर बापसे भी अध्ययनके लिये कुछ-कुछ सहायता मिलने लगी। पढ़ाई नियमसे होने लगी।

इसके अलावा सभा-समितियोंमें भी शामिल होता था। देशके लिये सहसा प्राण-विसर्जन करनेकी बहुत ही शीघ्र आवश्यकता है, इसमें मुझे सन्देह न था। परन्तु किस तरह यह दुःसाध्य कार्य हो सकता है, मैं जानना न था; और न कोई हप्तान्त ही दिखाता था।

परन्तु फिर भी उत्साहमें कोई कमी नहीं थी। हम लोग गमई-गाँवके लड़के थे, कलकत्तेके लड़कोंकी तरह सब बानोंको हँसीमें उड़ाना नहीं जानते थे, इसलिये हमारी निष्ठा अत्यन्त दृढ़ थी। हमारी सभाके संचालकगण व्याख्यान दिया करते थे, और हम लोग चन्देका खाता लेकर विना खाये-पिये धौगी-दुपहरीमें यों ही घर-घर भीख माँगते फिरते थे, सड़कके किनारे खड़े होकर विज्ञापन बाटा करते, सभा-स्थलमें जाकर बैंच, चौकी बग़रह लगाते, और सभाव्यक्तेके नामपर यदि कोई एक ज्ञात कह देता, तो उससे कमर बाँधकर लड़नेको तैयार हो जाते थे। शहरके लड़के इन सब लक्षणोंको देखकर हम लोगोंको गाँवके गँवार कहने लगते थे।

नाज़िर, सरिश्टेदार बनने आया था, पर मेज़िनी गंगिवालड़ी होनेकी तैयारियाँ करने लगा।

इतनेमें मेरे पिता और सुरबालाके पिता दोनों एकमत होकर सुरबालाके साथ मेरे विवाहकी तैयारियाँ करने लगे।

मैं पन्द्रह वर्षकी उमरमें कलकत्ते भाग आया था, तब सुरबालाकी उमर आठ सालकी थी; अब मैं अठारह बरसका हूँ। पिताका मत है, मेरी व्याहकी उमर क्रमशः बीतती जा रही है, परन्तु इधर मैंने मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर ली है कि आजीवन विवाह नहीं करूँगा और

स्वदेशके लिए मर मिटूँगा,—पिताजीसे कह दिया—विद्याभ्यास समाप्त किये बिना विवाह न करूँगा ।

दो-ही-चार महीनेमें खबर मिली कि वकील गमलोचन बाबूके साथ सुरवालाका विवाह हो गया । पतित भारतके लिए मैं तब चन्दा-वसूलीके काममें मशगूल था, यह खबर बहुत ही मामूली-सी जान पड़ी ।

एन्ट्रेन्स पास कर चुका हूँ, फर्स्ट आर्टसकी परीक्षा देनेवाला था, इतनेमें पिताजीकी मृत्यु हो गई । घरमें सिर्फ मैं ही अकेला न था, माता और दो वहनें भी थीं, इसलिए काम-काजकी टोहमें घूमना पड़ा । बड़ी कोशिशमें नोआखाली विभागके एक लोटेसे कस्बेमें एक स्कूलकी सेकेण्ट-मास्टरी मिली ।

सोचा, अपने योग्य काम मिल गया, अच्छा ही हुआ । उपदेश और उत्साह देकर एक-एक विद्यार्थीको भावी भारतका सेनापति बना दूँगा ।

काम शुरू कर दिया । देखा कि भावी भारतकी अपेक्षा आसन्न (निकट) इम्निहानकी हड्डबड़ी बहुत ज्यादा है । छात्रोंको ‘आमर’ और ‘एलजेब्रा’ के अलावा बाहरकी और कोई बात समझानेसे हेडमास्टर साहब नाराज़ होते हैं । दो ही महीनेके अन्दर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया ।

मुझ जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक तरहकी कल्पनाएँ किया करते हैं, परन्तु अन्तमें कार्यक्षेत्रमें उतरनेके बाद कंधेपर जब हळ रखा जाता है और पीछे से पूँछ मरोड़ी जाती है, तब सिर झूकाये सहिष्णुताके

साथ दिन-भर खेत जोतनेका काम करनेके बाद शामको जो भग-पेट भूसा मिल जाता, उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं, फिर उछल-कूद और उत्साह कुछ भी नहीं रहता ।

आग लगनेकी आशंका रहनी, इससे एक मास्टरको स्कूलमें ही रहना पड़ता था । मैं छढ़ीदा आदमी था, अतः मेरे ही ऊपर यह भार आ पड़ा । स्कूलसे सटी हुई एक छोटीसी झोपड़ी थी, उसीमें मैं रहने लगा ।

स्कूल कस्बेसे बाहर कुछ दूरपर था—एक बड़े नालावके किनारे । चारों तरफ सुपारी, नारियल और मदारके पेड़ थे, और स्कूलसे विलक्षुल सटे हुए दो बड़े-बड़े नीमके पेड़ थे, जिनकी छायासे स्कूलके लोग काफी फ़ायदा उठाते थे ।

एक बातका उल्लेख करना रह गया, और अब तक उसे मैं उल्लेख-योग्य समझता भी न था । यहाँके सरकारी बकील रामलोचन गयका मकान हमारे स्कूलसे नज़दीक ही था । और उनके साथ उनकी स्त्री—मेरी बाल्य-सखी सुरबाला—भी थी, यह मुझे मालूम था ।

रामलोचन बाबूके साथ मेरी जान-पहचान हो गई । सुरबालाके साथ मेरी वचपनकी जान-पहचान थी, यह बात रामलोचन बाबूको मालूम थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता । मैंने भी उनसे इस नये परिचयमें इस सम्बन्धमें कोई बात कहना उचित न समझा । और यह बात भी कि सुरबाला किसी दिन मेरे जीवनके साथ किसी प्रकारसे विज़दित थी, मेरे मनमें अच्छी तरह उदय न हुई ।

एक दिन छुट्टीके रोज़ रामलोचन बाबूके घरपर उनसे मिलने गया

था। याद नहीं, किस विषयमें बातचीत चल गई थी, शायद वर्तमान भारतकी दुरवस्थाके सम्बन्धमें कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस बारेमें विशेष चिन्तित और व्याकुल थे, सो नहीं, पर यह विषय ऐसा है कि तम्बाकू पीते-पीते इस बारेमें घंटा डंड़ घंटा अनर्गल बातें करते रहो, कुछ मालूम नहीं पड़ता।

इतनेमें बगलके कमरेसे अत्यन्त मृदु, कुछ चूँड़ियोंकी झन-झन, ज़रा कपड़ोंकी खस-खस और पैंगोंकी कुछ आवाज़-सी सुनाई दी; मैं अच्छी तरह समझ गया कि खिड़कीकी सँधमेंसे कौतूहलपूर्ण नेत्रोंसे मंगी ओर कोई देख रहा है।

‘उसी क्षण दो आँखोंकी मुर्ख याद रठ आई—विश्वास, सरलता और शाशब्द-प्रीतिसे छलकती हुई दो बड़ी-बड़ी आँखें थीं, उनमें काले-काले तारे थे और स्थिर स्निग्ध हथिए थीं। सहसा मेरे हृदयको किसीने कठोर मुझीमें दाढ़ लिया, और बेदनासे मेरा अन्तर अधपके फोड़ेकी तरह फड़कने लगा।

मैं अपनी झाँपड़ीमें लौट आया, पर वह बेदना बनी ही गई। लिखता, पढ़ता, और भी काम करता, पर मनका वह भाव दूर न हुआ; मन मेरा सहसा भागी बोझ बनकर छातीकी नसें पकड़कर भूलने लगा।

शामको कुछ स्थिर होकर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? मनके भीतरसे उत्तर मिला—“तुम्हारी वह सुरबाला कहाँ गई।”

मैंने उसके प्रत्युत्तरमें कहा—“मैंने तो उसे अपनी इच्छासे छोड़ दिया है। वह क्या हमेशा मेरे ही लिए बैठी रहती?”

मनके भीतरसे किसीने कहा—“तब जिसे चाहनेपर ही पा सकते थे, अब सिर दे-दे मारो, तो भी उस एक बार आँखोंसे देखने तकका अधिकार नहीं मिल सकता ! वह वाल्यावस्थाकी सुरवाला तुम्हारे कितने ही पासमें क्यों न हो, उसकी चूँडियोंकी झनकार सुनो, उसके सिरमें तेल डालनेकी गन्धका अनुभव करो, परन्तु बीचमें एक दीवाल हर हालतमें रहेगा ही ।”

मैंने कहा—“रहने दो, सुरवाला मेरी कौन है ?”

उत्तर मिला—“सुरवाला, आज तुम्हारी कोई भी नहीं है, पर सुरवाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी ?”

वात तो सच है । सुरवाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी ? सबसे बढ़कर अन्तरंग हो सकती थी, सबसे ज्यादा निकटवर्ती हो सकती थी, मेरे जीवनके सम्पूर्ण सुख-दुःखोंकी भागिनी हो सकती थी ; वह आज इतनी दूर है, इतनी पर्गई है, आज उसे देखने तककी मनाही है, उससे वात करनेमें भी दोष है, उसके विपर्यमें चिन्ता करना भी पाप है ! और एक गमलोचन नामका अनजान आदमी अचानक आ धमका, और सिर्फ़ दो-चार गडे हुए मन्त्र पढ़कर सुरवालाको दुनियाँके और सबोंके पाससे क्षण-भग्में झपटा मारकर ले गया !

मैं मानव-समाजमें नई नीतिका प्रचार करने नहीं बैठा, समाज तोड़ने नहीं आया, वन्धन तोड़ना नहीं चाहता । मैं सिर्फ़ अपने मनके असली भावोंको व्यक्त करना चाहता हूँ । अपने मनमें जो भाव उठा करते हैं, वे क्या सभी विवेचना करने योग्य होते हैं ? रामलोचनके घरमें दीवालकी ओटमें जो सुरवाला खड़ी हुई थी, वह

रामलोचनकी अपेक्षा मेरी ही अधिकतर थी, इस धारणाको मैं मनसे किसी भी तरह दूर नहीं कर सकता था। ऐसी चिन्ता बहुत ही असंगत और अन्याययुक्त है, इस बातको मानता हूँ, परन्तु यह अस्वाभाविक नहीं है।

अब मेरा किसी काममें मन नहीं लगता। दोपहरको जब क्लासके लड़के गुनगुनाकर पढ़ा करते थे, बाहर जब धू-धू लूचलती थी, गरम हवा जब नीमकी पुष्प-मंजिमियोंकी सुगन्ध वहां लाती थी, तब मेरी इच्छा होती थी—क्या इच्छा होती थी, मालूम नहीं हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भारतवर्षके इन सब भावी आशास्पदोंको उनकी व्याकरणकी भूलें बताकर जिन्दगी बसर करनेकी इच्छा बिलकुल नहीं होती थी।

स्कूलकी छुट्टी हो जानेपर उस सुनसान बड़े घरमें अकेले मेरा मन नहीं लगता था, और अगर कोई भलामानस मिलने आता, तो वह भी नागबार गुज़रता। सन्ध्याके समय तालाबके किनारे सुपारी और नारियलके पेड़ोंकी अर्थहीन मर्मगध्वनि सुनते-सुनते सोचता—मनुष्य-समाज एक जटिल भ्रमका जाल है। ठीक वक्त्पर ठीक काम करनेकी किसीको भी याद नहीं रहती, उसके बाद बेठीक वक्त्पर बेठीक बासानाएँ लेकर तड़पता रहता है।

तुम सरीखा आदमी सुखबालाका पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुखसे रह सकता था, सो तुम बनने चले गैरिबालडी, और हुए आखिर एक गर्मई-गांवके स्कूलके सेकेन्ड मास्टर! और रामलोचन गाय बकील हैं, उन्हें खास तौरसे सुखबालाके पति बननेकी कोई विशेष

आवश्यकता न थी ; विवाहके एक क्षण पहले उनके लिये जैसी सुरवाला थी, वैसी ही भवशङ्करी । वही रामलोचन आज बिना कुछ सोचे-समझे सुरवालाके साथ विवाह करके सरकारी वकील बनकर मजेमें रूपये पैदा कर रहा है,—जिस दिन दूधमें जग धूपेंकी वू आती है, उस दिन सुरवालाका तिग्स्कार करता है, और जिस दिन मन प्रसन्न रहता है, उस दिन सुरवालाके लिये गहने बनवा देता है । गूब मोटा-ताजा है, चपकन पहनता है, किसी प्रकारका असन्तोष नहीं, तालाबके किनारे बैठकर आकाशके नागोंकी ओर देखकर किसी दिन हाय-तोवा करके सन्ध्या नहीं बिनाता ।

गमलोचन किसी भागी मुकदमेके कामसे कहीं बाहर गये हुए थे । स्कूलवाले घरमें जैसा मैं अकेला था, उस दिन सुरवालाके घर सुरवाला भी शायद वैसी ही अकेली थी ।

याद है, उस दिन सोमवार था । सवेरे बादल हो रहे थे । करीब दस बजेसे टप-टप मेह बरसना शुरू हुआ । बादलोंकी हालत देखकर हेडमास्टरने जलदी स्कूलकी छुट्टी कर दो । काले बादलोंके टुकड़े मानो किसी एक महा आयोजनके लिए तमाम आकाशमें दिन-भर इधर-से-उधर दौड़-धूप करते रहे । उसके दूसरे दिन शामको मूसलाधार वर्षा और साथ-साथ आँधी भी शुरू हुई । जितनी रात होने लगी, वर्षा और आँधीका बेग उतना ही बढ़ता गया । पहले पुरबीया हवा चलती रही, फिर क्रमशः उत्तर और उत्तर-पूर्वकी हवा चलने लगी ।

ऐसी रातको सोनेकी कोशिश करना व्यर्थ है । याद उठ आई—आजकी रातमें इस आँधी-मेहमें सुरवाला घरमें अकेली होगी ।

हमारा स्कूलवाला घर उपरके घरसे कहाँ मज़बूत है। कितनी ही बार सोचा—उसे स्कूलवाले घरमें बुला लूँ और मैं तालाबके किनारे गत विताऊँ, परन्तु किसी भी तरह मन शान्त न हुआ।

गतके करीब एक-डेढ़ बजे होंगे, सहसा बाढ़ आनेका शब्द सुनाई दिया—मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। घरसे बाहर निकला। सुरवालाके घरकी ओर चला। गास्टेमें तालाबकी मेंड़ है—वहाँ तक पहुँचनेमें मुझे बृद्धों तक पानी पड़ा। मैंने मेंड़के ऊपर चढ़कर देखा, तो वहाँ और एक तरंग आ उपस्थित हुई। हमारे तालाबकी मेंड़का कुछ हिस्सा लगभग ग्यारह हाथ ऊँचा होगा।

मेंड़पर मैं जिस समय चढ़ने लगा, उसी समय दूसरी ओरसे एक और आदमी चढ़ा। वह आदमी कौन था, यह मेरी सम्पूर्ण अन्तर्गतमाने, मेरे सिरसे लेकर पैर तक सम्पूर्ण अंगोंने, जान लिया। और उसने भी मुझे पहचान लिया, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं।

और सब कुछ पानीमें डूब चुका था, सिर्फ हम ही दोनों जने उस पाँच-छः हाथके द्वीपमें खड़े रहे।

तब प्रलयका समय था, आकाशमें प्रकाश न था, संसारके सारे प्रदीप बुझ चुके थे—तब एकआध बात कर लेनेमें भी कोई हानि नहीं थी—परन्तु एक भी बात मुँहसे न निकली। किसीने किसीकी भी कुशल तक न पूछी!

दोनों जने सिर्फ अन्धकारकी तरफ देखते रहे। पैरोंके नीचे घोर कृष्णवर्ण उन्मत्त मृत्यु-श्रोत गरजता हुआ प्रवाहित हो रहा था।

आज सम्पूर्ण विश्व-संसारको छोड़कर सुरवाला मेरे पास आकर

खड़ी हुई है। आज मेरे सिवा सुरबालाका संसारमें और कोई भी नहीं है। एक दिन शैशवकालकी वह सुरबाला न जाने किस जन्मान्तरसे—किस पुगाने रहस्यान्धकारसे—वहकर इस सूर्य-चन्द्रालोकित लोक-परिपूर्ण पृथ्वीपर मेरे पास आ लगी थी, और आज कितने दिनों बाद उसी आलोकमय लोकमय पृथ्वीको छोड़कर इस भयानक जनशून्य प्रलयान्धकारमें सुरबाला अकेली मेरे ही पास आ उपस्थित हुई है। जन्म-स्रोतने जिस नव-कलिकाको मेरे पास ला पटका था, अब मृत्यु-स्रोत उसी विकसित पुण्पको मेरे ही पास ले आया है—अब सिर्फ और एक लहरके आते ही पृथ्वीके इस टुकड़ेसे—विच्छेदके इस डंठलसे—टूटकर हम दोनों एक हो जायेंगे।

वह लहर न आवे ! पति-पुत्र-गृह-धन-परिवारको लेकर सुरबाला चिरकाल तक सुखसे रहे ! मैंने इसी 'एक गात्रि' में महाप्रलयके तटपर खड़े-खड़े अनन्त आनन्दका आस्वाद पाया है।

रात कीब खत्म हो आई—आँधी थम गई, पानी घट गया—  
सुरबालाने कुछ भी न कहा, चुपचाप घरकी ओर चल दी, मैं भी बिना कुछ कहे-सुने चुपकेसे अपने घर लौट आया।

सोचने लगा—मैं नाजिर भी न हुआ, सरिश्तेदार भी न हुआ,  
गैरिवालडी भी न हो सका, मैं एक टूटे-फूटे स्कूलका सेकेन्ड-मास्टर हूँ। मेरे इस सारे जीवनमें सिर्फ क्षण-भरके लिए एक अनन्त गात्रिका उदय हुआ था—मेरी परमायुके सम्पूर्ण दिनोंमें सिर्फ यही 'एक गात्रि'  
मेरे तुच्छ जीवनकी एकमात्र चरम सार्थकता है।

[ ज्येष्ठ, १९४६ ]

## एक बरसाती कहानी

सुदूर समुद्रके बीच एक द्वीप है। वहां सिर्फ तारशके बादशाह, ताश ही की बेगम, इक्का और गुलाम रहते हैं। दुक्की-निकीसे लेकर नहला-दहला तक और भी अनेक गृहस्थोंके घर हैं, पर वे उच्चजातीय नहीं।

इक्का, बादशाह और गुलाम, ये तीन ही प्रधान वर्ण हैं; नहला-दहला आदि अन्त्यज हैं, उनके साथ एक पंक्तिमें बैठनेके योग्य नहीं।

परन्तु शृङ्खला बड़ी अच्छी है। किसका कितना मूल्य और सम्मान है, यह बहुत पहलेसे ही निश्चित हो चुका है, उसमेंसे तनिक भी इथर-उथर नहीं हो सकता। सभी कोई निर्दिष्ट नियमानुसार अपना अपना काम करते चले जाते हैं। यह चलना केवल वंशानुक्रमसे अपने पूर्वजोंकी लकीरपर चलना मात्र है—जैसे ‘अ-आ-इ-ई’का पढ़नेवाला लड़का पट्टीपर लिखे हुए हरूफोंपर हाथ चलाता रहता है।

वह काम कौनसा है, विदेशियोंके लिए समझमें आना कठिन है।

सहसा देखनेसे खेल मालूम देगा । सिर्फ नियमसे चलना-फिरना, नियमसे जाना-आना और नियमसे उठना-बैठना, बस । अदृश्य हाथ उन्हें चलाते हैं और वे चलते हैं ।

उनके मुँहपर किसी प्रकार भावोंका परिवर्तन नहीं है । हमेशासे एक ही भावकी मुहर लगी हुई है । जैसे आँखें फाड़-फाड़कर देखती हुई कोई तसवीर हो । बाबा आदमके ज़मानेसे अब तक, सिरकी टोपीसे लेकर पैरके जूते तक, ज्यों-के-त्यों वैसे-के-वैसे ही बने हैं ।

कभी, किसीको भी कुछ सोचना नहीं पड़ता, विचारना नहीं पड़ता ; सभी कोई निर्जीव-भावसे चुपचाप चला-फिरा करते हैं ; गिरते समय बिना आहटके चुपकेसे गिर जाते हैं और अविचलित मुख्यालीको लिये हुए चित होकर आकाशकी ओर देखते रहते हैं ।

किसीको कोई आशानहीं, अभिलापा नहीं, भय नहीं, नये मार्गपर चलनेकी चेष्टा नहीं, हँसी नहीं, गेना नहीं, सन्देह नहीं, दुष्प्रिया नहीं ! पिंजड़ेके अन्दर जैसे चिड़िया फड़कड़ाती है, इन चित्रवत् मूर्तियोंके अन्तःकरणमें वैसा किसी जीवित प्राणीके अशान्त पश्चात्तापका लक्षण नहीं दिखाई देता ।

परन्तु किसी समय इन पिंजड़ोंमें जीवोंका वास था,—तब पिंजड़ा हिलता-डुलता था, भीतरसे चिड़ियोंके पंखोंकी आवाज और चुहचुहाहट सुनाई पड़ती थी, गहन वन और विस्तृत आकाशकी बात याद आती थी ।—अब सिर्फ पिंजड़ेकी संकीर्णता और सिलसिलेसे लगी हुई लोहेकी छड़ोंका ही अनुभव होता है,—चिड़ियाँ उड़ गईं, या जीवन्मृत हुई पड़ी हैं, यह कौन कह सकता है ।

गजबका सन्नाटा है, बड़ी शान्ति है। पूरा आराम है, बड़ा सन्तोष है। रास्तेमें, घाटमें, घरमें, आंगनमें सर्वत्र संयत वायुमण्डल है,—कहीं कुछ शब्द नहीं, द्वन्द्व नहीं, उत्साह नहीं, आग्रह नहीं,—केवल नित्य नैमित्तिक क्षुद्र कार्य हैं और क्षुद्र विश्राम।

समुद्रने अविश्राम सुरतान (कनसर्ट) के शब्दसे, तटपर सहस्रों फेन-शुभ्र कोमल हथेलियोंके आधातसे समस्त द्वीपोंको मीठी नींद सुला रखा है—पक्षी-माताके फैले हुए नील पंखोंके समान आकाश दिग्दिगन्तकी रक्षा कर रहा है! बहुत दूर उस पार गहरी नील रेखाके समान विदेशका आभास दीख पड़ता है—वहांसे राग-द्वेषका द्वन्द्व-कोलाहल समुद्र पार होकर नहीं आ सकता।

[ २ ]

**स**मुद्रके उस पार उस विदेशमें किसी तिरस्कृत गनीका लड़का एक राजपुत्र रहता है। वह अपनी निर्वासित माताके साथ समुद्रके किनारे अपनी धुनमें बाल्य जीवन बिता रहा है।

वह अकेला बैठा-बैठा मन-ही-मन एक बड़ा-भारी आशाका जाल बुन रहा है। उस जालको दिग्दिगन्तरोंमें फैलाकर कल्पनासे विश्व-जगत्के नये-नये रहस्योंको फँसाकर अपने द्वारके सामने इकट्ठा करता जाता है। उसका अशान्त चित्त समुद्रके किनारे आकाशकी सीमापर उस दिगन्त-रोधी नील पर्वतमालाके उस पार सर्वदा विचरण करता फिरता है—वह ढूँढ़ना चाहता है पक्षीराज घोड़ा कहां मिलता है, सर्पके

मस्तककी मणि कहाँ मिलती है, पारिजात पुष्प और सोनेकी लकड़ी, चाँदीकी लकड़ी कहाँ मिलती है, सात समुद्र तेरह नदीके उस पार दुर्गम दैत्य-भवनमें स्वप्र-सम्भवा अलोकमुन्दरी गजकुमारी कहाँ सो रही है ?

राजपुत्र पाठशालामें पढ़ने जाता है, वहांसे लौटकर सौदागरके पुत्रसे देश-विदेशकी बातें और कोतवालके पुत्रसे ताल-बैतालकी कहानी सुनता है।

रिमझिम-रिमझिम मेह वगसता, बाढ़ोंसे तमाम दिशाएँ अन्ध-कारमय हो जातीं,—घरके द्वारपर माँके पास बैठकर समुद्रकी ओर देखता हुआ राजपुत्र कहता—“मा, कोई खूब दूर देशकी कहानी सुनाओ न, मा ।” माना बहुत देर तक अपने बचपनमें सुनी हुई किसी अपूर्व देशकी अपूर्व कहानी सुनातीं—मेहके भर-भर शब्दके अन्दर उस कहानीको सुनकर राजपुत्रका हृदय उदास हो जाता ।

एक दिन सौदागरके पुत्रने आकर राजपुत्रसे कहा—“मित्र, पढ़ाई तो खत्म हो चुकी, अब कहीं देश-ध्रमणके लिए जाऊँगा, तुमसे बिदा लेने आया हूँ ।”

राजपुत्रने कहा—“मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ।”

कोतवालके पुत्रने कहा—“मुझे क्या अकेला ही छोड़ जाओगे ? मैं भी तुम लोगोंका साथी हूँ ।”

राजपुत्रने दुःखिनी मानासे जाकर कहा—“मा, मैं देश-ध्रमणके लिए जा रहा हूँ—अबकी तुम्हारा दुःख दूर करनेका उपाय कर आऊँगा ।”

तीनों मित्र मिलकर चल दिये ।

[ ३ ]

**स**मुद्रमें सौदागरकी बारह नाव तैयार थीं—तीनों मित्र चढ़ लिये ।

दिखिनी हवासे पाल भर गये—नावें राजपुत्रकी मनोवासनाकी तरह दौड़ती हुई चलने लगीं ।

शंख-द्वीपमें जाकर एक नाव शंखोंसे भरी, चन्दन-द्वीपमें जाकर एक नाव चन्दनसे भरी, प्रवाल-द्वीपमें जाकर एक नाव प्रवालोंसे भरी ।

उसके बाद और चार बरसोंमें जब गजदन्त, कस्तूरी, लौंग और जायफलसे और चार नावें भर गईं, तब सहसा एक बड़ा-भारी तुकान आया ।

सब नावें छूब गईं, सिर्फ एक नाव बची, जिसने तीनों मित्रोंको एक द्वीपमें बुरी तरह पटक दिया और खुद टुकड़े-टुकड़े हो गई ।

इस द्वीपमें ताशके इष्के, ताशके बादशाह, ताशकी बेगम और ताश ही के गुलाम यथानियम रहते हैं, और दहला-नहला आदि भी उनकी सेवा बजाते हुए नियमानुसार दिन काटते हैं ।

[ ४ ]

**ता**शके राज्यमें अब तक कोई उपद्रव न था । अब पहले-पहल यह विश्रद्धलताका सूत्रपात हुआ है ।

इतने दिनोंके बाद यह तर्क उठा—ये तीन आदमी, जो सहसा एक दिन शामको समुद्रसे निकलकर आये हैं, इन्हें किस श्रेणीमें रखा जाय ।

पहले तो यह बात विचारणीय है कि इनकी जाति क्या है—  
इका, बादशाह, गुलाम या नहला-दहला ?

दूसरी बात, इनका गोत्र क्या है—हुक्म, चिड़ी, पान या डैट ?

विना इन सब बातोंके सुलभ, इनके साथ किसी तरहका व्यवहार करना ही कठिन है। ये किनका अन्न खायेंगे, किनके साथ रहेंगे। इनमेंसे अधिकार-भेदसे कौन वायुकोणमें, कौन नैऋतकोणमें, कौन ईशानकोणमें सिरहाना रखकर और कौन खड़े-खड़े सोयेगा, इन सब बातोंका कुछ भी निर्णय नहीं होता।

इस राज्यमें इतनी बड़ी विषम दुश्चिन्ताका कारण इससे पहले कभी नहीं आया।

परन्तु भूखके मारे तड़पते हुए विंदशी मित्रोंको इन सब गहन विषयोंकी रंच-मात्र भी चिन्ता नहीं थी। उन्हें किसी तरह भोजन मिल जाय, तो लाखों पायें। जब देखा कि लोग उन्हें भोजनादि देनेमें संकोच करने लगे, और विधि-विधान ढूँढ़नेके लिए इकोंने विराट् सभाएँ की, तब वे, जहाँ जो कुछ मिला, खाने-पीने लगे।

इस व्यवहारसे दुक्की-तिक्की तक दंग रह गई। तिक्कीने कहा—“भई चौआ, इनको कोई परहेज-विचार नहीं है।” दुक्कीने कहा—“भई तिक्की, इससे तो साफ़ मालूम पड़ता है कि ये हम लोगोंसे भी नीच जातिके हैं।”

खा-पीकर ठंडे होकर तीनों मित्रोंने देखा, यहांके आदमी कुछ नये ही ढंगके हैं। मानो संसारमें उनकी कहीं भी जड़ नहीं है।

मानो इनकी चोटी पकड़कर किसीने उखाड़ ली है, और ये हतयुद्धिकी तरह संसारका स्पर्श ल्यागकर भूम-भूमकर धूम रहे हैं। जो-कुछ भी करते हैं, वह मानो कोई दूसरा ही करा रहा है। इनका ठीक पुतलीके नाचकी भूलती हुई पुतलियोंका-सा हाल है। इसीसे किसीके मुँहपर कोई भाव नहीं—चिन्ता नहीं—सभी कोई अत्यन्त गम्भीर चालसे उसी एक ही नियमसे चल-फिर रहे हैं। फिर भी, सब मिलकर ये बड़े अद्भुत दिखाई देते हैं।

चारों तरफ इस जीवित निर्जीवताके गम्भीर रंग-ढंग देखकर राजकुमार आकाशकी ओर मुँह उठाकर कँहकँहा सारकर हँस पड़ा। यह आन्तरिक कौतूहल-पूर्ण उच्च हास्यध्वनि ताश-राज्यके सुनसान रास्तेमें बड़ी विचित्र सुनाई दी। यहाँके सभी कोई ऐसे सुगम्भीर हैं कि कौतूहल अपने अकस्मात् निकले हुए उच्छृङ्खल शब्दसे आप ही चकित हो गया—मून होकर बुझ गया—चारों तरफका लोक-प्रवाह पहलेसे कहीं दूना स्तब्ध और गम्भीर मालूम होने लगा।

दोनों मित्रोंने व्याकुल होकर राजपुत्रसे कहा—“मित्र, इस निरानन्द भूमिपर एक क्षण नहीं रहा जा सकता! यहाँ और दो-चार दिन रह गये, तो बीच-बीचमें अपनेको स्पर्श करके देखना पड़ेगा कि ज़िन्दा हैं या मुरदा!”

राजपुत्रने कहा—“नहीं भझ्या, मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। देखनेमें ये आदमी जैसे लगते हैं—इनमें एक-आध बूँद जीवित पदार्थ है या नहीं, एक बार हिला-डुलाकर देखना होगा।

[ ५ ]

इसी तरह कुछ समय बीता, परन्तु तीनों विदेशी युवक किसी नियमके जालमें पकड़ाई न दिये। वहाँ जब जिस समय उठना, बैठना, मुँह फेरना, औंधे होना, चित होना, सिर हिलाना, कलावाजी खाना चाहिए, वे उनमें से कोई काम भी न करते, बल्कि मज्जे ले-लेकर देखते और हँसते हैं। इन सब यथाविहित असंख्य क्रिया-कलापोंमें कोई महान गम्भीरता हो सकती है, यह बात उनके दिमारामें भी न आती।

एक दिन इका, बादशाह और गुलामने आकर राजपुत्र, कोतवाल और सौदागरके पुत्रसे, फूटे बासनकी नग्ह बजकर, बड़ी गम्भीरतासे पूछा—“तुम लोग नियमके अनुसार क्यों नहीं चलते ?”

तीनों मित्रोंने उत्तर दिया—“हमारी तबीयत ।”

ताश-राज्यके अधिनायकने बड़े आश्रयके साथ, मानो सपनेसे जगकर पूछा—“तबीयत ! वह समुरी कौन है ?”

तबीयत क्या चीज़ है, वह न समझ सका ; पर पीछे धीरे-धीरे समझ गया। वे प्रतिदिन देखने लगे कि इस तरह न चलकर उस तरह चलना भी सम्भव है; जैसे ‘इधर’ है, वैसे ‘उधर’ भी है। विदेशसे तीनों जीते-जागते दृष्टान्तोंने आकर समझा दिया कि विधानके अन्दर ही मनुष्यकी सम्पूर्ण स्वाधीनताकी सीमा नहीं है। इसी तरह वे ‘नबीयत’ नामकी एक राजशक्तिके प्रभावको अस्पष्टरूपसे अनुभव करने लगे।

ज्यों हो उसका अनुभव हुआ, ज्यों ही ताश-राज्य इस छोरसे उस

छोर तक कुछ-कुछ आनंदोलित होने लगा—सोये हुए बड़े भारी अजगरकी वहुतसी कुण्डलियोंके अन्दर जिस तरह अत्यन्त मन्द गतिसे जागरण संचालन करता है।

[ ६ ]

**नि**र्विकार मूर्ति बेगमने इतने दिनों तक किसीकी ओर न देखा था, चुपचाप बिना किसी घबराहटके अपना काम कर रही थीं। अब, एक दिन वसन्तकी सन्ध्याको इनमेंसे एकने अपनी आँखोंकी काली-काली बरुनियोंको ऊपर उठाकर चकितकी तरह राजपुत्रकी ओर मुरथ और कटाक्षपूर्ण नेत्रोंसे देखा। राजपुत्र चौंककर बोल उठा—“अरे, यह क्या देख रहा हूँ! मैं तो समझता था कि ये मूर्तिवत् हैं, मैं गलत समझा, यह तो रमणी है!”

दोनों मित्रोंको एकान्तमें ले जाकर राजकुमारने कहा—“भई, इनमें तो बड़ा माधुर्य है। उसके उस नवीन भावोदीप्त कृष्ण नेत्रोंके प्रथम कटाक्षसे मुझे ऐसा मालूम हुआ, मानो मैंने किसी नये जगतमें प्रथम उषाका प्रथम उदय देखा! इतने दिनों तक धैर्यके साथ रहना आज सार्थक हुआ।”

दोनों मित्र बड़े कौतूहलके साथ हँसते हुए बोले—“सचमुच !”

वह अभागिन पानकी बेगम आये दिन नियमोंको भूलने लगी। उसे जब जहां हाजिर होना चाहिए, वह न हो सकती, बार-बार भूल होने लगी। मान लो, जब उसे गुलामके बगलमें पंक्तिवार खड़ा होना

चाहिये, तब वह सहसा राजपुत्रके बगलमें जाकर खड़ी हो जाती, गुलाम अविच्छिन्नभावसे गम्भीर स्वरमें कहता—“बीबी, तुम भूल गईं।” सुनकर पानकी बेगमका स्वभावतः रक्त-कपोल और भी मुर्ख हो जाता, उसकी निर्निमेष प्रशान्तदृष्टि नीचेको झुक जाती। राजपुत्र उत्तर देता—“भूल नहीं हुई है, आजसे मैं ही गुलाम हूँ।”

तुरंत खिले हुए रमणी-हृदयसे यह क्या अपूर्व शोभा निकलने लगी, यह कैसा अचिन्तनीय लावण्य विकसित होने लगा। उसकी गतिमें यह कैसा समधुर चांचल्य है, उसकी दृष्टिमें यह कैसी हृदयकी तरंगें हैं, उसके सारे अस्तित्वसे यह कैसा सुगन्ध-युक्त आरति-उच्छ्रवास उच्छ्रवसित हो रहा है।

इस नवीन अपराधिनीकी भूल सुधारनेकी तरफ ध्यान देते हुए आजकल और सबोंको भी भ्रम होने लगा है। इका अपने समीचीन मानकी रक्षा करना भूल गया, बादशाह और गुलाममें अब कोई भेदभाव न रहा, नहला-दहला तक न जाने कैसे हो गये हैं!

इस पुराने द्वीपमें वसन्तकी कोयल बहुत बार बोली है; पर अबकी बार जैसी बोली है, ऐसी और कभी नहीं बोली। समुद्र हमेशासे एक ही तरहका स्वर अलापता आ रहा है, इतने दिनोंसे वह सनातन विधानकी अलंधनीय महिमा एकस्वरमें गाता आया है, किन्तु आज वह सहसा दक्षिणी हवासे चंचल उठती हुई विश्वव्यापी यौवन-तरंगोंकी तरह प्रकाश और छायामें, भाव और भाषामें अपनी अथाह आकुलता व्यक्त करनेकी कोशिश करने लगा।

[ ७ ]

**क्या** यही वह इक्का है, यही वह बादशाह है ! यह वही गुलाम है ! कहां गई वह परिपुष्ट परिपुष्ट सुगोल सुखच्छबि ! कोई आकाशकी ओर देखता है, तो कोई समुद्रके किनारे बैठा है ; किसीको गतमें नींद नहीं आती, तो किसीको भोजन नहीं रुचता ।

मुँहपर किसीके ईर्ष्या है, तो किसीके अनुगाम ; किसीके व्याकुलता है, तो किसीके संशय । कहीं हँसी है, तो कहीं रोना, कहीं संगीत । सभी कोई अपनी-अपनी ओर और दूसरोंकी ओर देख रहे हैं । सभी कोई अपने साथ दूसरोंकी तुलना कर रहे हैं ।

इक्का सोच रहा है कि युवक बादशाह वैसे देखनेमें तो बुरा नहीं है, पर उसके मुँहपर सुन्दरता नहीं—मेरे चाल-चलनके अन्दर ऐसा एक माहात्म्य है कि बाज़-बाज़ आदमीकी निगाह मेरी तरफ बिना खिंचे रह ही नहीं सकती ।

बादशाह सोच रहा है कि इक्का हमेशा बड़े मिजाजसे गरदन टेढ़ी किये इठलाता है ; वह समझता है कि उसे देखकर बेगमोंकी छाती फटती होगी !—मन-ही-मन कहता हुआ जरा तिरछी हँसी हँसकर दर्पणमें अपना मुँह देखता है ।

देश-भरमें जितनी भी बेगम थीं, सब खूब शृङ्खार करतीं और परस्पर एक दूसरीसे कहतीं—“अरे, बस, रहने भी दो ! मरी क्यों जातीं हो ? मानिनियोंकी इतनी सज-धजकी धूम किस लिए ? उसका रंग-ढंग देखकर तो शरम आती है ।”—कहकर दूने प्रयत्नसे हाव-भाव फैलाती रहतीं हैं ।

और, कहीं दो सखा, तो कहीं दो समियां मिलकर गलवहियां डाले एकान्तमें बैठो हुई गुप्त वातचीत कर रही हैं। कभी हँसतीं, तो कभी रोतीं हैं; कभी गुस्सा होतीं, तो कभी मान-अभिमान चलता, और पीछेसे फिर मनातीं फिरतीं हैं।

युवकगण सड़कके किनारे वनकी छायामें पेड़ोंकी जड़से पीठ लगाये ज़मीनपर पड़े हुए सूखे पत्तोंपर पैर पसारे आलसमें बैठे रहते हैं। बालायें सुनील वस्त्र पहने उस छाया-पश्चरे अपनी धुनमें चलतीं-फिरतीं और वहां आकर मुँह झुकाकर अर्थाये फेर लेतीं; मानो किसीको देखा ही नहीं है, मानो किसीको दिखाने नहीं आई है, ऐसा हाव-भाव दिखलाती हुई चली जाती हैं।

यह सब देखकर कोई-कोई पागल युवक दुःसाहसकी लकड़ी टेकता हुआ जलदी-जलदी पास पहुँचता, किन्तु मनके पसन्दकी एक भी बात याद नहीं आती, शर्मिन्दा होकर खड़ा रह जाता, अनुकूल अवसर निकल जाता, और रमणी भी अतीत क्षणकी तगड़ क्रमशः दूर जाकर विलीन हो जाती।

सिरपर चिड़ियाँ बोलती रहतीं, पवन अंचल और फेले हुए घुँघराले बालोंको उड़ाती हुई सनसनाती चलो जाती, वृक्षोंके पल्लव भरभर मरमर करते रहते, और समुद्रकी अविश्राम उच्छृंखलित ध्वनि हृदयकी अव्यक्त वासनाको ढूनी बढ़ा देती है।

एक वसन्तमें तीन विदेशी युवकोंने आकर सूखी गंगामें ऐसा ही एक भागी तूफान उठा दिया।

[ ८ ]

**रा**जपुत्रने देखा कि ज्वार-भाटा—उतार-चढ़ावके बीचमें साग देश थरथरा रहा है,—मुँहपर बात किसीके नहीं, केवल एक दूसरेकी मुँह-देखादेखी, सिफ़र एक कदम बढ़ा और दो कदम पीछे हटना है, केवल अपने मनकी वासनाओंका ढेर लगाकर बालूके महल चिनना और तोड़ना है। सभी अपने घरके कोनेमें बैठकर अपनी अग्रिमें अपनी ही आहुति दे रहे हैं, दिनपर दिन कृश और वाष्यहीन होते जा रहे हैं। सिफ़र आँखें दोनों जल रही हैं और अन्तःकरणकी बाणीके आन्दोलनसे ओष्ठाधर वायुसे कम्पित पल्लवोंकी तरह काँप रहे हैं।

राजपुत्रने सबको बुलाकर कहा—“बंशी लाओ, तुरही-भेरी बजाओ, सब आनन्दध्वनि करो, पानकी वेगमङ्का स्वयंवर होगा।”

उसी समय नहले-दहलेने अपनी-अपनी वंसियोंमें फूँक देनी शुरू कर दी, दुक्की-तिक्की तुरही-भेरी लेकर चिपट गईं। सहसा इस तुमुल आनन्द-तरंगसे वह कानाफूँसी मुँह देखादेखी बन्द हो गई।

उत्सवमें खी-पुरुष सब एकत्र मिलकर कितनी बातें, कितनी हँसी, कितना मज़ाक करने लगे ! मसखरी-मसखरीमें कितनी मनकी बातें कहीं, व्यंग्य-ही-व्यंग्यमें कितना अविश्वास दिखाया, उच्च हास्यमें कितनी तुच्छ बातें होती रहीं। घने जंगलमें ज़ोरोंकी हवा चलनेपर जैसे शाखाओं-शाखाओंमें, पत्तों-पत्तोंमें, लता और वृक्षोंमें परस्पर नाना प्रकारसे हिलना-डुलना मिलना-जुलना होता रहता है, इनमें भी वैसा ही होने लगा।

ऐसे कोलाहल और आनन्दोत्सवके समय बंसीमें सबोरेसे बड़े मधुरस्वरमें शहाना बजने लगी । उस आनन्दमें गम्भीरताका, मिलनमें व्याकुलताका, विश्वदृश्यमें सुन्दरताका और हृदयोंमें प्रीतिकी वेदनाका संचार होने लगा । जो अच्छी नग्न प्रेम नहीं करते थे, वे खूब प्रेम करने लगे, और जो प्रेम करते थे, वे आनन्दमें उदास हो गये ।

पानकी बेगम कपड़े पहनकर तमाम दिन एक गुप्त छाया-कुंजमें बैठी थी । उसके कानोंमें भी दूरसे शहानाकी तान प्रवेश कर रही थी, और आँखें उसकी मुँदी आती थीं; सहसा उसने आँखें खोलकर देखा, नो सामने राजपुत्र बैठा हुआ उसके मुँहकी तरफ देख रहा है; उसे कंपकंपी आ गई, दोनों हाथोंसे अपना मुँह ढककर वह ज़मीनपर धूलमें लोटने लगी ।

राजपुत्र दिन-भर झुकेले समुद्रके किनारे टहलते हुए उसके संत्रस्त हृषिपान और सलज्ज लोटनेकी बातपर मन-ही-मन आलोचना करने लगे ।

गतको सैकड़ों-हजारों प्रदीपोंके प्रकाशमें, मालाओंकी सुगन्धमें, वंशीकी ध्वनिमें, अलंकृत सुसज्जित सहास्य श्रेणीबद्ध युवकोंकी सभामें एक बालिका धीरे-धीरे कम्पित चरणोंसे माला हाथमें लिये राजपुत्रके सामने आकर मस्तक झुकाये खड़ी हो गई । अभिलापित कण्ठ तक माला भी न पहुँचो, अभिलापित मुँहकी ओर आँखें भी न उठा सकी । राजपुत्रने तब स्वयं ही सिर झुका दिया, और माला स्वलिन होकर उनके कण्ठमें पड़ गई । चित्रवत् निस्तब्ध सभा सहसा आनन्दोच्छ्वाससे गुंजायमान हो उठी ।

सबने वर-वधुको बड़े आदरके साथ सिंहासनपर बिठाया।  
राजपुत्रका सबने मिलकर राज्याभिषेक किया।

समुद्र-पारकी दुःखिनी निर्वासित रानी सोनेकी नावपर बैठकर  
पुत्रके नवीन राज्यमें आ गई।

तसवीरोंका गुट्ट सहसा आदमी बन गया। अब यहां पहलेकी  
तरह अविच्छिन्न शान्ति और अपरिवर्तनीय गम्भीरता नहीं है। संसार-  
प्रवाहने अपने सुख-दुःख, राग-द्वेष, सम्पद-विषदके साथ-साथ इस  
नवीन राजाके नये राज्यको परिपूर्ण कर डाला है। अब कोई अच्छा  
है, कोई बुरा है, किसीको विपाद है—अब सब आदमी हैं। अब सब  
अलंब्य विधि विधानके अनुसार निरीह नहीं, किन्तु अपनी  
इच्छानुसार सज्जन और दुर्जन हैं।

[ आषाढ, १९४६ ]

---

## जीवित और मृत

पहला परिच्छेद

रानीहाटके जमीदार शारदाशंकर वावूके घरकी विधवा बहू बेचागीके  
मायकेमें कोई न'था ; सभी एक-एक करके मर चुके थे ।  
समुरालमें भी ठीक अपना कहनेको कोई नहीं है ; न पति है, न पुत्र ।  
एक जेठौत है, शारदाशंकरका छोटा लड़का ; वही उसकी आँखोंका  
तारा है । उसके पैदा होनेके बाद उसकी माँको वड़ी सख्त बीमारीने  
धेर लिया था, उसमें वह बहुत दिनों तक कष्ट पाती रही, इसलिए इस  
विधवा चाची कादम्बिनीने ही उसे पाल-पोसकर बड़ा किया है ।  
पराये लड़केको पाल-पोसकर बड़ा करनेसे उसपर हृदयका खिचाव—  
स्नेह—मानो और भी बढ़ जाता है ; कारण, उसपर कोई अधिकार  
नहीं रहता—उसपर कोई सामाजिक हक् नहीं, सिर्फ् स्नेहका हक्  
है,—किन्तु सिर्फ् अकेला स्नेह समाजके सामने अपने हक्को किसी  
दलीलके अनुसार प्रमाणित नहीं कर सकता, और करना चाहता

भी नहीं ; केवल वह अपने हृदयके धनको दूनी व्याकुलताके साथ चाहने लगता है ।

विधवा कादम्बिनीने, अपने सारे रुके हुए स्नेहको इस छोटेसे बच्चेपर सीचकर, एक दिन सावनकी रातको एकाएक इस लोकसे कूच कर दिया । सहसा न जाने कैसे उसके हृदयकी धुक्खुकी बन्द हो गई—समय जगतमें और सब जगह ज्यों-का-त्यों चलने लगा, सिर्फ उस स्नेह-पूर्ण छोटेसे कोमल हृदयके भोतर समयकी घड़ीके पुर्जे हमेशाके लिए बन्द हो गये ।

पीछे कहीं पुलिसका अड़ंगा न लग जाय, इस डरसे ज्यादा आडम्बर न बढ़ाकर ज़मीदारके चार ब्राह्मण कर्मचारी शीत्र ही अरथीको शमशान ले गये ।

रानीहाटका मसान गाँवसे बहुत दूर था । तालाबके किनारे एक झाँपड़ी है, और उसके पास एक बड़ा भागी बड़का पेड़ है, चारों तरफ मंदान-ही-मंदान नज़र आता है, और कुछ नहीं । पहले यहाँ नदी बहती थी, अब वह बिलकुल सूख गई है ; उसी सूखी नदीका कुछ हिस्सा खोदकर मसानका तालाब बना दिया गया है । यहाँके लोग इस तालाबको ही उस पवित्र नदीका प्रतिनिधि-स्वरूप मानते हैं ।

लाशको झाँपड़ीके भीतर रखकर चारों जने चिनाके लिए लकड़ियोंके आनेकी गह देखने लगे । समय इतना लम्बा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमेंसे निताई और गुरुचरण यह देखनेके लिए चल दिये कि लकड़ी आनेमें इतनी देर क्यों हो रही है । विश्रू और बनमाली अरथीके पास बैठे रहे ।

सावनकी अँधेरी रात है। बादल घिरे हुए हैं, आकाशमें भी नारं दिखाई नहीं देते, अँधेरे घरमें दोनों जने चुपचाप बैठे हुए हैं। एकके दुपट्टे में दियासलाई और बन्ती बंधी हुई थी। बरसातसे सर्द जानेके कारण दियासलाई बहुत जलाई, पर जली नहीं,—साथमें जो लालटेन थी, वह भी बुझ गई।

बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहनेके बाद एकने कहा—“भइया, एक चिलम तम्बाकू कहींसे मिल जाती, तो बड़ा अच्छा होता। जलदीमें कुछ ला भी तो नहीं सके।”

दूसरेने कहा—“मैं चटसे जा कर एक दौड़में सब ला सकता हूँ।”

वनमालीके भागनुके इरादेको ताड़कर विधुने कहा—“देखूँ मुँह!—और मैं यहाँ अकेला रह जाऊँ, क्यों?”

फिर बातचीत बन्द हो गई। पांच मिनट एक घंटेके बगवर मालूम होने लगे। जो लकड़ी लाने गये थे, उन्हें ये मन-ही-मन गालियाँ देने लगे,—उनका यह सन्देह उत्तरोत्तर गहराई तक पहुंचने लगा कि वे अवश्य ही कहीं आगमसे बैठे मज़ेमें तम्बाकू पीते और गप्पे मारते होंगे।

कहीं भी कोई शब्द नहीं,—सिर्फ तालाबके किनारेसे लगातार झाँगुरोंकी झनकार और मेढ़कोंकी टर-टर सुनाई दे रही थी। इनमें ऐसा कुछ मालूम दिया, जैसे खाट कुछ हिली हो—मुरंदने रानो करवट बदला हो।

विधु और वनमाली गुम-नाम जपते हुए काँपने लगे। एकाएक

झोंपड़ीमें एक गहरी उसास-सी सुन पड़ी। विश्रू और वनमाली उसी दम उछलकर झोंपड़ीसे बाहर निकल आये और सीधे गाँवकी तरफ भागे।

करीब डेढ़ कोस गत्ता तथ करनेके बाद देखा, तो उनके दोनों साथी लालटेन हाथमें लिये लौट रहे हैं। दगअसल वे तमाकू ही पी रहे थे, लकड़ीके बारेमें उन्हें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी आकर समाचार दिया—‘पेड़ कटाकर लकड़ी चिरवाई जा रही है, बस अब जल्दी आ जायेंगी।’ तब विश्रू और वनमालीने झोंपड़ीका साग हाल कह सुनाया। निराई और गुम्चरणको इसपर विश्वास न हुआ, और अरथीको अकेले छोड़ आनेके कारण उन दोनोंको गृह फटकार बताई।

फालतू देर न करके चारों जने शीघ्र ही मसानकी उसी झोंपड़ीमें पहुंचे। भीतर जाकर देखा, तो मुरदेका पता नहीं, खाली खटिया पड़ी हुई है।\*

एक दूसरेका मुँह ताकने लगे। कहीं सियार न ले गया हो! पर वहाँ तो ऊपरका कपड़ा तक नहीं है। पता लगाते-लगाते बाहर निकलकर देखा, तो झोंपड़ीके दरवाजेके पास, थोड़ीसी कीच जम गई थी, उसपर किसी स्त्रीके अभी हालके और छोटे-छोटे पद-चिह्न हो रहे हैं।

शारदाशंकर कोई मामूली आदमी नहीं हैं; उन्हें यह भूतकी

\* बंगालमें मुरदेको खटियासे बाँधते नहीं, यों ही कपड़ेसे ढककर ले जाते हैं।

कहानी सुनाकर सहसा उनसे किसी शुभ फलकी आशा करना विलकुल असम्भव बात है। तब चारों आदमियोंने सलाह करके यही तथ किया कि उनसे कह दिया जाय कि ‘दाहकर्म हो गया’— वस, अब इसीमें भलाई है।

सर्वेरकी होनमें जो लकड़ियाँ लेकर आये, उन्हें समाचार मिला, ‘देर होनी देख रात ही में सब काम समाप्त कर दिया गया, भोंपड़ीमें लकड़ियाँ मौजूद थीं।’ इस विपर्यमें जलदी किसीको सन्देह भी नहीं हो सकता,— कागण लाश कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है कि जिसे कोई धोखा देकर उड़ा ले जाय।

### दूसरा परिच्छेद

**स**ब जानते हैं कि, जीवनका जब कोई लक्षण नहीं पाया जाता,

तब भी बहुधा शरीरमें प्राण मौजूद रहते हैं, और यथासमय फिर उस मुग्दा-से शरीरमें उसका कार्य शुरू हो जाता है। कादम्बिनी भी मरी न थी—सहसा किसी कागणसे उसके जीवनकी क्रिया बन्द हो गई थी।

जब वह सचेतन हो उठी, तो देखा कि उसके चारों तरफ घोर अन्धकार-ही-अन्धकार है। हमेशा जहाँ वह सोती थी, मालूम हुआ कि यह वह स्थान नहीं है। एक बार उसने पुकारा—“जीजी”— अंधेरे घरमें किसीने उत्तर न दिया। डरते-डरते उठकर बैठी, उस मृत्यु-शय्याकी बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गये। ओःफ, सहसा छातीके भीतर कैसी भीषण बेदना उठी थी—दम घुट रहा

था । उसकी जिठानी घरके एक कोनेमें बँठी अँगीठीपर लल्लूके लिये दूध गरम कर रही थी,— कादम्बिनीसे मारे दर्दके खड़ा न रहा गया, वह पछाड़ खाकर विछौनेपर गिर पड़ी,— उसने रुधे हुए स्वरसे कहा—“जीजी, ज़ग लल्लूको ले आओ—मेरा जी घबरा रहा है ।” उसके बाद सब काला स्याह हो गया—मानो किसी लिखी हुई कापीपर स्याही-भरी दावात उलट पड़ी—कादम्बिनीकी सारी स्वृति और चेतना—विश्व-ग्रन्थकी सारी लिखावट—पल-भरमें एकाकार हो गई । बंचारी विधवाको इतनी भी सुधि नहीं कि लल्लूने उसे एक बार अन्तिम समय, अपने उस मधुर स्नेहके स्वरमें ‘चाची’ कहकर पुकारा था या नहीं, उसे यह भी याद नहीं कि वह अपनी इस अनन्त और अद्वात मण-यात्राकी लम्बी गैलके लिए अपनी चिरपरिचित पृथ्वीसे उस अन्तिम स्नेहके तोशे—‘चाची’—को लाई है या नहीं ।

पहले तो यही जान पड़ा कि यमपुरी शायद ऐसी ही सुनसान और चिर-अन्धकारमय होती होगी । वहाँ कुछ भी देखनेको नहीं, मुननेको नहीं, काम नहीं, काज नहीं, सिर्फ हमेशा इसी तरह उठकर जागकर बैठे रहना पड़ेगा ।

उसके बाद, जब खुले हुए दरवाजेसे सहसा एक ठंडी बरसाती हवाका भाँका आया और मेढ़कोंकी टर्न-टर्न कानोंमें पड़ी, तब एक ही क्षणमें उसके मनमें अपने स्वल्प जीवनकी बचपनसे लेकर आज तककी सम्पूर्ण वर्षाओंकी स्मृति जाग उठी, और पृथ्वीके निकट-संस्पर्शका उसे अनुभव हुआ । एक बार विजली चमक उठी,— सामने तालाब, बरगदका पेड़, दूर तक मैदान और पेड़-ही-पेड़

क्षण-भरके लिये नज़र आये। याद उठ आई, कभी-कभी पुण्य-तिथिके दिन इस तालाबके किनारे आकर उसने स्नान किया है; और भी स्मरण हो आया, उस समय इसी ममानमें मुगदा देखकर मृत्यु उसे कंसी भयानक जान पड़ती थी।

पहले तो मनमें आई, 'वर लौट चलूँ'। फिर सोचने लगी—'मैं जिन्दा नहीं हूँ, वरमें घुसने क्यों देंगे? वहाँ जानेसे उनका अमंगल होगा। जीव-गञ्यसे मैं तो निर्वासित हो चुकी हूँ—मैं तो अब अपनी प्रेतात्मा हूँ।'

अगर ऐसा न होता, तो वह इस अंधेरी आधी गनमें शारदाशंकरके मुरक्षित अन्तःपुरसे इस दुर्गम शमशानमें आई कैसे? अब भी अगर उसकी अन्त्येष्टिक्रिया समाप्त नहीं हुई है, तो दाग देनेवाले आदमी कहाँ गये? शारदाशंकरके प्रकाशमय मकानमें उसे अपनी मृत्युकी अन्तिम घड़ियोंका स्मरण हो आया, उसके बाद ही गाँवसे बहुत दूर इस मुनसान अन्धकारमय शमशानमें अपनेको अकेली देखकर उसने समझ लिया कि 'मैं इस पृथ्वीके मनुष्य-समाजमें अब कोई भी नहीं हूँ—मैं बहुत ही भीषण हूँ,—अकल्याणकारिणी हूँ; मैं हूँ अपनी प्रेतात्मा।'

मनमें इस बातका उदय होते ही उसे मालूम हुआ कि उसके चारों तरफसे विश्व-नियमके सारे बन्धन मानो टूटकर गिर पड़े। मानो उसमें अद्भुत शक्ति है, असीम स्वाधीनता है,—जहाँ चाहें, जा सकती है; जो चाहें, कर सकती है। इस अभूतपूर्व नवीन भावोंके आविभावसे वह उन्मत्तकी तरह हो गई और सहसा आधीकी तरह

घरसे बाहर निकलकर अन्धकारपूर्ण शमशानके ऊपरसे सत्रातो हुई चली गई,—मनमें लज्जा-भय-चिन्ताका लेशमात्र भी न रहा ।

चलते-चलते पर थक गये, देहमें धकावट आने लगी । मैदानपर मैदान पार करनी गई, पर उनका छोर न आया,—बीच-बीचमें धानके खेत थे,—कहीं-कहीं घुटनोंतक पानी जमा हुआ था । जब पौ फटी, कुछ-कुछ सवेरेका उजेला दिखाई दिया, तब पास ही गाँवकी बस्तीके पेड़ोंमें से दो-एक चिढ़ियोंकी चुहचुहाहट सुन पड़ी ।

तब उसे एक तरहका डर-सा मालूम होने लगा । पृथ्वीके साथ, जीवित मनुष्योंके साथ अब उसका कैसा नया सम्बन्ध हो गया है, उसे इसकी जग भी खबर नहीं । जब तक वह मैदानमें थी, शमशानमें थी, सावनकी गतके अन्धकारमें थी, तब तक मानो वह निर्भय थी, मानो अपने गन्यमें थो । दिनके उजेलमें आदमियोंकी बस्ती उसे बहुत ही डरानी जगह मालूम होने लगी । आदमी भूतसे डरता है, और भूत भी आदमीसे डरता है ; मृत्यु-नदीके दोनों किनारोंपर दोनोंका निवास है ।

### तीसरा परिच्छेद

**का**दम्भिनीके कपड़े कीचसे सन रहे थे, अद्भुत वेश था, रात-भर,

जागनेसे वह पागल-सी हो रही थी । चेहरा उसका ऐसा हो रहा था कि आदमी उसे देखकर डर सकते थे और लड़के तो शायद दूर भागकर उसे ढेले मारते । सौभाग्यवश एक राह चलते भले-आदमीने उसे सबसे पहले इस दशामें देखा ।

उसने पास आकर पूछा—“बेटी ! तुम किसी भले घरकी कुल-वधु जान पड़ती हो, तुम इस दशामें अकेली कहाँ जा रही हो ?”

कादम्बिनीने पहले तो कुछ उत्तर न दिया, यों ही उसके मुँहकी तरफ ताकती रही। एकाएक उसे कुछ सूझ न पड़ा। वह संसागमें मौजूद है, किसी भले घरकी कुलवधु-सी जान पड़ती है, गह चलना पथिक उससे कुछ पूछ रहा है, ये सब बातें उसे अनहोनी-सी जान पड़ने लगीं।

पथिकने उससे फिर पूछा—“चलो, बेटी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूँ, तुम्हाग घर कहाँ है, मुझे बताओ।”

कादम्बिनी सोचने लगी—ससुगल लौटना तो अब फिजूल है, वहाँ स्थान कहाँ ? और मायकेमें है ही कौन ? तब उसे अपनी चर्चपनकी सहेलीकी याद आई।

सहेली योगमायाके साथ यद्यपि छुटपनसे ही बिछोह हो गया था, फिर भी बीच-बीचमें उससे चिट्ठी-पत्री चलती रहती थी। कभी-कभी बड़े जोरेसे प्यारकी लड़ाई चलती—कादम्बिनी दिखाना चाहती कि उसका प्रेम प्रबल है, वह बहुत चाहती है, और योगमाया जताना चाहती कि जितना वह चाहती है, उतना सखीकी तरफसे प्रेम नहीं मिलता। दोनों हों इस बातका दावा रखती थीं कि किसी मौकेपर एक बार दोनोंका मिलन हो जाय, तो कोई भी किसीको वड़ी-भरके लिए आँख-ओम्फल न होने दे।

कादम्बिनीने उस भले-आदमीसे कहा—“निशिन्दापुरमें श्रीपति बाबूके घर जाऊँगी।”

वह पथिक कलकत्ते जा रहा था ; निशिन्दापुर यद्यपि पास न था, फिर भी उसके गास्तेमें ही पड़ता था । उसने स्वयं इन्तज़ाम करके कादम्बिनीको श्रीपति बाबूके घर पहुंचा दिया ।

दोनों सखियोंमें मिलाप हुआ । पहले पहचाननेमें कुछ देर लगी, फिर बादमें बचपनका सादृश्य दोनोंकी आँखोंमें क्रमशः परिस्फुटित हो उठा ।

योगमायाने कहा—“आज मेरे बड़े भाग्य हैं ! सचमुच तुम्हारे दर्शन पानेकी मुझे कोई आशा ही नहीं थी । पर वहन, तुम आईं किस तरह ? समुगलवालोंने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया !”

कादम्बिनी चुप रही ; अन्तमें बोली—“वहन समुगलकी बात मुझसे न पूछो ! मुझे दासीकी तरह अपने यहाँ एक कोनेमें रहने दो, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगी ।”

योगमायाने कहा—“वहन, तुम कौसी बातें कर रही हो ! दासीकी तरह क्यों रहोगी ? तुम तो मेरी सहेली हो, तुम मेरी…”—इत्यादि ।

इतनेमें श्रीपति चले आये । कादम्बिनी कुछ देर तो उनके मुँहकी ओर देखती रही, फिर धीरे-धीरे कमरेसे बाहर निकल आई ; न बूँधट खींचा, न किसी तरहका संकोच या सलज्ज भाव ही दिखलाया ।

कहाँ उसकी सहेलीके विरुद्ध श्रीपति कुछ खयाल न कर बैठे, इस खयालसे योगमायाने बड़ी फुर्तीके साथ पतिको तरह-तरहसे समझाना शुरू किया । परन्तु इतना कम समझाना पड़ा और श्रीपतिने इतनी जल्दी योगमायाकी सब बातें मान लीं कि योगमाया अपने मनमें विशेष सन्तुष्ट न हुई ।

काढ़मिवनी सहेलीके घर आई तो सही, पर सहेलीसे ज्यादा हिल-मिल न सकी—बीचमें मृत्युका व्यवधान था। अपने सम्बन्धमें सर्वदा एक तगहका सन्देह और सजग-भाव बना रहे तो दूसरोंसे हिलना-मिलना कठिन हो जाता है। काढ़मिवनी योगमायाके मुंहकी ओर देखती और न जाने क्या सोचती रहती है,—उसे मालूम होता कि मानो वह अपने पति और घर-गिरम्तीके साथ बहुत दूर किसी और ही संसारमें है। प्रश्नीके लोग मानो स्नेह-ममता और कर्तव्योंसे घिरे हुए हैं, और वह मानो शृन्य छाया है। मानो उसकी सखी अस्तित्वके देशमें है और वह अनन्तके बीचमें।

योगमायाका जी भी न जाने कैसा हो गया, वह कुछ भी न समझ सकी। स्त्रियोंको रहस्य नहीं मुहाना,—कारण अनिश्चितको लेकर कविता की जा सकती है, वीरता दिग्वाई जा सकती है, पाण्डित्य प्रकट किया जा सकता है, किन्तु घर-गिरम्ती नहीं की जा सकती। इसीलिए स्त्रियाँ जिसे समझ नहीं पातीं, उसके अस्तित्वको नष्ट करके या तो उसके साथ किसी तरहका सम्बन्ध ही नहीं रखतीं, या किर उसे अपने हाथसे नया रूप देकर अपने काम आने-लायक चीज़ बना लेती हैं,—और यदि दोनोंमेंसे एक भी बात न हो सकी, तो किर उसपर खूब खीझती रहती है।

काढ़मिवनी ज्यों-ज्यों पहेलीकी तरह दुर्बोध होने लगी, यों-यों योगमाया मन-ही-मन उससे खीझने लगी; सोचती, यह कौनसी बला आ पड़ी सिरपर ?

एक और आफ्रत है। काढ़मिवनी स्वयं अपनेसे डरती है !

क्या करे, अपने पाससे आप वह किसी तरह भाग नहीं सकती। जो भूतसे डरते हैं, उन्हें अपने पीछे डर जान पड़ता है,—जहाँ दृष्टि नहीं पहुंचती, वहाँ डर है। परन्तु, काढ़मिनीको अपनेमें ही सबसे ज्यादा डर है—वाहर नहीं।

इसीलिए किसी-किसी दिन दोपहरको वह सूनी कोठरीमें एकाएक चिल्हा उठती है,—और सन्ध्याके बाद दीपकके उज्ज्वलमें अपनी परछाई देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाने हैं।

उसकी यह हालत देखकर घर-भरके लोगोंके मनमें एक तरहका भय उत्पन्न हो गया। नौकर-नौकरगनी और योगमाया तकको जहाँ-नहाँ जब-तब भूत दिखलाई देने लगे।

एक दिन ऐसा हुआ कि काढ़मिनी आधी रातको अपनी कोठरी में से निकलकर गती हुई एकदम योगमायाके कमरेके दरवाजेके पास आ खड़ी हुई, और बोली—“जीजी, जीजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे अकेली मत छोड़ा करो।”

योगमाया जैसे डरी, वैसे गुस्सा भी उसे खूब आया। मनमें आई कि उसी घड़ी उसे निकाल वाहर करे; परन्तु श्रीपतिको दिया आ गई, उसने बड़ी मुश्किलसे उसे शान्त करके बगलकी कोठरीमें उसके गहनेका प्रबन्ध कर दिया।

दूसरे दिन श्रीपति बै-वक्तु अन्तःपुरमें तलव किये गये। योगमायाने उन्हें एकाएक डॉटना शुरू कर दिया—“क्यों जी, तुम कैसे आदमी हो! एक औरत अपनी सुसराल छोड़कर महीने भरसे तुम्हारे घरपर रह रही है, जानेका नाम तक नहीं लेती, और

तुम्हारे मुँहसे 'उँह' तक नहीं निकलनी, यह बान क्या है ? तुम्हारे मनमें क्या है, जग बनाओ तो सही । तुम मरदोंकी क्रौम ही ऐसी है ।"

वास्तवमें साधारण स्त्री-जातिपर पुरुषोंका एक प्रकारका चिना विचारका पक्षपात होता है, और उसके लिये स्त्रियाँ ही उन्हें अधिक अपराधी सावित करती हैं । असहाय—किन्तु मुन्दरी—कादम्बिनी पर श्रीपतिकी करुणा उचिन मात्रासे कुछ ज्यादा थी, इस बातके विरुद्ध वे योगमायाकी देह छुकर कसम खानेको तैयार रहते, लेकिन फिर भी उनके आचरणोंसे योगमायाकी धारणा ही पुष्ट होती थी ।

वे मनमें समझते थे कि सुसरालवाले अवश्य ही इस पुत्र-हीन विधवाके साथ निर्दय व्यवहार करते होंगे, इसीसे बहुत जी ऊब जानेके कारण उसने हमारे घरमें आकर आश्रय लिया है । जब कि इसके मा-बाप कोई नहीं हैं, तो मैं इसे कैसे निकाल दूँ ! यही समझकर अब तक उन्होंने कादम्बिनीके विषयमें कुछ जाच-पड़ताल नहीं की थी, और कादम्बिनीसे भी ऐसी बातें पूछकर उसका जी दुखाना उचिन नहीं समझा था ।

तब उनकी खीने उनकी निश्चेष्ट कर्तव्य-बुद्धिपर अनेक प्रकारसे आघात पहुँचाना शुरू किया । इस बातको वे अच्छी तरह समझ गये कि कम-से-कम अपने घरमें शान्ति बनाये रखनेके लिये कादम्बिनीकी सुसरालमें खबर पहुँचाना ज़रूरी है । अन्तमें निश्चय किया कि एकाएक चिट्ठी पहुँचनेसे उसका असर शायद अच्छा न भी हो, इसलिये बेहतर है कि खड़ ही गानीहाट जाकर मामलेको समझ आवे ।

श्रीपति तो चले गये गनीहाट, इधर योगमायाने आकर कादम्बिनीसे कहा—“वहन, अब यहां तुम्हारा रहना अच्छा नहीं मालूम देता ! लोग क्या कहेंगे !”

कादम्बिनीने गम्भीर दृष्टिसे योगमायाके मुँहकी ओर देखते हुए कहा—“लोगोंके साथ मेंग सम्बन्ध ही क्या है ?”

उत्तर मुनकर योगमाया ढंग रह गई। कुछ गुस्सेमें आकर कहा—“तुम्हारा न सही, मेरा तो है ! हम पराये घरकी बहु-बटीको कैसे और क्या कहकर अपने यहां रोक रखते ?”

कादम्बिनीने कहा—“मेरी सुसराल कहां है ?”

योगमायाने अपने मनमें कहा—“मर जा !—कलमुँही कहती क्या है ?”

कादम्बिनीने धीरे-धीरे कहा—“मैं क्या तुम लोगोंकी कोई हूँ ? मैं क्या इस दुनियाँकी हूँ ? तुम लोग हँसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, सब कोई अपने-अपनेके साथ आनन्दसे गहते हो, मैं तो सिर्फ देखती भर हूँ ! तुम लोग आदमी हो, और मैं हूँ छाया ! समझमें नहीं आता, भगवानने मुझे तुम लोगोंकी गिरस्तीके बीचमें क्यों डाल रखा है ! तुम लोग भी डरते हो, कहीं तुम्हारे हँसी-खेलमें मैं अमंगल न ला दूँ,—मैं भी समझ नहीं पाती कि तुम लोगोंसे मेंग क्या सम्बन्ध है ? पर भगवान ही ने जब हम लोगोंके लिये कोई अलहदा जगह मुकर्रर नहीं की है, तो क्या किया जाय ? इसीसे वन्धन टूट जानेपर भी तुम्हीं लोगोंके आस-पास धूम फिर रही हूँ !”

ये बातें उसने योगमायाके मँहकी तरफ देखते हुए इस ढंगसे

कहीं कि योगमाया न-जाने क्याका क्या समझ गई, किन्तु असल वात उसकी समझमें न आई, और न वह कुछ उत्तर ही दे सकी। दूसरी बार वह कुछ पूछ भी न सकी। वहुत ही भास्यमस्त गम्भीर होकर वहांसे चली गई।

### चौथा परिच्छेद

**रा**तके कर्णीब दस बजे होंगे, तब श्रीपति गनीहाटसे लैटे। खुब मूसलधार वर्षा हो रही थी। लगातार उसके भरभर शब्दसे मालूम होता था कि न आज वर्षा खत्म होगी, न रात।

योगमायाने पूछा—“क्या हुआ ?”

श्रीपतिने कहा—“धहुतसी बातें हैं, पीछे बताऊँगा।” कहते हुए उन्होंने कपड़े उतार, भोजन किया, फिर तमाकू पीकर सोने चले गये। वडे चिन्तित थे।

योगमाया बहुत देरसे अपने कुनूहलको दबाये बंठी थी, पलंगपर पहुँचते ही पूछने लगी—“हाँ, बताओ अब, क्या हुआ ?”

श्रीपतिने कहा—“ज़रूर तुमने भूल की है।”

सुनते ही योगमायाको ज़ग गुस्सा-सा आ गया। भूल तो खियोंसे कभी हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी जाय, तो किसी बुद्धिमान पुरुषको उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिये, उसे अपने ऊपर ले लेना ही ठोक है। योगमायाने कुछ गर्म होकर कहा—“कंस, ज़रा मैं भी तो सुनूँ !”

श्रीपतिने कहा—“जिस स्थीको तुमने अपने यहां स्थान दिया है, वह तुम्हारी कादम्बिनी नहीं है !”

ऐसी बात सुनकर सहज ही क्रोध आ सकता है,—और खासकर अपने पतिके मुँहसे सुननेपर तो कहना ही क्या । योगमायाने कहा—“अपनी सहेलीको मैं नहीं पहचानती, तुम्हारे पहचनवानेपर पहचानँगी, क्यों ? —इनका बात कहनेका ढंग तो देखो !—”

श्रीपतिने समझाया, यहां बात कहनेके ढंगपर कोई नक्क नहीं हो गहा, प्रमाण देखना चाहिये । योगमायाकी सहेली जो कादम्बिनी थी, वह तो मर चुकी, इसमें रत्ती-भर भी सन्देह नहीं ।

योगमायाने कहा—“ज़रा इनकी बातें तो सुनो ! ज़रूर तुम कुछ न-कुछ ग़लती कर आये हो । न-जाने कहांके मारे कहां पहुँचे होगे, क्या सुनते क्या सुना होगा, कुछ ठीक थोड़ा ही है । तुम्हें खूद जानेको किसने कहा था, एक चिट्ठी डालकर पृथु लेते तो सब मामला ही साफ़ हो जाता ।”

अपनी कार्य-कुशलतापर स्थीका विश्वास न जमते देख श्रीपति बड़े दुःखित हुए, और विस्तृत रूपसे तमाम प्रमाणोंका प्रयोग करने लगे,—लेकिन कुछ नतीजा न निकला । दोनों ओरसे ‘हाँ, ना’ करते-करते गतके बारह बज गये ।

यद्यपि कादम्बिनीको इसी घड़ी घरसे निकाल वाहर करनेमें पति-पत्नीमें कोई मतभेद न था,—कारण, श्रीपति समझते थे कि उनके अतिथिने छद्य-परिचय देकर उनकी स्थीको धोखा दिया है और योग-मायाका विश्वास था कि वह कुलमें दाग लगाकर निकल आई है,—

फिर भी वर्तमान तर्कमें दोनों में से कोई भी हार माननेको तैयार नहीं।

दोनोंका कंठस्वर धीरे-धीरे उँचा हो चला, दोनों ही इस बातको भूल गये कि बगलकी कोठरीमें कादम्बिनी सो रही है।

एक कहता—“अच्छी आफनमें जान फँसी ! अपने कानोंसे सुन आया हूँ !”

दूसरा हृष्टाके साथ कहता—“मान केसे लं, में अपनी आँखोंसे देख रही हूँ !”

अन्तमें योगमायाने पूछा—“अच्छा, कादम्बिनी कब मरी बताओ ?”

उसने मनमें सोचा कि कादम्बिनीकी किसी एक चिट्ठीकी तारीखके साथ उसके मरनेकी तारीखमें फर्क दिखाकर पतिकी गलती सावित कर दूँगी।

श्रीपतिने जो तारीख बताई, उससे दोनोंने हिमाव लगाकर देखा कि जिस दिन शामको कादम्बिनी उनके घर आई थी, उस दिनकी तारीख ठीक उससे एक दिन पहलेकी पड़ती है ! सुनते ही योगमायाकी छाती एकाएक काँप उठी, श्रीपतिको भी दहदका-सा बँठ गया।

इतनेमें कमरेका दरवाजा खुल गया, वरसाती हवाके एक झोकेसे भीतरका चिराग चटसे बुझ गया। बाहरके अन्धकारने घरमें घुसकर कमरे-भरमें अंधेरा कर दिया। कादम्बिनी एकदम घरके भीतर आकर खड़ी हो गई। उस समय करीब ढाई पहर गत बीत चुकी थी, बाहर जोरेंसे पानी पड़ रहा था।

कादम्बिनीने कहा—“सखी, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूं, पर अब मैं ज़िन्दा नहीं ! मैं मरी हुई हूं।”

योगमाया मारे डगके चिल्हा उठी,—श्रीपतिके मुहसें कोई शब्द न निकला ।

“परन्तु मरनेके सिवा मैंने तुम लोगोंका और क्या विगाड़ा है ! मेरे लिए अगर, इस लोकमें और परलोकमें, कहीं भी स्थान नहीं है, तो—क्यों जी, मैं अब कहाँ जाऊँ ?” तीव्र स्वरसे चीत्कार करके मानो उसने इस गम्भीर वर्षा-निशीथमें सोते हुए विधाताको जगाकर पूछा—“क्यों जी, मैं अब कहाँ जाऊँ ?”

इतना कहकर, मूर्छित दम्पतीको अँधेरे घरमें छोड़कर, कादम्बिनी विश्व-संसारमें अपने लिए स्थान ढूँढ़ने चल दी ।

### पाँचवाँ परिच्छेद

**का**दम्बिनी किस तरह रानीहाट पहुंच गई, यह बतलाना कठिन

है । परन्तु पहले-पहल उसने अपनेको किसीकी दृष्टिमें नहीं पड़ने दिया । तमाम दिन भूखी-प्यासी एक टूटे-फूटे पुराने खंडहर मन्दिरमें पड़ी रही ।

वर्षाकी अकाल-सन्ध्या जब अत्यन्त घनो हो आई और शीघ्र ही भारी आँधी-मेह आनेकी आशंकासे जब गांवके लोग जल्दी-जल्दी अपने-अपने घर पहुंचकर निश्चिन्त होने लगे, तब कादम्बिनी सड़कपर निकली । सुसरालके ढारपर पहुंचते ही एकबार उसका हृदय काँप उठा

था, परन्तु लम्बा धूंधट खींचकर जब भीनर घुसी, तो दासी समझकर दग्धानोंने उसे रोका नहीं; इतनेमें पानी भी खूब जोरेंसे पड़ने लगा, हवा भी खूब तेज़ चलने लगो।

उस समय घरकी मालिकिन शारदाशंकरकी रुपी अपनी विधवा ननदके साथ ताश खेल रही थीं। महरी थी रसोईघरमें, और बीमार बचा जगा-कुछ युखार ढीला पड़ जानेसे सोनेके कमरमें बिछौनेपर सो रहा था। कादस्त्रिवनी सबकी आँख बचाकर उसी कमरमें पहुंची। मालूम नहीं, वह क्या सोचकर मुसगाल आई थीं; वह गुद भी शायद नहीं जानती। वह तो सिर्फ इतना ही जानती है कि एक बार अपने प्यारे बच्चेको आँखोंसे देख आवे। उसके बाद, कहां जायगी, क्या करेगी, क्या होगा, ये बातें उसने सोची तक न थीं।

दीपकके उजेलेमें देखा कि रोगसे पीड़ित मुरझाया हुआ कमज़ोर बालक हाथोंकी मुट्ठी बांधे पड़ा सो रहा है। देखते ही विधवाका उत्तम हृदय मानो प्याससे ब्याकुल हो उठा, उसकी सागी बलाओंको टालकर उसे एक बार उठाकर छातीमें बिना लगाये वह कैसे जी सकती है! और, उसके बाद, पिर सोचने लगी,—मैं नहीं हूं, इसको देखनेवाला कौन है। इसकी माको तो सोहबत अच्छी लगती है, दिन-भर गप्पे करा लो, ताश खिला लो, इतने दिन मेरे हाथ सोंपकर वह निश्चिन्त थी, कभी उसे लड़के पालनेकी दिक्षत नहीं उठानी पड़ी। अब इसकी उनी देखभाल कौन करता होगा?

इसी समय लहलूने सहसा कम्बट बढ़ली, और उसी तरह अर्ध-निद्रित अवस्थामें बोल उठा—“चाची, पानी!” ‘हाय भगवान्!

सोनेका सूआ मेरा, तू अपनी चाचीको अभी तक नहीं भूला ! कादम्बिनीने जलदीसे सुगहीमेंसे पानी लेकर, लल्लूको छातोसे लगाकर पानी पिलाया ।

जब तक नींदकी खुमारी थी, हमेशांके अभ्यासके अनुसार चाचीके हाथसे पानी पीनेमें लल्लूको कुछ भी आश्रय नहीं हुआ । अन्तमें कादम्बिनीने जब बहुत दिनोंकी अकांक्षा मिटाकर उसका मुँह चूमकर उसे फिरसे सुलाना चाहा, तो उसकी नींद उछट गई, चाचीसे लिपटकर उसने पूछा—“चाची, तू मल गई थी ?”

चाचीने कहा—“हाँ, बेटा !”

“फिल तू लल्लूके पास आई है ? अब तू मलेगी तो नई ?”

इसका उत्तर दे भी न पाई कि एक घटना और हो गई; महरी एक कटोरेमें सावूदाना लिये घरमें घुस रही थी, एकाएक कटोरा पटककर—‘अम्मा री’—चिलाती हुई वह ज़मीनपर पछाड़ खाकर गिर पड़ी ।

चिलाहट सुनते ही ताश फेंककर मालिकिन दौड़ी आईं, कमरेमें पैर रखते ही वे काठके ढूँठकी तरह खड़ी रह गईं, न भाग ही सकीं, न मुँहसे कुछ कह सकीं ।

यह सब देखकर लड़केके मनमें भी डर-सा बैठ गया—वह रोने लगा, बोला—“चाची, तू जा !”

कादम्बिनीको बहुत दिन बाद आज अनुभव हुआ कि वह मरी नहीं है,—वही पुराना घर-द्वार, वही सब कुछ, वही लल्लू, वही स्नेह उसके लिये समान जीवित दशामें ही है, बीचमें कोई विच्छेद, कोई

व्यवधान नहीं हुआ। सहेलीके घर जाकर उसने अनुभव किया था, उसकी बाल्यकालकी वह सहेली मर गई है,—लल्लूके घर आकर उसको मालूम हुआ, लल्लूकी चाची तो रक्ती भर भी नहीं मरी।

व्याकुल होकर बोली—“जीजी, तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों रही हो ! यह देखो, मैं तुम्हारी वही—वंसो ही तो हूँ।

मालिनिसे खड़ा न रहा गया, मृत्तिंश्च होकर गिर पड़ी।

बहनके जरिये खबर पाकर शारदाशंकर बाबू स्वयं अन्तःपुरमें आ पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कादम्बिनीसे कहा—“छोटी बहू, क्या तुम्हें यही चाहिये था ? वस, सतीश ही हमारे वंशका एक लड़का है, उसपर तुम क्यों दृष्टि डाल रही हो ? हम लोग क्या तुम्हारे गैर हैं ? तुम्हारे मरनेके बादसे वह दिन-पर-दिन मूर्खा जा रहा है, उसकी बीमारी उसे छोड़ती ही नहीं। दिन-रात वह ‘चाची, चाची’ किया करता है। जब तुम संसारसे विदा ही ले चुकी हो, तो फिर यह व्यर्थकी माया-ममता क्यों ? इसे भी छोड़ दो,—हम लोग तुम्हारा यथोचित सत्कार करेंगे !”

कादम्बिनीसे अब सहा न रहा, वह तीव्र स्वरसे बोल उठी—“हाय हाय, मैं मरी नहीं हूँ ! हाय, मैं तुम लोगोंको कैसे समझाऊँ कि मैं मरी नहीं हूँ ! यह देखो, मैं ज़िनदा हूँ !”—

कहती हुई वह ज़मीनसे फूलका कटोरा उठाकर माथेसे मारने लगी,—भेजा फटकर खून वहने लगा।

तब बोली—“यह देखो, मैं जीती हूँ !”

शारदाशंकर कठपुतलीकी तरह खड़े रहे—लल्लू डरके मारे,

‘वावू, वावू’ पुकारने लगा, दोनों मूर्च्छित स्त्रियां ज़मीनपर पड़ो रहीं ।

तब कादम्बिनी—“हाय, मैं मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं”—चिल्हाती हुई घरसे बाहर निकली और सीढ़ियोंसे उतरकर अन्तःपुरके तालाबमें कूद पड़ी । शारदाशंकरको ऊपरके कमरेमें ही किसीके पानीमें गिरनेका धमाका सुनाई दिया ।

सारी रात पानी बरसता रहा, उसके दूसरे दिन सबेरे भी वर्षा बन्द नहीं हुई—दोपहरको भी पानी बरसता रहा ।

कादम्बिनीने मरकर सावित किया कि वह मरी नहीं थी ।

[ भाद्र, २५४६ ]

---

## खासा नावेल

पहला पर्जिचंद्र

“अला-हो-अकवर” की ध्वनिसे रणभूमि प्रतिध्वनित हो उठी है।

एक ओर तीन लाख यवन-सेना है, दूसरी ओर तीन हजार आर्य-सेना। बाढ़के बीचमें अकेले पीपलके पेड़के समान हिन्दू वीरगण सारी गत और तमाम दिन युद्ध करते हुए अटल खड़े थे, परन्तु अब हार जानेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही भारतकी जयपताका जमीनपर गिर पड़ेगी, — आजकी इस अस्ताचलवर्ती सहस्र-रश्मिके साथ हिन्दुस्तानका गौरव-सूर्य हमेशाके लिए अस्त हो जायगा।

“हर हर, बोम् बोम् !” पाठक, बता सकते हो, कौन वह गर्वित युवक सिर्फ पैतीस अनुचरोंको लेकर नंगी तलवार हाथमें लिये थोड़ेपर सवार भारतकी अधिष्ठात्री देवीके हाथसे छोड़े गये दीप वज्रकी तरह शात्रु-सेनापर आ गिरा है ? बता सकते हो, किसके प्रतापसे यह अगणित

यत्वन सेना, प्रचंड तूकानसे घायल जंगली पेड़ोंकी तरह घबरा उठी है ? किसके बज्र-मन्दिर “हर हर, वोम् वोम्” शब्दसे तीन लाख म्लेच्छ-कण्ठकी “अह्मा-हो-अकवर” ध्वनि आकाशमें विलीन हो गई, किसकी चमचमाती तलवारके सामने व्याघ्रसे आक्रान्त भेड़के बच्चेकी तरह शत्रु-सेना क्षण-भरमें दुम दबाकर भागने लगी ? बता सकते हो, उस दिनके आर्य-स्थानके सूर्योदेव सहस्र रक्तकर-स्पर्शसे किसकी रक्ताक्त तलवारको आशीर्वाद देकर अस्ताचलपर विश्राम करने गये थे ? बता सकते हो पाठक ?

ये ही वे ललितसिंह हैं,—कांचीके सेनापति । भारत-इतिहासके ध्रुव-नक्षत्र ।

### द्वारा परिचय

**आ**ज कांची नगरमें क्यों इतना उत्सव है ? पाठक, जानते हो ? हर्म्य-शिखरपर जय-पताका क्यों इननी चंचल हो उठी है ? केवल हवाके ज्ञोरसे या आनन्दकी उमंगसे ? द्वार-द्वारपर कदली-वृक्ष और मंगल-घट रखे हुए हैं । घर-घरमें जयध्वनि हो रही है । मार्ग-मार्गपर दीपमालाएँ शोभित हैं । नगरीकी प्राचीरपर लोगोंकी बड़ी भीड़ लगी है । नगरके लोग किसके लिए इतने उत्सुक होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं ! सहसा पुरुष-कण्ठकी जयध्वनि और कामिनी-कण्ठकी हुलुध्वनि दोनों एक साथ मिलकर आकाश भेदती हुई नक्षत्र-लोककी ओर उदित हुई । नक्षत्र-पंक्ति पवनसे हिलती हुई दीपमालाकी तरह काँपने लगी ।

वह जो प्रमत्त तुरंगमपर सवार बीरवर पुर-द्वागसे प्रवेश कर रहा है, उसे पहचाना ? हाँ, ये ही हैं हमारे पूर्वपरिचित ललितसिंह,—कांचीके सेनापति । शत्रुओंका नाश करके अपने प्रभु कांची-गजके चरणोंमें शत्रु-रक्तसे रंगा हुआ खड़ भेट करने आये हैं, इसीलिए इनना उत्सव है ।

किन्तु इतनी जो जथध्वनि हो रही है, उस ओर सेनापतिका जरा भी ध्यान नहीं ; भरोग्वेंसे पुर-ललनायें इतनी जो पुष्पवृष्टि कर रही हैं, उधर उनकी दृष्टि तक नहीं जानी । वनके मार्गसे जब तृष्णातुर पथिक सरोवरकी ओर दौड़ता है, तब यदि उसके सिरपर सूखे पत्ते भर-भरकर गिरते हों, तो क्या वह उस तरफ ध्यान देता है ! अधीर-चित्त ललितसिंहको यह विपुल सम्मान उसी सूखे पत्तेकी भाँति नीरस, हल्का और अत्यन्त साधारण-सा मालूम हुआ ।

अन्तमें घोड़ा जब अन्तःपुरके प्रासादके सामने जा पहुंचा, तब क्षण-भरके लिए सेनापतिने हाथकी लगाम खींची, घोड़ा क्षण-भरके लिए ठिठक गया, ललितसिंहने एक बार प्रासादके भरोग्वेंकी ओर तृष्णित नेत्रोंसे देखा, क्षण-भरके लिए क्या देखते हैं कि दो लज्जानन नेत्र एक बार बिजलीकी तरह उनके मुँहपर पड़े, और दो अनिन्दित बाहुओंसे एक पुष्पमाला भरकर उनके सामने जमीनपर आ गिरी । उसी क्षण घोड़ेसे उतरकर उस मालाको किरीट-शिखापर उठा लिया, और एक बार कृतार्थ-दृष्टिसे ऊपरकी ओर देखा । तब तक भरोग्वेंका द्वार बंद हो चुका था—दीपक वुझ चुका था ।

## तीक्ष्णा परिच्छेद

**स**हस्त शत्रुओंके सामने जो अविचलित था, दो मृग-नेत्रोंके समक्ष, वह पराजित है ! सेनापति बहुत दिनोंसे, पत्थरके क़िलेकी तरह हृदयमें धैर्यकी रक्षा करते आये हैं ; कल शामकी बात है, दो काली-काली आँखोंकी सलज्ज ससम्भ्रम दृष्टिने उस क़िलेकी नींवपर जाकर चोट की है, और इतने दिनोंका धैर्य क्षण-भरमें धूलमें मिल गया है : परन्तु छिः, सेनापति, इससे क्या तुम्हें सन्ध्याके अन्धकारमें चोरकी तरह गज-अन्तःपुरके उद्यानकी प्राचीर लांघनी चाहिए थी । - मुवन-विजयी वीर-पुरुष तुम्हीं हो न !

परन्तु जो उपन्यास लिखता है, उसके लिए कहीं भी कोई बाधा नहीं ; द्वारपाल द्वारपर नहीं रोकते, असूर्यपश्य-रूपा रमणियां भी कुछ आपत्ति नहीं करतीं, अतएव इस सुरस्य वसन्त-सन्ध्यामें दक्षिण-वायु-बीजित गज-अन्तःपुरके निर्जन उद्यानमें एक बार प्रवेश करना चाहिए । — हे पाठिकाओ, तुम भी आओ ; और पाठकगण, इच्छा हो तो तुम भी पीछे-पीछे आ सकते हो ; मैं अभयदान देता हूँ ।

एक बार देखो तो, बकुल-वृक्षके नीचेकी तुण-शर्यापर सन्ध्याताराकी प्रतिमाके समान वह रमणी कौन है ? हे पाठक, हे पाठिका, तुम्हें कुछ मालूम है ? ऐसा रूप कहीं देखा है ? इस रूपका क्या कभी वर्णन किया जा सकता है ? भाषा क्या कभी किसी मन्त्र-बलसे ऐसे जीवन, यौवन और लावण्यसे भर सकती है ? हे पाठक ! तुम्हारा यदि दूसरा विवाह हुआ हो, तो खींके मुँहकी याद करो । हे रूपवती

पाठिका, जिस युवतीको दंखकर तुमने संगिनीसे कहा है—“यह ऐसी क्या देखनेमें अच्छी है, वहन ! हाँ, कुछ सुन्दर है, इससे क्या, पर वह बात नहीं है।”—उसके मुँहकी याद करो, उस वृक्षके नीचे बैठी हुई गजकुमारीके साथ उसका कुछ-कुछ सादृश्य पाओगी। पाठक और पाठिका, अब पहचाना ? ये ही गज-कन्या विद्युन्माला हैं।

गजकुमारी गोदमें फूल रखकर सिर झुकाये माला गूँथ रही हैं। गूँथते-गूँथते एक-एक बार उँगलियाँ अपने सुकुमार कार्यमें शिथिलता कर रही हैं—किसी एक अत्यन्त दूरवर्ती चिन्ता-राज्यमें ध्रमण कर रही है। गजकुमारी क्या सोच रही हैं ?

किन्तु हे पाठक, इस प्रश्नका उत्तर में नहीं दृँगा। कुमारीके एकान्त हृदय-मन्दिरके थीतर आज इस निस्तब्ध सन्ध्यामें जाने किस मर्त्य-देवताकी आरती हो रही है, अपवित्र कौतूहल लेकर वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वह देखो, एक दीर्घ-निःश्वास—पूजाकी सुगन्धि—धूपके धुएँकी तरह हवामें मिल गया, और आँसूके दो बिन्दु—दो सुकोमल कुसुम-कोशकके समान—अज्ञात देवताके चरणोंपर भर पड़े।

इतनेमें पीछेसे एक पुरुषका कण्ठ गंभीर आवेगसे कम्पित रुद्ध-स्वरसे बोल उठा—“गजकुमारी !”

गजकुमारी सहसा भयसे चीख उठीं। चारों तरफसे सिपाही दौड़े आये और अपराधीको कँद कर लिया। गज-कन्याको जब होश आया, तो देखा—सेनापति कँद कर लिये गये हैं।

### चौथा परिचय

**इस** अपराधमें प्राणदण्डका विधान है, किन्तु पूर्व-उपकारका स्मरण कर गजाने उन्हें निर्वासित कर दिया। सेनापतिने मन-ही-मन कहा—“देवी तुम्हारे नेत्र भी जब धोखा दे सकते हैं, तो सत्य संसारमें कहीं भी नहीं है। आजसे मैं मानव-जातिका शत्रु हूँ।” एक बड़े भारी दस्यु-दलके अधिपति होकर ललितसिंह वनमें बास करने लगे।

हे पाठक, हमनुम जैसे आदमी इस घटनापर क्या करते ? अवश्य ही जहां निर्वासित होते, वहां और एक नौकरीकी तलाश करते, अथवा एक नया अखबार निकाल देते। कुछ कष्ट अवश्य होता—अन्नके अभावसे, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु सेनापति जैसे महान् पुरुष, जो उपन्यासोंमें सुलभ और पृथ्वीपर दुर्लभ हैं, वे न तो नौकरी ही करते हैं और न अखबार ही निकालते। वे जब सुखसे गहते हैं, तब एक निःश्वासमें निखिल जगतका उपकार करते हैं, और मनोवांछाके तिलमात्र व्यर्थ होते ही आरक्ष-नेत्रोंसे कहते हैं—“राक्षसी पृथ्वी, पिशाच समाज, तेरी छातीपर पैर रखकर मैं बदला लूँगा,”—कहकर उसी क्षण दस्यु-व्यवसाय शुरू कर देते हैं। ऐसा अंग्रेजी काव्योंमें पढ़नेमें आता है, और अवश्य ही यह प्रथा गजपूतोंमें प्रचलित थी।

डकैतोंके उपद्रवसे देशके लोग त्रस्त हो उठे। परन्तु ये असाधारण डकैत अनाथोंके सहायक हैं, दरिद्रोंके बन्धु हैं, कमज़ोरोंके

आश्रय हैं; सिर्फ धनी, उच्चकुलके सम्ब्रान्त व्यक्ति और राजकर्मचारियोंके लिए कालान्तक यम हैं।

गहन वन है, सूर्य अस्तप्राय है, परन्तु पेड़ोंकी छायासे अकाल-रात्रिका आविर्भाव हुआ है। तरुण युवक अपरिचित मार्गसे अकेला जा रहा है। सुकुमार शरीर परिश्रमसे थक गया है, किन्तु फिर भी अध्यवसायका अन्त नहीं। कमरसे जा तलवार लटक रही है, उसका भी भार अस्वीकृत मालूम पंड रहा है। जंगलमें जगा-सा शब्द होते ही भयभीत-हृदय हरिणकी तरह चौंक उठता है, किन्तु फिर भी वह इस आसन्न-रात्रि और अज्ञात अगम्यमें दृढ़ संकल्पके साथ अप्रसर हो रहा है।

डक्टेंने आकर अपने सरदारसे कहा—“महाराज, बड़ा भागी शिकार मिला है। सिरपैर मुकुट है, गजाका वेश है, कमरमें तलवार भूल रही है।”

सरदारने कहा—“तो यह शिकार मैंग है। तुम सब यहीं रहो।

पथिकने चलते-चलते एक बार सहसा :सूखे पत्तोंका खस-खस शब्द सुना। उत्कंठिन : होकर चारों तरफ देखने लगा।

एकाएक छातीमें आकर तीर घुस गया, पथिक “मा” कहकर ज़मीनपर गिर पड़ा।

सरदारने पास जाकर, घुटने टेककर, झुककर धायलके मँहकी तरफ देखा। ज़मीनपर पड़े हुए पथिकने डकैतका हाथ पकड़कर सिर्फ एक बार मृदुस्वरसे कहा—“ललित !”

क्षणमें डकैतके हृदयके हजार टुकड़े हो गये—एक हाहाकार भग  
चीत्कार उठा—“गजकुमारी !”

और डकैतोंने आकर देखा, शिकार और शिकारी दोनों ही  
अन्तिम आलिङ्गनमें आवद्ध होकर मरे पड़े हैं।

राजकुमारीने एक दिन सन्ध्याके समय अपने अन्तःपुगके उच्चानमें  
अज्ञानसे ललितपर गजदण्ड छोड़ा था, ललितने और एक दिन  
सन्ध्याके समय अगण्यमें अज्ञानसे राजकुमारीपर तीर छोड़ा । संसारके  
बाहर यदि कहीं भी दोनोंका मिलन हुआ हो, तो आज दोनोंने  
दोनोंको शायद क्षमा कर दिया होगा ।

[ भाद्र, १६४६ ]

---

# परशुराम-रचित ‘भेडियाधसान’

हिन्दी-जगतमें यह एक अनोखी पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें आप ऊँचे दरजेका हास्यरस पायेंगे और लेखककी परिमार्जित सचिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे। और चित्रोंको देखकर तो मारे हँसीके आप लोट-पोट हो जायेंगे। पुस्तक देखकर तबीयत फड़क उठेगी। प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओंने इसकी मुक्तकाठसं प्रशंसा की है।

**देखिये, लम्बनऊकी ‘सुधा’ इसपर क्या लिखती है :—**

“.....कहाँ तक कहा जाय, जीवनके प्रत्येक पहलूमें—चाहे वह सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक—हिन्दू समाज ऐसा अन्धा बना हुआ है कि गड़ियेकी भेड़ोंके समान एकके पीछे सब कुएँमें गिरनेको तैयार रहते हैं।...समाजके इसी भेडियाधसानका एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत पुस्तकमें मौजूद है। पुस्तक प्रत्येक समाज-मुद्वार-प्रेमीके पढ़ने योग्य है। धन्यकुमारजीके मुहावरेदार हिन्दी-अनुवादने उसे और भी अच्छा बना दिया है।...प्रत्येक पृष्ठपर हमारे समाजके बनावटीपन और स्वार्थमय ढोगका एक सजीव चित्र मौजूद है। उसपर लेखककी व्यंग्यमय शैलीने उसे ऐसा तीव्र बना दिया है कि हृदयपर उसका प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं रह सकता। हमारी सम्मतिमें यह पुस्तक प्रत्येक नवयुवकको पढ़नी चाहिए। भाषा बड़ी चलती हुई है। इस सफल अनुवादके लिए श्रीयुत धन्यकुमारजीको बधाई। श्रीयुत यतीन्द्रकुमार सेनके बनाए हुए चित्रोंने कमाल कर दिखाया है। ऐसे सुन्दर और भाव-पूर्ण चित्र बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। बधाई और सफाईमें ‘विशाल-भारत’ कार्यालयने अच्छी उन्नति की है। पुस्तकपर बड़ी सुन्दर जिल्द है। इन सब खूबियोंको देखते हुए पुस्तकका मूल्य १॥) कुछ भी नहीं।”

**पता :—‘विशाल-भारत’, १२०१२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता।**

# साधारण जनताका सचित्र मासिक पत्र

## आपका साथी (Comrade)

(मूल्यांकित मूल्य)

(लिखेवाले का विदेशी नाम)



सम्पादक—बनारसीदास चतुर्वंदी। संचालक—रामानन्द चटोपाध्याय।

‘विशाल-भारत’ आपका गुरु नहीं, उपदेशक नहीं, वह आपका साथी है। वह इस बातका दावा नहीं करता कि वह किसी भी तरहसे साधारण जनतासे ऊँचा है। देखिये, ‘भारतमें अंग्रेजी राज्य’ के लेखक श्रीयुत सुन्दरलालजी अपने पत्रमें क्या लिखते हैं :—

“यह बड़े दुःखकी बात है कि शिक्षित हिन्दी-भाषा-भावियोंको या तो पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नेकी आदत नहीं, या जो पढ़ते हैं, उनमेंसे अधिकांशकी रुचि काफ़ी गिरी हुई है। यहां तक कि दुर्भाग्यवश हिन्दीके अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ भी उसी पतित रुचिको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न करती हैं; और जो थोड़े-बहुत लोग अच्छा साहित्य पढ़ते भी हैं, वे अंग्रेजीमें पढ़ते हैं। ‘विशाल-भारत’ इस समय हिन्दीके उन इन-गिने पत्रोंमेंसे है, जो सुशिक्षितसे सुशिक्षित मनुष्यके लिए उपयोगी और जो उच्चसे उच्च रुचि रखनेवालोंको भी रुचिकर हो सकता है। मेरी रायमें ‘विशाल-भारत’की सफलता हिन्दी पढ़नेवालोंकी रुचिकी उच्चताका एक पैमाना है।”

डा० सुधीनन्द बोस, एम॰ए०, पी-एच-डी० (अमेरिका) लिखते हैं :—  
“...“विशाल-भारत” अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र है। उसका दृष्टिकोण उदार है।...“विशाल-भारत” अपने ढंगका एक निराला ही पत्र है। हिन्दुस्तानमें इसके कमसे कम १० लाख पाठक होने चाहिये। अमेरिकामें तो इस तरहके उच्चकोटिके पत्रको इस लाख पाठक जरूर मिल जाते।”

पता :—‘विशाल-भारत’, १२०१२, अपर सर्कूलर रोड, कलकत्ता।





